



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2016/माघ 26, 1937

No. 411]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2016/MAGHA 26, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2016

का.आ. 481(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1611(अ), तारीख 17 जून 2015 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखंड राज्य के सरायकेला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 के कि.मी. 132.900 से कि.मी. 153.705 (पुरुलिया-बलरामपुर-चन्दिल सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 24 जुलाई 2015 को "दैनिक भास्कर" और "प्रभात खबर" में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुये थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 के कि.मी. 132.900 से कि.मी. 153.705 (पुरुलिया-बलरामपुर-चन्दिल पथांस) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	जिला का नाम	तालुक / तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
							(हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सरायकेला	रघुनाथपुर	आदरडीह (थाना/जे. एल. नं. 292)	462	निजी	डोन III	0.012	अमर कुमार पिता गोपाल कुम्हार
				463	निजी	डोन III	0.089	गुहीराम मंडल पिता भूषण मंडल एवं अन्य
				464	सरकारी	रास्ता	0.022	सरकारी
				465	निजी	पुरानी परती	0.091	सुधीर चन्द्र गोराई पिता स्व. देवु गोराई एवं अन्य
				474	निजी	डोन III	0.083	रत्नी देवी पति स्व. रूडु कुमार एवं अन्य
				475	निजी	डोन III	0.004	अगस्त प्रमाणिक पिता हाड़ीराम प्रमाणिक
				476	निजी	डोन III	0.032	अगस्त प्रमाणिक पिता हाड़ीराम प्रमाणिक एवं अन्य
				477	निजी	डोन III	0.02	शिवप्रसाद पान्डे पिता उमापद पान्डे एवं अन्य
				478	निजी	डोन III	0.002	नरेन्द्र नाथ कुमार पिता जनार्दन कुमार एवं अन्य
				479	निजी	गोड़ा II	0.018	नरेन्द्र नाथ कुमार पिता जनार्दन कुमार एवं अन्य
				482	निजी	डोन II	0.006	प्रेम कुमार मेहता पिता श्रवण कुमार मेहता
				483	निजी	डोन II	0.012	चितरंजन दत्ता पिता लक्ष्मी नारायण दत्ता एवं अन्य
				486	निजी	डोन II	0.014	सोहन गोराई
				487	निजी	डोन II	0.016	गुणधर कुमार पिता हीरालाल कुम्भकार
				503	निजी	डोन III	0.053	मधुसुदन चंद पिता मोहन चंद एवं अन्य
				505	निजी	गोड़ा II	0.014	निवासी नपीतानी पति कालीपद नपित एवं अन्य
				506	निजी	गोड़ा I	0.04	विमला गोराई पति अजित गोराई एवं अन्य
				507	सरकारी	रास्ता	0.004	सरकारी
				508	निजी	गोड़ा I	0.04	सन्तोष गोराई पिता खोका गोराई एवं अन्य
				510	सरकारी	रास्ता	0.008	सरकारी
				512	निजी	गोड़ा I	0.024	कालीपद गोराई पिता कमल गोराई
				514	निजी	गोड़ा I	0.04	दयामय रजक पिता हेम चन्द्र रजक एवं अन्य
				515	निजी	मकान/ साहान	0.016	आशुतोष चन्द्र खुदीवाला दासी अंश समान
				517	निजी	मकान/ साहान	0.006	पुर्णचन्द्र चन्द्र तथा चुनीलाल चन्द्र
				518	निजी	मकान/ साहान	0.006	गगन चन्द्र पिता चुनीलाल
				519	निजी	मकान/ साहान	0.008	गगन चन्द्र पिता चुनीलाल
				521	निजी	गोड़ा I	0.008	गुणाधर चन्द्र पिता आनन्द चन्द्र
				522	निजी	मकान/ साहान	0.008	ललिता कुम्हारीन पति भदु कुमार एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				529	निजी	गोड़ा ।	0.02	रविन्द्र नाथ गोरार्ई पिता स्व. चन्डी चरण गोरार्ई
				530	निजी	गोड़ा ।	0.014	श्रीमति सुनन्ता गोरार्ई पति रविन्द्र नाथ गोरार्ई
				534	निजी	गोड़ा ।	0.012	रघुवर कुम्हार पिता निलकमल कुम्हार
				535	निजी	गोड़ा ।	0.012	मोतीलाल एवं अन्य
				537	निजी	गोड़ा ।	0.012	द्वारिक कुम्हार एवं अन्य
				538	निजी	मकान/ साहान	0.012	बुद्धेश्वर हलधर पिता हरि हलधर एवं अन्य
				543	निजी	मकान/ साहान	0.012	भोला नाथ मंडल पिता वृन्दावन मंडल एवं अन्य
				544	निजी	गोड़ा ।	0.01	शत्रुधन कुम्हार पिता विनोद कुम्हार एवं अन्य
				545	निजी	मकान/ साहान	0.016	भोला नाथ कुम्हार पिता धरम दास कुम्हार
				548	निजी	गोड़ा ।	0.014	भगतलाल कुम्हार पिता मधु कुम्हार एवं अन्य
				549	निजी	गोड़ा ।	0.016	मदन चन्द्र पिता पुर्ण चन्द्र अन्य
				550	निजी	गोड़ा ।	0.012	वासन्ती कुम्हार पति ज्योति कुम्हार एवं अन्य
				553	निजी	गोड़ा ।	0.012	अश्वनी कुम्हार पिता स्व. जीतु कुम्हार एवं अन्य
				554	निजी	गोड़ा ।	0.026	अजीत कुम्हार पिता अमुल्यो कुम्हार एवं अन्य
				555	निजी	गोड़ा ।	0.02	कृष्ण कुमार दत्त पिता जलधर दत्त एवं अन्य
				563	निजी	मकान/ साहान	0.026	मृत्यंजय चंद पिता स्व. गोविन्द चंद एवं अन्य
				564	निजी	मकान/ साहान	0.026	प्रसन्न कुम्हार पिता स्व. जलधर कुम्हार
				565	निजी	खम्हाड़	0.018	नगेन कुम्हार पिता स्व. दुखु कुम्हार एवं अन्य
				992	सरकारी	रास्ता	0.012	सरकारी
				994	निजी	गोड़ा ।	0.004	माधुरी हलधर पति स्व. विनोद हलधर एवं अन्य
				995	निजी	गोड़ा ।	0.002	गुहीराम कुम्हार एवं अन्य
				996	निजी	गोड़ा ।	0.008	मालती दत्त पति गंगा सागर दत्त एवं अन्य
				997	निजी	गोड़ा ।	0.006	गुहीराम कुम्हार एवं अन्य
				998	निजी	गोड़ा ।	0.012	हितेश कुमार पिता स्व. ठाकुर दास कुमार एवं अन्य
				999	निजी	मकान/ साहान	0.006	कृष्ण दत्त पिता जलधर दत्त एवं अन्य
				1000	निजी	मकान/ साहान	0.006	चितरंजन कुम्हार पिता लक्ष्मी राय कुम्हार
				1001	निजी	डोन ॥	0.022	वलदेव प्रमाणिक पिता वैद्यनाथ प्रमाणिक एवं अन्य
				1023	निजी	डोन ॥	0.03	लक्ष्मीकान्त कुमार पिता स्व. पदमोचन कुमार
				1024	निजी	डोन ॥	0.006	विपत तारन नाग पिता स्व. वगसी मोहन नाग
				1025	निजी	डोन ॥	0.047	मोहित महन्त गोरार्ई पिता स्व. मनु गोरार्ई एवं अन्य
				1026	निजी	डोन ॥	0.024	पूर्ण गोरार्ई पिता स्व. जगन्नाथ गोरार्ई एवं अन्य
				1027	निजी	डोन ॥	0.026	धनजय चन्द्र चंद पिता स्व. चुनीलाल चंद एवं अन्य
				1028	निजी	डोन ॥	0.008	भक्त रंजन चंद पिता स्व. चुनीलाल चंद
				1029	निजी	मकान/ साहान	0.022	भीम कुम्हार पिता बाबुराम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						साहान		कुम्हार जाति कुम्हार
				1046	निजी	मकान/ साहान	0.014	चितरंजन प्रमाणिक पिता स्व0 कालिपदा प्रमाणिक एवं अन्य
				1047	निजी	डोन III	0.014	पागला चन्द्र चंद भोलानाथ चंद पिता स्व. आशुतोष चन्द्र चंद
				1048	निजी	डोन III	0.014	पुनुवाला गोरार्ई पति स्व. वसन्तो गोरार्ई
				1049	निजी	डोन III	0.016	विन्दो कुमार पिता उदव कुम्हार एवं अन्य
				1059	निजी	गोड़ा II	0.02	तरनी प्रमाणिक पिता नकुल प्रमाणिक एवं अन्य
				1061	निजी	रास्ता	0.008	तरनी प्रमाणिक पिता नकुल प्रमाणिक एवं अन्य
				1072	निजी	गोड़ा II	0.02	अगस्त कुम्हार पिता अनील वरण कुम्हार एवं अन्य
				1073	निजी	गोड़ा II	0.022	मृणाल कान्ति कुम्हार पिता स्व. गौरहरी कुम्हार एवं अन्य
				1076	निजी	गोड़ा II	0.032	उषावाला पति महेन्द्र कुम्हार एवं अन्य
				1077	निजी	गोड़ा II	0.055	वंकीम चन्द्र गोरार्ई पिता लखी नारायण गोरार्ई एवं अन्य
				1078	निजी	डोन III	0.067	जानकी देवी पति अभिराम कुम्हार एवं अन्य
				1088	निजी	डोन III	0.138	लखीन्द्र कुम्हार पिता श्री नन्दलाल कुम्हार एवं अन्य
				1089	निजी	डोन III	0.001	गुहीराम कुम्हार एवं अन्य
				1107	निजी	डोन III	0.028	निकील चन्द्र कुम्हार पिता स्व. खादु कुम्हार एवं अन्य
				1108	निजी	डोन III	0.109	नीघू सिंह सरदार पिता स्व. आनन्द सिंह सरदार एवं अन्य
				1115	निजी	डोन III	0.093	गोरखनाथ जयसवाल पिता चन्द्रिका प्रसाद जयसवाल एवं अन्य
				1116	निजी	डोन III	0.032	गोरखनाथ जयसवाल पिता चन्द्रिका प्रसाद जयसवाल एवं अन्य
				1117	निजी	डोन III	0.089	श्रीमति वेदनी नापितानी पति मधुसूदन नापित एवं अन्य
				1122	निजी	डोन III	0.156	पशुपति सिंह पिता स्व. बलराम सिंह एवं अन्य
				1123	निजी	पुरानी परती	0.097	अरुण नाग पिता स्व. गोपाल नाग एवं अन्य
				1424	सरकारी	रास्ता	0.004	सरकारी
				1127	निजी	डोन I	0.14	श्रीकान्त कुमार पिता स्व. सुभाष कुम्हार एवं अन्य
				1128	निजी	डोन II	0.067	परिक्षित कुमार पिता स्व. रास बिहारी कुमार एवं अन्य
				1438	निजी	गोड़ा I	0.006	गौरी शंकर कुम्हार पिता स्व. रत्ती कुम्हार एवं अन्य
				1439	निजी	गोड़ा I	0.004	रेनुवाला कुमारी पति श्री साधु कुमार
				1440	निजी	डोन III	0.018	समला मंडल पति सागर मंडल एवं अन्य
				1449	निजी	डोन III	0.042	माधुरी कुम्हारीन पति वलराम कुम्हार एवं अन्य
				1450	निजी	डोन III	0.008	फुलचांद गोरार्ई पिता आनन्द गोरार्ई एवं अन्य
				1452	सरकारी	स्कूल	0.069	सरकारी
				1453	सरकारी	बाजार	0.095	सरकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1458	सरकारी	गोड़ा ।।	0.002	सरकारी
				1459	सरकारी	गोड़ा ।।	0.01	सरकारी
				1473	निजी	गोड़ा ।	0.008	सुनील सिंह, अनील सिंह पिता तिलक सिंह
				1474	निजी	डोन ।।	0.012	जीतन सिंह पिता मोती सिंह
				1583	सरकारी	पुरानी परती	0.022	सरकारी
				1585	निजी	डोन ।।	0.13	हरिप्रसाद जलान पिता श्री सीताराम जलान एवं अन्य
				1586	निजी	डोन ।।	0.022	श्रीमति उजाला कुम्हारीन पति चैतन कुम्हार
				1587	निजी	डोन ।।	0.018	श्रीमति उजाला कुम्हारीन पति चैतन कुम्हार
				1588	निजी	डोन ।।	0.01	पुर्ण गोराई पिता जेतु गोराई एवं अन्य
				1589	निजी	डोन ।।	0.016	गंगाधर गोराई पिता जतीन्द्र नाथ गोराई एवं अन्य
				1590	निजी	डोन ।।	0.012	सुरेन्द्र गोराई पिता केशो गोराई एवं अन्य
				1591	निजी	डोन ।।	0.022	रसमई नाग पति वसन्त नाग
				1592	निजी	डोन ।।	0.006	निवारन धोबा पिता दिनु धोबा
				1593	निजी	डोन ।।	0.012	वैकुण्ठ कोहर पिता रिदई कोहर
				1594	निजी	डोन ।।	0.016	वैकुण्ठ कोहर पिता रिदई कोहर
				1599	निजी	डोन ।।	0.032	विश्वरंजन महतो पिता स्व. धनजय महतो एवं अन्य
				1600	निजी	डोन ।।	0.026	धर्मशिला देवी पति धनजय सिंह एवं अन्य
				1601	निजी	डोन ।।	0.014	गाऊर दास पिता राम दास
				1603	निजी	डोन ।।	0.02	चारुवाला दासी पति वसन्तो कुमार
				1604	निजी	डोन ।।	0.028	गटाधर गोराई पिता हरेन्द्र नाथ गोराई
				1606	निजी	डोन ।।	0.051	श्रीमती रसमई नाग पति वसन्त नाग
				1607	निजी	डोन ।।	0.016	कालीपद गोराई पिता स्व. शिवपदो गोराई
				1608	निजी	डोन ।।	0.018	कालीपद गोराई पिता स्व. शिवपदो गोराई
				1609	निजी	डोन ।।	0.067	श्यामलाल मुनका पिता स्व. कन्हाई मुनका एवं अन्य
				1622	निजी	डोन ।।	0.059	यदु कुम्हार एवं अन्य
				1623	निजी	डोन ।।	0.016	डोमन कुम्हार पिता वृदावन कुम्हार एवं अन्य
				1630	निजी	डोन ।।	0.059	अनुपम कुमार नाग पिता स्व. गणेश चन्द्र नाग एवं अन्य
				1631	निजी	डोन ।।	0.038	सनत कुम्हार पिता स्व. शिवशंकर कुम्हार एवं अन्य
				1642	निजी	डोन ।।	0.051	साम सुन्दर सिंह पिता माधव सिंह
				1643	निजी	डोन ।।	0.036	श्री नित्यानन्द मंडल पिता स्व. नीलमोहन मंडल एवं अन्य
				1644	निजी	डोन ।।	0.038	राजकिशोर कुम्भकार पिता स्व. गोराचंद कुम्भकार एवं अन्य
				1647	निजी	डोन ।।	0.042	जयन्त कुमार पिता कोंका कुमार एवं अन्य
				1649	निजी	डोन ।।	0.018	कल्पना पति लेदा सिंह एवं अन्य
				1670	सरकारी	रास्ता	0.006	सरकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1671	निजी	गोड़ा ।	0.085	बलराम कुम्हार पिता स्व. उमाचरण एवं अन्य
				1672	निजी	गोड़ा ।	0.012	उमाचरण कुम्हार पिता कविराज कुम्हार एवं अन्य
				1673	सरकारी	तालाब	0.095	सरकारी
				1675	सरकारी	पुरानी परती	0.053	सरकारी
				1676	सरकारी	रास्ता	0.002	सरकारी
				1870	निजी	डोन ॥	0.03	भास्कर सिंह पिता वृदावन सिंह एवं अन्य
				1871	निजी	गोड़ा ॥	0.075	गौतम मंडल पिता हाडीराम मंडल एवं अन्य
				1873	सरकारी	रास्ता	0.008	सरकारी
				1875	सरकारी	पुरानी परती	0.012	सरकारी
				1876	सरकारी	मोटियार	0.008	सरकारी
				1877	सरकारी	पुरानी परती	0.051	सरकारी
				1878	निजी	डोन ॥	0.024	वैकुण्ठ कुम्हार पिता रिछई कुम्हार
				1977	निजी	डोन ॥	0.053	भोलानाथ मंडल पिता स्व. वृन्दावन मंडल
				1983	निजी	डोन ॥	0.018	दलगोविन्द कुम्हार पिता स्व. अनन्त वन्धु कुम्हार एवं अन्य
				1984	निजी	डोन ॥	0.02	यादु कुम्हार एवं अन्य
				2001	निजी	डोन ॥	0.018	यादु कुम्हार एवं अन्य
				2002	निजी	डोन ॥	0.026	नारायण चन्द्र पिता सनातन कुम्हार एवं अन्य
				2006	निजी	डोन ॥	0.008	यादु कुम्हार तिलक कुम्हार एवं अन्य
				2007	निजी	डोन ॥	0.02	मोहन चंद पिता चुनीलाल एवं अन्य
				2008	निजी	डोन ॥	0.02	विजय जलान, कमल जलान एवं अन्य
				2023	निजी	डोन ॥	0.024	उनासी मंडल पति सनत मंडल
				2026	निजी	डोन ॥	0.022	गोर गोर्राई पिता दुर्गा चरण गोर्राई
				2027	निजी	डोन ॥	0.022	गोकुल रजक एवं अन्य
				2031	निजी	डोन ॥	0.024	दारा कुम्भकार पिता कर्म कुम्भकार एवं अन्य
				2032	निजी	डोन ॥	0.014	विजय कुमार मंडल पिता डोमन मंडल एवं अन्य
				2034	निजी	डोन ॥	0.008	वैकुण्ठ कोहर पिता रिदई कोहर
				2037	निजी	डोन ।	0.008	संतोष रजक तथा पोखरमल रजक
				2038	निजी	डोन ।	0.018	श्रीमती रसमई नाग पति वसन्त नाग
				2049	निजी	डोन ॥	0.028	महेन्द्र गोर्राई पिता भोंदु गोर्राई एवं अन्य
				2050	निजी	डोन ॥	0.008	कालीपदो गोर्राई पिता साधु गोर्राई एवं अन्य
				2051	निजी	डोन ॥	0.008	पुर्ण गोर्राई पिता साधु गोर्राई
				2053	सरकारी	पलास जंगल	0.012	सरकारी
				2055	निजी	डोन ॥	0.036	श्याम विहारी अग्रवाल एवं अन्य
				2056	निजी	डोन ॥	0.055	श्याम विहारी अग्रवाल एवं अन्य
				2057	निजी	डोन ॥	0.087	मोडे कुमार पिता गुरु चरण कुमार एवं अन्य
				2059	निजी	पुरानी परती	0.026	जगरनाथ महतो पिता स्व. अमर नाथ महतो एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1707 / 2372	निजी	डोन II	0.008	पुर्ण मोदनी पति साधु कुमार
				1672 / 2377	निजी	डोन II	0.038	हिमेश कुम्हार, पिता ठाकुरदास कुम्हार एवं अन्य
				1976	निजी	डोन II	0.061	पुनम कुमारी पति अजय कुमार एवं अन्य
		रघुनाथपुर (थाना/जे. एल.न. 288)		1186	निजी	डोन III	0.061	जोति महतो एवं अन्य
				1187	निजी	डोन III	0.032	पदुन महतो पिता त्रिलोचन महतो एवं अन्य
				1188	निजी	डोन III	0.024	नरेन्द्र नाथ महतो, पिता अतुल महतो एवं अन्य
				1189	निजी	पुरानी परती	0.006	सनातन महतो, पिता हरेकृष्ण महतो एवं अन्य
				1421	निजी	मकान/ साहान	0.004	सुभाष पांडेय पिता भीष्म देव पाण्डेय।
				1422	निजी	मकान/ साहान	0.002	अश्विनी कुमार पांडेय, पिता सर्वेश्वर पांडेय एवं अन्य
				1424	निजी	गोड़ा।	0.014	अश्विनी कुमार पांडेय, पिता सर्वेश्वर पांडेय एवं अन्य
				1428	निजी	गोड़ा।	0.006	अश्विनी कुमार पांडेय, पिता सर्वेश्वर पांडेय एवं अन्य
				1429	सरकारी	पुरानी परती	0.004	सरकारी
				1430	निजी	मकान/ साहान	0.004	सोमवारी महली पति छट्टु महली।
				1434	निजी	मकान/ साहान	0.006	बुद्धेश्वर महली पिता भीम महली एवं अन्य
				1435	निजी	गोड़ा।	0.014	सुर्चोद महतो पिता अघनु महतो एवं अन्य
				1437	निजी	मकान/ साहान	0.008	जग्रनाथ महतो, पिता अमर महतो एवं अन्य
				1438	निजी	मकान/ साहान	0.014	जग्रनाथ महतो, पिता अमर महतो एवं अन्य
				1440	निजी	गोड़ा।	0.018	अक्षय महतो, पिता नरोत्तम महतो एवं अन्य
				1441	निजी	गोड़ा II	0.032	अमीर्यो रंजन महतो, माता नूनकी महातानी एवं अन्य
				1442	निजी	गोड़ा II	0.032	विजय महतो पिता रामपद एवं अन्य
				1448	निजी	गोड़ा।	0.097	मालती महतो पति थुलु महतो एवं अन्य
				1449	निजी	मंदिर	0.069	जगन्नाथ महतो पिता अमर महतो एवं अन्य
				1450	सरकारी	कृषी रहित	0.008	सरकारी
				1591	निजी	गोड़ा।	0.024	राजकुमारी महली पति अजित महली एवं अन्य
				1592	निजी	गोड़ा।	0.014	कंदार नाथ गोराई पिता किर्तिवास एवं अन्य
				1593	निजी	गोड़ा।	0.012	झालिका सिंह पति
				1596	निजी	पुरानी परती	0.061	ईन्दु गोस्वामी पति राम कमल गोस्वामी एवं अन्य
				1597	निजी	डोन III	0.016	वरजु राम सिंह पिता भरत सिंह
				1598	निजी	डोन III	0.036	विजय कृष्ण नाग पिता दुलाल नाग एवं अन्य
				1599	सरकारी	कृषी रहित	0.006	सरकारी
				1607	निजी	डोन III	0.032	आधनु महतो पिता आदु महतो एवं अन्य
				1608	निजी	डोन II	0.026	गंगाधर महतो पिता गोर्वधन महतो एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1612	निजी	डोन ।।।	0.026	आलोक कु० नाग पिता गुरुप्रसाद सिंह एवं अन्य
				1613	निजी	डोन ।।।	0.018	मधुसुदन चन्द्र पिता मोहन चन्द्र एवं अन्य
				1614	निजी	डोन ।।	0.022	भक्त रंजन चन्द्र पिता चुनिलाल चन्द्र एवं अन्य
				1615	निजी	डोन ।।	0.006	दिनबन्धु प्रमाणिक पिता अतुल प्रमाणिक ।
				1619	निजी	डोन ।।।	0.018	सुनिता गोरई पति सन्तोष गोरई एवं अन्य
				1620	निजी	डोन ।।।	0.014	मीरा देवी पति सन्तोष कुमार महतो एवं अन्य
				1623	निजी	डोन ।।।	0.02	कालीपद दास पिता सुधिर दास एवं अन्य
				1624	निजी	डोन ।।	0.032	प्रविर कुमार पालित पिता अनुकुल पालित एवं अन्य
				1627	निजी	डोन ।।	0.008	सुकदेव माझी पिता लालु माझी एवं अन्य
				1629	निजी	डोन ।।	0.01	मन्दु कुमार पिता वैद्यनाथ कुमार एवं अन्य
				1726	निजी	डोन ।।।	0.047	शषधर गोरई पिता मोतीलाल गोरई एवं अन्य
				1728	निजी	पुरानी परती	0.03	खगेन्द्र नाथ महतो पिता पुईतु महतो एवं अन्य
				1729	निजी	गोड़ा ।।	0.067	शिशिर कुमार नाग पिता विश्वनाथ नाग एवं अन्य
				1730	निजी	गोड़ा ।।	0.006	पद्यावती महली पति गोविन्द महली एवं अन्य
				1731	निजी	मकान/ साहान	0.006	कुषुम महली पति दुलाल महली
				1732	निजी	गोड़ा ।।।	0.006	कुषुम महली पति दुलाल महली
				1733	सरकारी	पुरानी परती	0.085	सरकारी
				1749	सरकारी	पुरानी परती	0.012	सरकारी
				1752	निजी	डोन ।।।	0.016	फुकराम माझी पिता सिगराय माझी एवं अन्य
				1756	सरकारी	पुरानी परती	0.004	सरकारी
				1757	निजी	पुरानी परती	0.004	शिव प्रसाद पाण्डे पिता कालीपद पाण्डेय
				1758	निजी	डोन ।।।	0.016	खान्दु महतो पिता मोहन महतो एवं अन्य
				1759	निजी	डोन ।।।	0.081	सुचॉद महतो पिता अघनु महतो एवं अन्य
				1760	निजी	डोन ।।।	0.04	सुचांद महतो एवं अन्य
				1762	निजी	डोन ।।।	0.012	विजय महतो पिता रामपद महतो एवं अन्य
				1763	निजी	डोन ।।।	0.067	भोला नाथ योगी पिता ब्रह्म देवी योगी एवं अन्य
				1764	निजी	डोन ।।।	0.121	वन विहारी सरदार पिता गहन सिंह सरदार एवं अन्य
				1765	निजी	डोन ।।।	0.004	रामजीवन महली पिता वारसा महली एवं अन्य
				1788	निजी	डोन ।।	0.012	गया महतो पिता
				2037	निजी	गोड़ा ।	0.022	प्रमोद सिंह पिता शम्भु सिंह
				2038	निजी	पुरानी परती	0.036	प्रमोद सिंह पिता शम्भु सिंह
				2039	निजी	पुरानी परती	0.036	आशा महली पिता कुईला महली एवं अन्य
				2040	निजी	पुरानी परती	0.006	आशा महली पिता कुईला महली एवं अन्य
				2042	निजी	पुरानी परती	0.002	मगला योगी पिता धनु योगी एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2043	निजी	डोन ।।।	0.036	मगला योगी पिता धनु योगी एवं अन्य
				2046	निजी	डोन ।।।	0.016	मगला योगी पिता धनु योगी एवं अन्य
				2047	निजी	गोड़ा ।	0.012	मगला योगी पिता धनु योगी एवं अन्य
				2048	निजी	मकान/ साहान	0.012	मगला योगी पिता धनु योगी एवं अन्य
				2049	निजी	गोड़ा ।	0.012	तारापद हाजरा पिता मधुसूदन हाजरा एवं अन्य
				2050	निजी	मकान/ साहान	0.008	निताई महतो पिता जगबन्धु महतो एवं अन्य
				2051	निजी	गोड़ा ।	0.006	निताई महतो पिता जगबन्धु महतो एवं अन्य
				2056	निजी	मकान/ साहान	0.008	गोरहरी महतो पिता स्व. षष्टि महतो एवं अन्य
				2057	निजी	मकान/ साहान	0.008	गोपी वल्लभ दास पिता त्रिलोचन दास एवं अन्य
				2058	निजी	गोड़ा ।	0.012	चित्तो दास पिता पद्योलोचन दास एवं अन्य
				2059	निजी	मकान/ साहान	0.002	सत्यनारायण दास पिता दीनबन्धु दास
				2060	निजी	गोड़ा ।।	0.024	सत्यनारायण दास पिता दीनबन्धु दास
				2068	निजी	गोड़ा ।।।	0.004	जलेश्वर मंडल पति सन्तोष कुमार मंडल एवं अन्य
				2069	निजी	गोड़ा ।।।	0.085	जलेश्वर मंडल पति सन्तोष कुमार मंडल एवं अन्य
				2140	निजी	मकान/ साहान	0.016	श्रीपती महली एवं अन्य
				2141	निजी	गोड़ा ।	0.016	लवकुश प्रमाणिक पिता वैद्यनाथ प्रमाणिक एवं अन्य
				2142	निजी	गोड़ा ।	0.202	अग्नू महली पिता हलधर महली एवं अन्य
				2147	निजी	गोड़ा ।	0.002	कार्तिक महली पिता मोती महली
				2148	निजी	मकान/ साहान	0.002	कार्तिक महली पिता मोती महली
				2184	निजी	गोड़ा ।।।	0.024	प्रशांत कुमार जोना पिता
				2185	निजी	मकान/ साहान	0.004	सुधीर माहतो पिता राम माहतो एवं अन्य
				2187	निजी	पोखर	0.121	वैद्यनाथ माहतो पिता मुकुन्द माहतो एवं अन्य
				2196	निजी	डोन ।।।	0.049	खगेन्द्र नाथ महतो पिता रवींद्र महतो एवं अन्य
				2197	निजी	डोन ।।।	0.032	लालू योगी पिता
				2198	निजी	डोन ।।।	0.018	मनोरंजन माहतो पिता धनंजय माहतो एवं अन्य
				2202	निजी	डोन ।।।	0.014	मनोरंजन माहतो पिता धनंजय माहतो एवं अन्य
				2203	निजी	डोन ।।	0.051	मुकुन्द माहतो पिता छुट्टु माहतो एवं अन्य
				2204	निजी	डोन ।।	0.03	मुगल किशोर सिंह पिता सदाई सिंह एवं अन्य
				2582	सरकारी	खन्ती	0.008	सरकारी
				2583	सरकारी	रास्ता	0.014	सरकारी
				2584	सरकारी	खन्ती	0.01	सरकारी
				2611	निजी	डोन ।।	0.026	श्रवण सिंह पिता नयन सिंह एवं अन्य
				2612	निजी	गोड़ा ।।।	0.049	श्रीमति छाया रानी गोरई पत्नी मिहिर चन्द्र गोरई एवं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								अन्य
				2613	निजी	गोड़ा III	0.03	सुनीत कुमार नाग पिता सपन नाग और अन्य
				2621	निजी	गोड़ा III	0.073	सुदीप सिंह सरदार पिता गहन सिंह सरदार एवं अन्य
				2626	निजी	गोड़ा II	0.008	मंगल सिंह पिता नयन सिंह एवं अन्य
				2627	निजी	गोड़ा II	0.008	मंगल सिंह पिता नयन सिंह एवं अन्य
				2628	निजी	गोड़ा II	0.008	मंगल सिंह पिता नयन सिंह एवं अन्य
				2629	निजी	गोड़ा II	0.008	मंगल सिंह पिता नयन सिंह एवं अन्य
				2630	निजी	मकान/ साहान	0.008	ज्योति माहतो पिता छुट्टु माहतो
				2631	निजी	गोड़ा I	0.016	ज्योति माहतो पिता छुट्टु माहतो
				2633	निजी	गोड़ा II	0.04	मिंदु चन्द पिता जगन्नाथ चौद एवं अन्य
				2637	निजी	गोड़ा II	0.016	कमलकान्त महतो पिता परेश महतो एवं अन्य
				2638	निजी	मकान/ साहान	0.008	कमलकान्त महतो पिता परेश महतो एवं अन्य
				2639	निजी	गोड़ा II	0.006	भरत महतो पिता शंकर महतो एवं अन्य
				2640	निजी	मकान/ साहान	0.016	ज्योती महतो मकुन्द महतो पिता छुट्टु महतो एवं अन्य
				2649	निजी	मकान/ साहान	0.014	शुकु महतो पिता एवं अन्य
				2650	निजी	मकान/ साहान	0.012	बुद्धेश्वर महतो पिता रघुनाथ महतो एवं अन्य
				2658	निजी	गोड़ा III	0.049	विष्णु महतो पिता निवारण महतो एवं अन्य
				2659	निजी	गोड़ा I	0.014	अघनु महते भूषु महतो पिता आदु महतो अंश एवं अन्य
				2669	निजी	गोड़ा I	0.014	ज्योती महतो पिता छुट्टु महतो एवं अन्य
				2670	निजी	गोड़ा I	0.022	विभिषण महतो पिता शुकु महतो
				2671	निजी	गोड़ा II	0.032	गोपाल नाग पिता केदार नाग एवं अन्य
				2184/ 2714 P	निजी	गोड़ा III	0.02	फटिक प्रमाणिक पिता गौर प्रमाणिक एवं अन्य
			तिल्ला (थाना/जे. एल.न. 284)	285	सरकारी	गोड़ा III	0.045	सरकारी
				286	निजी	गोड़ा III	0.002	दुर्गाचरण गोरार्ई पिता तारा चन्द्र गोरार्ई
				287	निजी	गोड़ा II	0.012	ईन्द्रजीत गोरार्ई पिता राखाल गोरार्ई एवं अन्य
				288	निजी	मकान/ साहान	0.004	ईन्द्रजीत गोरार्ई पिता राखाल गोरार्ई एवं अन्य
				289	निजी	गोड़ा II	0.038	अलती पत्नी विशु गोरार्ई
				290	निजी	मकान/ साहान	0.008	अलती पत्नी विशु गोरार्ई
				291	निजी	गोड़ा II	0.014	अलती पत्नी विशु गोरार्ई
				295	निजी	गोड़ा III	0.014	अगनु माहतो पिता पदु माहतो एवं अन्य
				296	निजी	गोड़ा III	0.028	अगनु माहतो पिता पदु माहतो एवं अन्य
				297	निजी	मकान/ साहान	0.018	हरि माहतो पिता खंडी माहतो एवं अन्य
				298	निजी	मकान/ साहान	0.02	सतोष माहतो पिता भरत माहतो एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				299	निजी	मकान/ साहान	0.024	निर्मल माहतो पिता स्व० रिर्कार्ड माहतो एवं अन्य
				300	निजी	गोड़ा ।।।	0.014	दुखु माहतो पिता लूङ्ग माहतो एवं अन्य
				301	निजी	मकान/ साहान	0.008	नारद माहतो पिता खोकु माहतो एवं अन्य
				302	निजी	मकान/ साहान	0.01	सर्वेश्वर माहतो पिता कार्तिक माहतो एवं अन्य
				303	निजी	मकान/ साहान	0.016	धनन्जय माहतो पिता करमू माहतो एवं अन्य
				333	निजी	डोन ।।।	0.002	सुरेन्द्र कुम्हार पिता खदेन्द्र कुम्हार एवं अन्य
				338	निजी	मकान/ साहान	0.02	साधुचरण माहतो पिता सुर्चोद माहतो एवं अन्य
				339	निजी	गोड़ा ।	0.014	हरेकृष्ण माहतो पिता सारधन माहतो एवं अन्य
				341	सरकारी	पुरानी परती	0.073	सरकारी
				343	निजी	डोन ।।।	0.014	हरि माहतो पिता खदू माहतो एवं अन्य
				347	सरकारी	रास्ता	0.014	सरकारी
				352	निजी	गोड़ा ।।	0.077	पदु माहतो पिता मिथू माहतो एवं अन्य
				353	निजी	गोड़ा ।	0.001	श्रीपती माहतो पिता पदु माहतो एवं अन्य
				354	निजी	गददा	0.036	श्रीपती माहतो पिता पदु माहतो एवं अन्य
				359	सरकारी	पुरानी परती	0.065	सरकारी
				360	निजी	मकान/ साहान	0.016	लक्षण माहतो पिता विचनदी माहतो एवं अन्य
				362	निजी	गोड़ा ।	0.036	चैतन महतो पिता प्रेम महतो
				364	निजी	गोड़ा ।	0.022	श्रावण महतो पिता रसिक महतो एवं अन्य
				366	निजी	गोड़ा ।।।	0.081	खगेन्द्र नाथ गोरार्ई पिता स्व. राखाल गोरार्ई एवं अन्य
				395	निजी	गोड़ा ।।	0.073	रेंगटु महतो पिता गंगधर महतो एवं अन्य
				399	निजी	गोड़ा ।।	0.055	रेंगटु महतो पिता गंगधर महतो एवं अन्य
				401	निजी	डोन ।।।	0.014	कालीपद कुम्हार पिता उटेल कुम्हार एवं अन्य
				402	निजी	मकान/ साहान	0.004	विश्वनाथ कुम्हार पिता महिन्द्र कुम्हार ।
				404	निजी	पुरानी परती	0.028	सुरेन्द्र कुम्हार पिता महिन्द्र कुम्हार एवं अन्य
				405	निजी	मकान/ साहान	0.012	विश्वनाथ कुम्हार पिता महिन्द्र कुम्हार ।
				761	निजी	डोन ।।।	0.022	श्रीमती सरला भूमिजानी पति.
				762	निजी	डोन ।।।	0.012	केशरी भूमिजानी पति बाउरी भूमिज
				766	निजी	डोन ।	0.445	कालु राम सिंह सरदार पिता कमल सिंह एवं अन्य
				767	निजी	डोन ।	0.089	घन्टु भूमिज माता चम्पा भूमिजानी एवं अन्य
				768	निजी	डोन ।	0.045	घन्टु भूमिज माता चम्पा भूमिजानी एवं अन्य
				769	सरकारी	पुरानी परती	0.283	सरकारी
				775	निजी	डोन ।	0.036	सरला भूमिजानी पिता महादेव भूमिज एवं अन्य
				776	सरकारी	पुरानी परती	0.486	सरकारी
				777	सरकारी	गददा	0.016	सरकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				778	निजी	गोड़ा ।।।	0.097	सुकरमनी भुमिजाता माता थोपी भुमिजानी एवं अन्य
				779	सरकारी	पुरानी परती	0.162	सरकारी
				780	निजी	गोड़ा ।।	0.109	शम्भु सिंह पिता जगन्नाथ सिंह एवं अन्य
				781	सरकारी	पुरानी परती	0.022	सरकारी
				782	निजी	गोड़ा ।।	0.061	हर मोहन सिंह पिता बुद्धशेखर सिंह
				783	निजी	गोड़ा ।	0.194	त्रिभन सिंह पिता मोती सिंह एवं अन्य
				784	निजी	मकान/ साहान	0.012	त्रिभन सिंह पिता मोती सिंह एवं अन्य
				785	निजी	मकान/ साहान	0.004	चन्द्र कुम्हार पिता रोहिन कुम्हार एवं अन्य
				786	निजी	गोड़ा ।	0.081	चन्द्र कुम्हार पिता रोहिन कुम्हार एवं अन्य
				787	निजी	मकान/ साहान	0.004	स्वपन कुम्हार पिता सुरेश कुम्हार एवं अन्य
				788	निजी	मकान/ साहान	0.012	कार्तिक सिंह पिता अर्जुन सिंह एवं अन्य
				789	निजी	मकान/ साहान	0.004	चपला देवी पति भजोहरी कुम्हार एवं अन्य
				790	निजी	गोड़ा ।	0.02	नन्दलाल कुम्हार पिता अतकी कुम्हार ।
				791	निजी	खलियान	0.016	शुकमनी भुमिजानी माता थोपी भुमिजानी एवं अन्य
				792	निजी	मकान/ साहान	0.008	शुकमनी भुमिजानी माता थोपी भुमिजानी एवं अन्य
				794	निजी	मकान/ साहान	0.016	शुकमनी भुमिजानी माता थोपी भुमिजानी एवं अन्य
				797	निजी	गोड़ा ।।	0.316	धनु सिंह पिता सिवचरण सिंह एवं अन्य
				826	सरकारी	रास्ता	0.045	सरकारी
				872	निजी	गोड़ा ।	0.016	बिरु कुम्हार पिता काशीनाथ कुम्हार एवं अन्य
				873	निजी	मकान/ साहान	0.008	सारथी देवी पति मनोहर कुम्हार ।
				874	निजी	गोड़ा ।	0.008	अजय कुम्हार पिता गणेश कुम्हार एवं अन्य
				875	निजी	मकान/ साहान	0.008	गणेश कुम्हार पिता चरण कुम्हार ।
				876	निजी	गोड़ा ।	0.032	अजय कुम्हार पिता गणेश कुम्हार एवं अन्य
				881	निजी	पुरानी परती	0.04	चन्द्र मोहन दास पति सन्तोष दास एवं अन्य
				882	निजी	डोन ।।।	0.034	महपति सिंह पिता मलिन सिंह एवं अन्य
				883	निजी	डोन ।।।	0.069	विमला वाला सिंह पति शशधर सिंह ।
				928	निजी	डोन ।।।	0.004	सुकु भुमिज पिता राजा भुमिज एवं अन्य
				929	निजी	डोन ।।	0.04	गोपाल महतो पिता सनातन महतो एवं अन्य
				930	निजी	डोन ।।।	0.018	सुकु भुमिज पिता राजा भुमिज एवं अन्य
				931	निजी	डोन ।।।	0.075	धरनी सिंह मुंडा पिता नील कमल मुंडा एवं अन्य
				932	निजी	डोन ।।।	0.073	मंगल सिंह पिता पियाल सिंह एवं अन्य
				952	निजी	डोन ।।।	0.101	समर सिंह पिता शम्भु सिंह एवं अन्य
				955	निजी	पुरानी परती	0.034	आदित्य दास पिता वोलाई दास एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				956	निजी	गोड़ा ।	0.001	सुखु भूमिज पिता राजा भूमिज एवं अन्य
				961	निजी	गददा	0.008	समर सिंह पिता शम्भु सिंह ।
				962	निजी	डोन ।।।	0.097	समर सिंह पिता शम्भु सिंह ।
				968	निजी	पुरानी परती	0.008	भीम कर्मकार पिता रथु कर्मकार एवं अन्य
				969	निजी	डोन ।।।	0.063	भीम कर्मकार पिता रथु कर्मकार एवं अन्य
				970	निजी	पुरानी परती	0.026	शशधर सिंह पिता जगन्नाथ सिंह एवं अन्य
				971	निजी	डोन ।।	0.024	शशधर सिंह पिता जगन्नाथ सिंह एवं अन्य
				1215	निजी	डोन ।।	0.016	सुसेन महतो पिता
				1216	निजी	डोन ।।	0.028	मिलन सिंह पिता चन्दन सिंह एवं अन्य
				1217	निजी	डोन ।।	0.006	लाल कुम्हार पिता रवि कुम्हार
				1219	निजी	डोन ।।	0.022	वन बिहारी महतो पिता मनसुक महतो ।
				1220	निजी	डोन ।।	0.036	मिलन सिंह पिता चन्दन सिंह ईत्यादि ।
				1221	निजी	डोन ।।	0.004	मिलन सिंह पिता चन्दन सिंह ईत्यादि ।
				1232	निजी	डोन ।।	0.024	मिलन सिंह पिता चन्दन सिंह ईत्यादि ।
				1233	निजी	डोन ।।	0.049	मिलन सिंह पिता चन्दन सिंह ईत्यादि ।
				1234	पि डब्लू डी	खन्तू	0.032	सरकारी
				1237	निजी	डोन ।	0.125	लखीराम कुम्हार पिता दुलाल कुम्हार एवं अन्य
				1241	निजी	<u>मकान/साहान</u>	0.028	अनुकूल चन्द्र महतो पिता जानकी राम महतो एवं अन्य
				1242	निजी	डोन ।।	0.008	कोकिला देवी पति हाराधन सिंह
				1243	निजी	डोन ।।	0.028	हरी महतो पिता पाडु महतो एवं अन्य
				1249	निजी	डोन ।।।	0.045	गुरुचरण सिंह पिता ठमक सिंह एवं अन्य
				1250	निजी	डोन ।।।	0.012	गुरुपदो दास माता विन्दुवाला दासी एवं अन्य
				1251	निजी	डोन ।।।	0.02	शशधर सिंह पिता जगबन्धु सिंह एवं अन्य
				1254	निजी	डोन ।।।	0.01	हरेकृष्ण महतो पिता सरधन महतो एवं अन्य
				1255	निजी	डोन ।।।	0.006	शुकुन्तला देवी पत्नी चैतन सिंह एवं अन्य
				1257	निजी	डोन ।।।	0.008	मनिक राम महतो पिता महेश महतो ।
				1258	निजी	डोन ।।।	0.004	गुरुचरण सिंह पिता ठमक सिंह एवं अन्य
				1259	निजी	डोन ।।।	0.006	सर्वेश्वर सिंह पिता फुल सिंह ।
				1260	निजी	डोन ।।।	0.014	रागा सिंह पिता
				1261	निजी	डोन ।।।	0.012	प्रताप सिंह सरदार पिता लालदेव सिंह सरदार
				1262	निजी	डोन ।।।	0.018	वाली महतो पति प्रहलाद एवं अन्य
				1264	निजी	डोन ।।।	0.01	मिलन सिंह पिता चन्दन सिंह एवं अन्य
				1265	निजी	डोन ।।।	0.016	मिलन सिंह पिता चन्दन सिंह एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1268	निजी	डोन ।।।	0.051	कल्पना सिंह पति वैद्यनाथ सिंह एवं अन्य
				1272	निजी	डोन ।।।	0.053	धनु सिंह पिता सिवचरण ।
				1273	निजी	गोड़ा ।।।	0.01	जगत सिंह पिता कैलाण सिंह एवं अन्य
				1277	सरकारी	पुरानी परती	0.042	सरकारी
				1279	निजी	गोड़ा ।।।	0.01	मंगल सिंह पिता पियाल सिंह एवं अन्य
				1280	सरकारी	पुरानी परती	0.022	सरकारी
				1281	निजी	गोड़ा ।।।	0.022	शम्भु सिंह पिता जगन्नाथ सिंह एवं अन्य
				1282	निजी	पुरानी परती	0.042	शम्भु सिंह पिता जगन्नाथ सिंह एवं अन्य
				1284	निजी	गोड़ा ।	0.081	कालु राम सिंह पिता कमल सिंह एवं अन्य
				1289	निजी	गोड़ा ।	0.081	किरीटी सिंह माता सुवाती भूमिजानी एवं अन्य
				1290	निजी	डोन ।।।	0.057	किरीटी सिंह माता सुवाती भूमिजानी एवं अन्य
				1291	सरकारी	पुरानी परती	0.024	सरकारी
				1292	सरकारी	रास्ता	0.032	सरकारी
				1316	निजी	डोन ।।।	0.002	मंगल चन्द्र दास पिता मुरलीधर दास एवं अन्य
				1317	निजी	गोड़ा ।	0.01	साधन दास पिता लखन दास एवं अन्य
				1318	निजी	मकान/ साहान	0.008	श्यामपद दास पिता लखन दास ।
				1319	निजी	गोड़ा ।	0.012	अमर चन्द्र दास पिता उपेन्द्र नाथ दास
				1320	निजी	गोड़ा ॥	0.01	कमल कान्त दास पिता राजेन्द्र दास एवं अन्य
				1433	निजी	डोन ॥	0.038	शशधर महतो पिता स्व. फनी भूषण महतो एवं अन्य
				1434	निजी	डोन ॥	0.042	श्रीपति महतो पिता पदु महतो एवं अन्य
				1436	निजी	गोड़ा ॥	0.014	कल्याण सिंह पिता मनबोध सिंह एवं अन्य
				1437	निजी	गोड़ा ॥	0.012	कल्याण सिंह पिता मनबोध सिंह एवं अन्य
				1438	निजी	गोड़ा ॥	0.008	सुसेन महतो पिता
				1440	निजी	डोन ॥	0.008	सागर दास पिता रतन दास एवं अन्य
				1452	निजी	डोन ॥	0.002	राम पद महतो पिता गुरुचरण महतो
				1456	निजी	डोन ॥	0.109	राम पद महतो पिता गुरुचरण महतो
				1457	निजी	डोन ॥	0.049	लखी दास पति शिशिर कुमार दास एवं अन्य
				1458	निजी	डोन ॥	0.049	प्रतिमा गोरई पति बुद्धेश्वर गोरई ।
				1459	निजी	डोन ॥	0.026	जगत सिंह पिता कल्याण सिंह एवं अन्य
				1460	निजी	डोन ॥	0.042	नारद महतो पिता स्व. खोखा एवं अन्य
				1461	निजी	डोन ।	0.014	विभीषण प्रमाणिक पिता रथु प्रमाणिक ।
				1462	निजी	डोन ॥	0.002	विभीषण प्रमाणिक पिता रथु प्रमाणिक ।
				1469	निजी	डोन ॥	0.073	राम पद महतो पिता गुरुचरण महतो एवं अन्य
				1470	निजी	गोड़ा ॥	0.04	भीमशेन दास पिता गौर चन्द्र दास ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1471	निजी	गोड़ा II	0.17	भीमशेन दास पिता गौर चन्द्र दास।
				1472	निजी	डोन II	0.162	शंकर चन्द्र दास पिता महावीर दास एवं अन्य
				1473	निजी	डोन II	0.008	राम पद महतो पिता गुरुचरण एवं अन्य
				1475	निजी	डोन II	0.101	अशोक पाल पिता मेघनाथ पाल एवं अन्य
				1483	सरकारी	नदी	0.113	सरकारी
				1521	निजी	गोड़ा II	0.445	गोष्टु महतो पिता रघुनाथ महतो एवं अन्य
				1522	निजी	डोन II	0.016	गणेश महतो पिता लोकनाथ महतो।
				1529	निजी	डोन।	0.022	पुष्टि महतानी पति गुहीराम महतो।
				1530	निजी	डोन II	0.206	पुष्टि महतानी पति गुहीराम महतो एवं अन्य
				1531	सरकारी	डुंगरी	0.243	सरकारी
				1532	निजी	गोड़ा II	0.13	लम्बोदर दास पिता आनन्द दास एवं अन्य
				1533	सरकारी	रास्ता	0.012	सरकारी
				1534	सरकारी	डुंगरी	0.194	सरकारी
				1538	सरकारी	गोड़ा II	0.097	सरकारी
				2363	निजी	डोन II	0.024	वावुलाल दास एवं अन्य
				2364	निजी	डोन II	0.034	दीपक महतो पिता मथुर महतो एवं अन्य
			सिरका (थाना/जे. एल.न. 283)	4	सरकारी	नाला	0.132	सरकारी
				5	सरकारी	पुरानी परती	0.136	सरकारी
				6	निजी	डोन III	0.097	मो. निरो भूमिजानी पति उदय
				12	सरकारी	रास्ता	0.047	सरकारी
				14	निजी	डोन II	0.202	धनु सिंह पिता शिवचरण सिंह
				15	निजी	गोड़ा II	0.034	धनु सिंह पिता शिवचरण सिंह
				16	निजी	डोन II	0.21	धनु सिंह पिता शिवचरण सिंह
				17	निजी	डोन II	0.022	धनु सिंह पिता शिवचरण सिंह
				18	निजी	गोड़ा II	0.148	धनु सिंह पिता शिवचरण सिंह
				19	निजी	डोन II	0.04	धनु सिंह पिता शिवचरण सिंह
				20	निजी	गोड़ा II	0.162	धनु सिंह पिता शिवचरण सिंह
				21	जंगल	जंगल पलास	0.176	सरकारी
				24	सरकारी	गोड़ा II	0.227	सरकारी
				31	सरकारी	रेल लाईन	0.413	सरकारी
				32	जंगल	जंगल पलास	0.395	सरकारी
				39	सरकारी	पुरानी परती	0.119	सरकारी
				44	निजी	डोन II	0.061	भानुमती दंडपाठ पति श्री अर्णव कुमार दंडपाठ
				46	सरकारी	पुरानी परती	0.146	सरकारी
				47	निजी	नई परती	0.127	राजेन्द्र सिंह, पिता स्व. चक्रधर सिंह एवं अन्य
				48	सरकारी	नाला	0.138	सरकारी
				49	सरकारी	रास्ता	0.688	सरकारी
				51	जंगल	जंगल पलास	0.01	सरकारी
				68	निजी	गोड़ा II	0.747	लखन महतो पिता सीता महतो एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				69	निजी	गोड़ा ॥	0.358	फतो माझी पिता स्व. वन माझी एवं अन्य
				70	निजी	गोड़ा ॥	0.455	छुटुन सिंह, पिता स्व. जगन्नाथ सिंह एवं अन्य
				71	निजी	गोड़ा ॥	0.633	निलमनी माझीयान पति स्व. वासर माझी एवं अन्य
				72	जंगल	जंगल पलास	0.595	सरकारी
				73	निजी	जंगल पलास	0.184	मान सिंह पिता स्व. नीलकमल सिंह एवं अन्य
				19/1644	निजी	डोन ॥	0.097	धनु सिंह पिता शिवचरण सिंह
				20/1646	जंगल	जंगल पलास	0.032	सरकारी
				32/1648	सरकारी	पुरानी परती	0.109	सरकारी
				51/1653	सरकारी	कृषी रहित	0.007	सरकारी
				71/1656	सरकारी	पुरानी परती	0.047	सरकारी
				33	सरकारी	पुरानी परती	0.04	सरकारी
			टेव्ला (थाना / जे. एल.न. 278)	1	सरकारी	जंगल झारी	0.081	सरकारी
				2	जंगल	जंगल झारी	0.217	सरकारी
				3	सरकारी	बन्हेर झारी	0.101	सरकारी
				4	निजी	गोड़ा ॥ ॥	0.202	रेबोती रोमन सिंह पिता गोकुल सिंह एवं अन्य
				6	निजी	डोन ॥ ॥	0.002	कृष्णा सिंह सरदार पिता स्व. मान सिंह सरदार
				7	निजी	डोन ॥	0.016	कृष्णा सिंह सरदार पिता स्व. मान सिंह सरदार
				8	निजी	डोन ॥	0.045	कृष्णा सिंह सरदार पिता स्व. मान सिंह सरदार
				9	निजी	डोन ॥ ॥	0.053	कृष्णा सिंह सरदार पिता स्व. मान सिंह सरदार
				10	निजी	डोन ॥ ॥	0.036	रेबोती रोमन सिंह पिता गोकुल सिंह एवं अन्य
				11	निजी	डोन ॥ ॥	0.117	रेबोती रोमन सिंह पिता गोकुल सिंह एवं अन्य
				12	निजी	डोन ॥	0.053	पूणिमा भूमिज पति स्व. युद्धिष्ठिर भूमिज
				14	निजी	पुरानी परती	0.012	रेबोती रोमन सिंह पिता गोकुल सिंह एवं अन्य
				20	निजी	डोन ।	0.016	बालिका गोप पति स्व. विश्व गोप एवं अन्य
				24	निजी	डोन ॥	0.061	रेबोती रोमन सिंह पिता गोकुल सिंह एवं अन्य
				25	निजी	डोन ॥ ॥	0.038	रेबोती रोमन सिंह पिता गोकुल सिंह एवं अन्य
				26	सरकारी	कृषी रहित	0.001	सरकारी
				30	निजी	डोन ॥	0.081	गुरुपदो गोप, पिता स्व. दिनबन्धु गोप एवं अन्य
				31	निजी	डोन ॥ ॥	0.01	रेबोती रोमन सिंह पिता गोकुल सिंह एवं अन्य
				32	निजी	डोन ॥ ॥	0.223	रेबोती रोमन सिंह पिता गोकुल सिंह एवं अन्य
				33	निजी	डोन ॥ ॥	0.061	रेबोती रोमन सिंह पिता गोकुल सिंह एवं अन्य
				34	निजी	डोन ॥	0.032	रेबोती रोमन सिंह पिता गोकुल सिंह एवं अन्य
				35	सरकारी	रास्ता	0.142	सरकारी
				36	निजी	डोन ॥	0.121	बालिका गोप पति स्व. विश्व गोप एवं अन्य
				37	निजी	मोटियार	0.024	बालिका गोप पति स्व. विश्व गोप एवं अन्य
				38	निजी	गोड़ा ।	0.19	बालिका गोप पति स्व. विश्व

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								गोप एवं अन्य
				39	निजी	डोन ।।।	0.024	अपुतोष गोप, पिता स्व. नेपुल गोप एवं अन्य
				40	निजी	डोन ।।	0.17	बालिका गोप पति स्व. विश्व गोप एवं अन्य
				42	सरकारी	मोटियार	0.04	सरकारी
				43	सरकारी	रास्ता	0.04	सरकारी
				44	निजी	डोन ।।	0.057	सरस्वती भूमिज पति गिरी भूमिज एवं अन्य
				45	निजी	डोन ।।।	0.081	कृष्णा सिंह सरदार पिता स्व. मान सिंह सरदार
				46	निजी	डोन ।।।	0.049	कृष्णा सिंह सरदार पिता स्व. मान सिंह सरदार
				57	सरकारी	पुरानी परती	0.014	सरकारी
				58	निजी	डोन ।।।	0.051	गोपाल गोर्राई, पिता राजेन्द्र गोर्राई एवं अन्य
				63	निजी	डोन ।।	0.17	गोपाल गोर्राई, पिता राजेन्द्र गोर्राई एवं अन्य
				64	निजी	मोटियार	0.057	गोपाल गोर्राई, पिता राजेन्द्र गोर्राई एवं अन्य
				65	निजी	डोन ।	0.117	गोपाल गोर्राई, पिता राजेन्द्र गोर्राई एवं अन्य
				66	निजी	डोन ।	0.146	गोपाल गोर्राई, पिता राजेन्द्र गोर्राई एवं अन्य
				67	निजी	डोन ।।	0.053	गोपाल गोर्राई, पिता राजेन्द्र गोर्राई एवं अन्य
				68	निजी	डोन ।।	0.152	रेबोती रोमन सिंह पिता गोकुल सिंह एवं अन्य
				69	निजी	डोन ।।	0.081	गोपाल गोर्राई, पिता राजेन्द्र गोर्राई एवं अन्य
				87	निजी	पलास जंगल	0.259	रेबोती रोमन सिंह पिता गोकुल सिंह एवं अन्य
				88	निजी	डोन ।।।	0.089	रेबोती रोमन सिंह पिता गोकुल सिंह एवं अन्य
				89	निजी	मकान/ साहान	0.032	रेबोती रोमन सिंह पिता गोकुल सिंह एवं अन्य
				90	निजी	गोड़ा ।।	0.014	रेबोती रोमन सिंह पिता गोकुल सिंह एवं अन्य
				92	निजी	डोन ।।	0.073	लखीपदो गोप पिता स्व. उदय गोप एवं अन्य
				93	निजी	गोड़ा ।	0.03	लखीपदो गोप पिता स्व. उदय गोप एवं अन्य
				95	निजी	गोड़ा ।।।	0.024	कृष्ण गोप पिता स्व. सुपल गोप एवं अन्य
				96	निजी	गोड़ा ।	0.002	वालिका देवी पति स्व. नन्दलाल गोप
				97	निजी	मकान/ साहान	0.016	अतुल गोप पिता स्व. गोविन्द गोप
				98	निजी	गोड़ा ।।	0.02	अंबुज गोप पिता स्व. वरन गोप एवं अन्य
				100	निजी	मकान	0.001	अंबुज गोप पिता स्व. वरन गोप एवं अन्य
		चन्द्रल	लुपुंगडिह (थाना/जे. एल.न. 279)	297	निजी	गोड़ा ।।।	0.022	गोलक विहारी गोप पिता नन्दलाल गोप एवं अन्य
				299	निजी	गोड़ा ।।	0.014	सरती भूमिजानी पति स्व. आसनी भूमिज एवं अन्य
				300	निजी	गोड़ा ।।	0.014	सरती भूमिजानी पति स्व. आसनी भूमिज एवं अन्य
				301	निजी	गोड़ा ।।	0.011	सरती भूमिजानी पति स्व. आसनी भूमिज एवं अन्य
				302	निजी	गोड़ा ।।	0.022	सरती भूमिजानी पति स्व. आसनी भूमिज एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				308	निजी	गोड़ा ॥	0.038	सरती भुमिजानी पति स्व. आसनी भुमिज एवं अन्य
				309	निजी	गोड़ा ॥	0.022	सरती भुमिजानी पति स्व. आसनी भुमिज
				321	निजी	गोड़ा ॥॥	0.087	सरती भुमिजानी पति स्व. आसनी भुमिज
				323	निजी	पुरानी परती	0.105	श्रीमती संजिता गोप पति गोपेश्वर गोप एवं अन्य
				324	निजी	डोन ॥॥	0.069	सतीश चन्द्र महतो पिता भीष्म नाथ महतो एवं अन्य
				330	निजी	पलास जंगल	0.107	मनीक सिंह पिता घेरू भुमिज एवं अन्य
				332	निजी	गोड़ा ॥॥	0.045	धमेन्द्र गोप पिता स्व. निलकमल गोप एवं अन्य
				333	निजी	डोन ॥॥	0.03	तारा शंकर गोप पिता स्व. महेन्द्र वगाल
				340	निजी	मोटियार	0.006	तारा शंकर गोप पिता स्व. महेन्द्र वगाल
				341	निजी	पुरानी परती	0.014	अमीन चन्द्र गोप पिता स्व. नन्दी गोप
				342	निजी	डोन ॥	0.008	घासी राम सिंह पिता वहादुर सिंह
				343	निजी	डोन ।	0.063	घासी राम सिंह पिता वहादुर सिंह
				355	निजी	डोन ।	0.018	घासी राम सिंह पिता वहादुर सिंह
				356	निजी	डोन ।	0.008	हेमलता सिंह पिता कालीचरण सिंह
				357	निजी	डोन ॥	0.008	घासी राम सिंह पिता वहादुर सिंह
				358	निजी	डोन ॥	0.014	अयोध्या वगाल पिता बेनी वगाल
				365	निजी	मोटियार	0.004	देवेन गोप पिता आनन्द वगाल एवं अन्य
				367	निजी	डोन ॥	0.022	देवेन गोप पिता आनन्द वगाल एवं अन्य
				370	निजी	मोटियार	0.006	देवेन गोप पिता आनन्द वगाल एवं अन्य
				371	निजी	डोन ॥॥	0.032	अनील गोप पिता फूलू गोप एवं अन्य
				372	निजी	मोटियार	0.006	धरमु महतो पिता स्व. अनन्त महतो
				373	निजी	डोन ॥॥	0.032	धरमु महतो पिता स्व. अनन्त महतो एवं अन्य
				413	निजी	डोन ॥	0.008	बैद्यनाथ गोप पिता खिरोद वगाल
				414	निजी	डोन ॥	0.071	अणर्व कुमार दण्डपाट पिता फेलाराम दण्डपाट एवं अन्य
				418	निजी	गोड़ा ।	0.006	शक्ति पदो प्रमाणिक पिता आशुतोष प्रमाणिक एवं अन्य
				419	निजी	गडह	0.022	शक्ति पदो प्रमाणिक पिता आशुतोष प्रमाणिक एवं अन्य
				423	सरकारी	कृषी रहित	0.006	सरकारी
				424	निजी	गोड़ा ।	0.020	बैद्यनाथ गोप पिता खिरोद गोप एवं अन्य
				428	निजी	गोड़ा ।	0.038	शक्ति पदो प्रमाणिक पिता आशुतोष प्रमाणिक एवं अन्य
				429	निजी	मकान/ साहान	0.01	शक्ति पदो प्रमाणिक पिता आशुतोष प्रमाणिक एवं अन्य
				430	निजी	मकान/ साहान	0.006	लखी गोप पिता गादई गोप
				433	निजी	मकान/ साहान	0.002	दोस्त महम्मद मिया पिता हरखु मिया
				437	निजी	गोड़ा ॥	0.02	लखी नारायण गोप पिता करमु गोप एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				438	निजी	गोड़ा ।	0.022	मंगल गोप पिता शिवनाथ गोप एवं अन्य
				439	निजी	गोड़ा ।	0.022	लखी नारायण गोप पिता करमु गोप एवं अन्य
				441	निजी	गोड़ा ।	0.024	लखी नारायण गोप पिता करमु गोप एवं अन्य
				444	सरकारी	रास्ता	0.004	सरकारी
				446	निजी	गोड़ा ।	0.034	बलराम गोप पिता मोहन एवं अन्य
				447	निजी	गोड़ा ।	0.006	बलराम गोप पिता मोहन एवं अन्य
				498	निजी	गोड़ा ।।।	0.006	निलकमल गोप पिता मोगला गोप एवं अन्य
				499	निजी	गोड़ा ।।।	0.097	निलकमल गोप पिता मोगला गोप एवं अन्य
				500	निजी	गोड़ा ।।।	0.113	गोकुल सिंह पिता लवू सिंह
				501	सरकारी	पलास जंगल	0.045	सरकारी
				502	निजी	गोड़ा ।।।	0.103	उमाशंकर गोप पिता विपिन गोप एवं अन्य
				503	निजी	गोड़ा ।।।	0.134	शिषि गोप पिता अयोध्या गोप एवं अन्य
				504	निजी	गोड़ा ।।।	0.065	लखीन्द्र गोप पिता गोविन्दो गोप
				505	निजी	डोन ।।।	0.01	बलराम गोप पिता स्व. अजीत गोप एवं अन्य
				506	निजी	गोड़ा ।।।	0.075	लखीन्द्र गोप पिता गोविन्दो गोप एवं अन्य
				508	निजी	गोड़ा ।।	0.001	आसुतोष गोप पिता नेपुल वगाल एवं अन्य
				509	निजी	मकान/ साहान	0.006	आसुतोष गोप पिता नेपुल वगाल एवं अन्य
				510	निजी	मकान/ साहान	0.002	गुरुपदो गोप पिता स्व. दीनबन्धु वगाल एवं अन्य
				515	पि डब्लू डी	गोड़ा ।।	0.018	सरकारी
				522	सरकारी	पलास जंगल	0.004	सरकारी
				523	निजी	पुरानी परती	0.018	मानिक गोप पिता फलारी गोप एवं अन्य
				535	निजी	डोन ।।	0.001	दशरथ गोप पिता फलारी गोप
				541	निजी	डोन ।	0.001	शंकर महतो पिता खोगेन महतो एवं अन्य
				555	निजी	डोन ।	0.001	शंकर महतो पिता खोगेन महतो एवं अन्य
				556	निजी	मोटियार	0.001	शंकर महतो पिता खोगेन महतो एवं अन्य
				558	निजी	मोटियार	0.001	जटाशंकर पांडे पिता स्व. सत्य नारायण पांडे
				560	सरकारी	पुरानी परती	0.002	सरकारी
				561	निजी	गोड़ा ।	0.001	नीलकमल गोप पिता लखीराम गोप
				563	निजी	मकान/ साहान	0.004	कालावती गोप पिता स्व गौर गोप
				564	निजी	गोड़ा ।।	0.018	कालावती गोप पिता स्व गौर गोप
				567	निजी	गोड़ा ।	0.006	ईश्वर गोप माता सोमवारी वगालीन एवं अन्य
				568	निजी	मकान/ साहान	0.004	ईश्वर गोप माता सोमवारी वगालीन एवं अन्य
				569	सरकारी	रास्ता	0.002	सरकारी
				574	निजी	गोड़ा ।	0.024	निलकमल गोप पिता मोगला गोप एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				575	निजी	गोड़ा ।।	0.004	मोस्मात अम्बिका गोप पति वेशीधर गोप
				579	निजी	गोड़ा ।।	0.026	आस्तिक गोप पिता श्री दुर्गा चरण गोप एवं अन्य
				580	निजी	गोड़ा ।	0.026	आतुल गोप पिता विहारी गोप एवं अन्य
				585	निजी	गोड़ा ।	0.01	शंकर महतो पिता खोगेन महतो एवं अन्य
				586	निजी	मकान/ साहान	0.018	शंकर महतो पिता खोगेन महतो एवं अन्य
				587	निजी	गोड़ा ।	0.026	शंकर महतो पिता खोगेन महतो एवं अन्य
				588	निजी	मकान/ साहान	0.006	शंकर महतो पिता खोगेन महतो एवं अन्य
				590	निजी	गोड़ा ।।	0.012	शंकर महतो पिता खोगेन महतो एवं अन्य
				591	निजी	गोड़ा ।।	0.324	गुरुपदो गोप पिता स्व. दीनबन्धु गोप एवं अन्य
				592	निजी	गोड़ा ।।	0.087	शंकर महतो पिता खोगेन महतो एवं अन्य
				1257	सरकारी	कृषी रहित	0.105	सरकारी
				1263	निजी	गोड़ा ।।।	0.055	सदानन्द गोप पिता श्री दुखु गोप एवं अन्य
				1266	निजी	गोड़ा ।।।	0.061	धुन्धी देवी पति कर्ण गोप
				1267	निजी	गोड़ा ।।।	0.051	राम चरण गोप पिता स्व. दासु गोप
				1268	निजी	डोन ।।।	0.089	धनंजय गोप पिता उमापदो गोप
				1269	निजी	डोन ।।।	0.081	गुरुपदो गोप पिता पवितो गोप एवं अन्य
				1274	निजी	डोन ।।	0.212	घासीराम गोप पिता गिरधारी गोप एवं अन्य
				1275	निजी	मोटियार	0.004	श्रीमती विमल बगालीन पति विक्रम बगाल
				1276	निजी	डोन ।	0.079	सुभाष सिंह पिता सदानन्द सिंह एवं अन्य
				1277	निजी	डोन ।	0.095	सुभाष सिंह पिता सदानन्द सिंह एवं अन्य
				1279	निजी	डोन ।	0.069	उमेश गोप पिता गहन बगाल एवं अन्य
				1280	निजी	डोन ।	0.083	अमर चन्द्र बगाल पिता फलारी बगाल एवं अन्य
				1281	निजी	डोन ।	0.257	चरण बगाल पिता हरी बगाल एवं अन्य
				1282	निजी	डोन ।	0.138	विमला बगाल पिता बुधा बगाल
				1283	निजी	डोन ।	0.049	विमला बगाल पिता बुधा बगाल
				1434	निजी	डोन ।।।	0.01	गंगाधर सिंह पिता मनसा राम सिंह
				1443	निजी	डोन ।।	0.073	भागरथी गोप पिता नन्द गोप
				1446	निजी	डोन ।।	0.091	सुवोधनी सिंह पति लालु सिंह
				1447	निजी	डोन ।।	0.073	सन्तोष गोप पिता श्री जमक गोप एवं अन्य
				1448	निजी	डोन ।।	0.04	सगोरी गोप पिता सुकल गोप
				1449	निजी	डोन ।।	0.243	राम चरण गोप पिता दासु बगाल एवं अन्य
				1450	निजी	डोन ।।।	0.049	गन्धु गोप पिता स्व. रहीन गोप
				1451	निजी	डोन ।।	0.202	गन्धु गोप पिता स्व. रहीन गोप एवं अन्य
				1452	निजी	डोन ।।	0.138	मुन्दु सिंह पिता साधुचरण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								सिंह एवं अन्य
				1453	निजी	डोन ।।।	0.008	शिवचरण गोप पिता स्व. प्रमानन्द वगाल एवं अन्य
				1454	निजी	डोन ।।	0.291	शिवचरण गोप पिता स्व. प्रमानन्द वगाल एवं अन्य
				1455	निजी	डोन ।।	0.077	प्रेमचन्द्र गोप पिता स्व. मादव गोप
				1456	निजी	डोन ।।	0.055	गन्धु गोप पिता रहीन गोप
				1457	निजी	डोन ।।	0.01	सगोरी गोप पिता सुकल गोप
				1458	निजी	डोन ।	0.156	सुखदेव सिंह पिता विष्टु सिंह
				1470	निजी	डोन ।।।	0.059	मुन्दु सिंह पिता साधु चरण सिंह
				1481	निजी	डोन ।।।	0.028	गन्धु गोप पिता स्व. रहीन गोप
				1482	निजी	डोन ।।।	0.022	मुन्दु सिंह पिता वहादुर सिंह
				1483	निजी	डोन ।।।	0.024	मुन्दु सिंह पिता वहादुर सिंह
				1484	निजी	डोन ।।।	0.065	गन्धु गोप पिता स्व. रहीन गोप एवं अन्य
				1485	निजी	डोन ।।।	0.093	गन्धु गोप पिता स्व. रहीन गोप
				1486	निजी	डोन ।।	0.016	जतम सिंह पिता वहादुर सिंह
				1487	निजी	डोन ।।	0.401	कालु राम मारवाडी पिता सुखमल एवं अन्य
				1488	निजी	डोन ।।।	0.045	काली चरण सिंह पिता घासी राम सिंह एवं अन्य
				1490	निजी	डोन ।।	0.103	सगोरी गोप पिता सुकल गोप एवं अन्य
				1491	सरकारी	रास्ता	0.028	सरकारी
				1494	निजी	डोन ।।	0.152	जगजीवन गोप पिता हरेकृष्ण गोप
				1498	निजी	डोन ।।।	0.121	विमला वगाल पिता बुधा वगाल
			पिटकी (थाना/जे. एल.न. 280)	6	निजी	डोन ।	0.02	सुरेन गोपए पिता स्व. वानेश्वर गोप एवं अन्य
				56	निजी	डोन ।।	0.227	आशाराम महतो पिता स्व. दुर्गा चरण महतो
				57	निजी	डोन ।।	0.223	हरिशंकर सिंह, पिता मलिन्द्र सिंह एवं अन्य
				58	निजी	डोन ।।।	0.243	घासीराम मिस्त्री पिता गोविन्द मिस्त्री
				59	सरकारी	पुरानी परती	0.061	सरकारी
				60	सरकारी	पुरानी परती	0.123	सरकारी
				61	निजी	गोड़ा ।।	0.024	घासीराम मिस्त्री पिता गोविन्द मिस्त्री
				62	निजी	पुरानी परती	0.008	आशाराम महतो पिता स्व. दुर्गा चरण महतो
				63	निजी	डोन ।।	0.047	घासीराम मिस्त्री पिता गोविन्द मिस्त्री
				72	निजी	डोन ।।	0.322	मथुर सिंह पिता गति सिंह एवं अन्य
				73	निजी	गोड़ा ।।	0.162	रववारी सरदारीन पिता सुचाँद सिंह एवं अन्य
				74	निजी	डोन ।।।	0.233	निरंजन सिंह पिता गोपाल सिंह एवं अन्य
				75	निजी	डोन ।।।	0.028	मथुर सिंह पिता गति सिंह एवं अन्य
				77	निजी	डोन ।।	0.006	लेदा सिंह माता सुमित्रा सिंह एवं अन्य
				78	निजी	डोन ।।	0.016	सती दवी पति स्व. चन्दन सिंह एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				79	सरकारी	पुरानी परती	0.057	सरकारी
				80	निजी	डोन ॥	0.016	राजकुमार कुण्डु पिता स्व. मानिक चन्द्र कुण्डु एवं अन्य
				391	पि डब्लू डी	रास्ता	0.178	सरकारी
				393	द. पु. रेलवे	रेल लाईन	0.223	सरकारी
				464	निजी	डोन ॥	0.02	हरि, बुचु पिता लाधो सिंह एवं अन्य
				473	निजी	डोन ॥	0.162	गोपाल गोप पिता हरिपद गोप
				474	निजी	डोन।	0.253	कालीमाई दासी पति लखी पाल एवं अन्य
				475	निजी	डोन ॥	0.006	गोपाल गोप पिता स्व. हरिपद गोप
				476	निजी	डोन ॥	0.075	गोपाल गोप पिता स्व. हरिपद गोप
				478	निजी	डोन ॥	0.004	पदमलोचन सिंह माता वैशाखी
				576	निजी	डोन ॥	0.001	दुर्योधन सिंह, पिता रंजीत सिंह एवं अन्य
				592	सरकारी	कृषी रहित	0.071	सरकारी
				593	निजी	डोन ॥	0.045	रबबारी सरदारिन पिता समर सिंह एवं अन्य
				594	निजी	डोन ॥	0.073	अशोक सिंह, पिता चन्दन सिंह एवं अन्य
				595	निजी	डोन ॥	0.275	कालीमाई दासी पति लखी पाल एवं अन्य
				599	निजी	डोन ॥	0.012	दुर्योधन सिंह पिता रंजीत सिंह एवं अन्य
				600	निजी	डोन ॥	0.386	हरिशंकर सिंह, पिता मलिनद्र सिंह एवं अन्य
				601	निजी	डोन ॥	0.063	मधु सिंह पिता सिरो सरदारिन एवं अन्य
				602	निजी	डोन ॥	0.051	मधु सिंह पिता सिरो सरदारिन एवं अन्य
				603	निजी	डोन ॥	0.198	हरिशंकर सिंह, पिता मलिनद्र सिंह एवं अन्य
				604	निजी	डोन ॥	0.047	हरिशंकर सिंह, पिता मलिनद्र सिंह एवं अन्य
				605	निजी	डोन ॥	0.028	धांदु महतो पिता स्व. रूईटु महतो
				607	निजी	डोन ॥	0.34	धांदु महतो पिता स्व. रूईटु महतो एवं अन्य
				608	निजी	डोन ॥	0.004	वजु गोप पिता स्व. मधु गोप
				616	निजी	डोन ॥	0.038	हरिशंकर सिंह, पिता मलिनद्र सिंह एवं अन्य
				617	निजी	डोन ॥	0.109	मधु सिंह पिता सिरो सरदारिन एवं अन्य
				618	निजी	डोन ॥	0.071	मधु सिंह पिता सिरो सरदारिन एवं अन्य
				645	निजी	डोन ॥	0.223	गुरुवारी देवी पति विक्रम सिंह
				646	निजी	डोन ॥	0.419	जितु गोप पिता स्व. गोविन्द गोप एवं अन्य
				648	निजी	डोन ॥	0.31	कालीमाई दासी पति लखी पाल एवं अन्य
				649	निजी	डोन ॥	0.221	कालीमाई दासी पति लखी पाल
				650	निजी	डोन ॥	0.024	जितेन्द्र सिंह पिता आशराम सिंह एवं अन्य
				651	जंगल	डोन ॥	0.016	सरकारी
				655	सरकारी	गोड़ा ॥	0.002	सरकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			उगिडह (थाना/जे. एल.न. 243)	1	निजी	डोन।	0.083	अजीत सिंह पिता स्व दुबराज सिंह एवं अन्य
				2	निजी	डोन।	0.061	श्रीमती कुन्नी, पिता स्व० रघुनाथ सिंह एवं अन्य
				3	निजी	डोन।।	0.024	मो. कालोमुनी पति स्व. डोमन सिंह एवं अन्य
				4	निजी	डोन।।	0.016	नीरू सिंह पिता स्व आनन्द सिंह
				5	निजी	डोन।।	0.02	उमापदो सिंह पिता स्व. सर्वेश्वर सिंह
				6	निजी	डोन।।	0.008	अजीत सिंह पिता स्व दुबराज सिंह एवं अन्य
				7	सरकारी	पुरानी परती	0.024	सरकारी
				8	निजी	डोन।।	0.073	मंगल सिंह, पिता स्व गुरुदेव सिंह एवं अन्य
				9	निजी	गोड़ा।।	0.016	मंगल सिंह, पिता स्व गुरुदेव सिंह एवं अन्य
				28	निजी	मकान/ साहान	0.001	मंगल सिंह, पिता स्व गुरुदेव सिंह एवं अन्य
				48	सरकारी	रास्ता	0.055	सरकारी
				51	निजी	डोन।	0.061	नृपेन महतो, पिता स्व कीनु महतो एवं अन्य
				59	निजी	डोन।	0.067	चंचला सिंह, पिता स्व. समर सिंह एवं अन्य
				60	निजी	डोन।	0.121	गुहीराम सिंह, पिता स्व. मुकुन्द सिंह एवं अन्य
				61	निजी	गोड़ा।।	0.053	मंगल सिंह, पिता स्व गुरुदेव सिंह एवं अन्य
				62	निजी	गोड़ा।।	0.045	मंगल सिंह, पिता स्व गुरुदेव सिंह एवं अन्य
				63	निजी	डोन।।	0.032	मंगल सिंह, पिता स्व गुरुदेव सिंह एवं अन्य
				68	निजी	डोन।	0.01	कमला कुमारी पिता सुन्दर सिंह
				69	निजी	डोन।	0.097	कमला कुमारी पिता सुन्दर सिंह
				70	निजी	डोन।	0.117	कमला कुमारी पिता सुन्दर सिंह
				71	निजी	डोन।	0.028	श्रीमती कुन्नी, पिता स्व० रघुनाथ सिंह एवं अन्य
				72	निजी	डोन।	0.045	अजीत सिंह पिता स्व. दुबराज सिंह
				73	निजी	डोन।	0.02	श्रीमती कुन्नी, पिता स्व० रघुनाथ सिंह एवं अन्य
				74	निजी	डोन।	0.014	उमापदो सिंह पिता स्व. सर्वेश्वर सिंह
				83	निजी	डोन।।	0.014	श्रीमती कुन्नी, पिता स्व० रघुनाथ सिंह एवं अन्य
				84	निजी	डोन।।	0.02	अजीत सिंह पिता स्व. दुबराज सिंह एवं अन्य
				85	निजी	डोन।।।	0.012	उमापदो सिंह पिता स्व. सर्वेश्वर सिंह
				86	निजी	डोन।।	0.032	मो. कालोमुनी पति स्व. डोमन सिंह एवं अन्य
				87	निजी	डोन।	0.024	अजीत सिंह पिता स्व. दुबराज सिंह एवं अन्य
				88	निजी	डोन।	0.016	नीरू सिंह पिता स्व आनन्द सिंह
				89	सरकारी	पुरानी परती	0.024	सरकारी
			90	निजी	डोन।।।	0.012	मो. कालोमुनी पति स्व. डोमन सिंह एवं अन्य	
			91	सरकारी	पुरानी परती	0.065	सरकारी	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				92	सरकारी	पुरानी परती	0.014	सरकारी
				93	सरकारी	नाला	0.073	सरकारी
				97	निजी	डोन ॥	0.059	मो. उर्मिला सिंह पति स्व. जयचौद सिंह
				98	निजी	डोन ।	0.002	मो. उर्मिला सिंह पति स्व. जयचौद सिंह
				99	निजी	डोन ॥	0.024	निर्मल सिंह, पिता स्व. गौर सिंह एवं अन्य
				100	निजी	डोन ।	0.227	चंचला सिंह, पिता स्व. समर सिंह एवं अन्य
				101	निजी	डोन ।	0.014	मो. भवानी सिंह पति स्व. गोवर्धन सिंह एवं अन्य
				102	सरकारी	जंगल	0.002	सरकारी
				108	निजी	मकान/ साहान	0.002	चंचला सिंह, पिता स्व. समर सिंह एवं अन्य
				109	निजी	गोड़ा ॥	0.051	कमला कुमारी पिता सुन्दर सिंह
				110	निजी	डोन ॥	0.022	कमला कुमारी पिता सुन्दर सिंह
				49/281	निजी	डोन ॥	0.034	नृपेन महतो, पिता स्व कीनु महतो एवं अन्य
				100/284	निजी	डोन ॥	0.079	चंचला सिंह, पिता स्व. समर सिंह एवं अन्य
			राउतारा (थाना/जे. एल.न. 242)	484	निजी	डोन ।	0.393	साधुचरण महतो पिता भुवेश महतो एवं अन्य
				485	निजी	डोन ।	0.289	रूडु महतो पिता जगन्नाथ महतो एवं अन्य
				515	निजी	डोन ।	0.085	महावीर गोराई पिता स्व. द्विजपदो गोराई एवं अन्य
				517	निजी	डोन ।	0.038	अशोक महतो पिता बावरी महतो
				518	निजी	डोन ।	0.076	महावीर गोराई पिता स्व. द्विजपदो गोराई एवं अन्य
				520	निजी	डोन ॥	0.084	उपेन्द्र सिंह पिता स्व. गिरजा सिंह
				522	निजी	डोन ।	0.063	काली प्रशन्न महतो पिता झगडु महतो एवं अन्य
				523	निजी	डोन ।	0.091	रोविना सिंह पिता स्व. श्यामपदो सिंह एवं अन्य
				526	निजी	डोन ।	0.073	महावीर गोराई पिता स्व. द्विजपदो गोराई एवं अन्य
				528	निजी	डोन ।	0.077	राकेश महतो पिता स्व. सुनिल महतो एवं अन्य
				529	निजी	डोन ।	0.042	किरीटी महतो पिता नीलकमल महतो एवं अन्य
				531	निजी	डोन ।	0.136	अमुल्य महतो पिता मधुसुदन महतो एवं अन्य
				573	निजी	डोन ।	0.038	खोकी महतो पिता मानिक महतो एवं अन्य
				574	निजी	डोन ।	0.004	अनंग मोहन चकवर्ती पिता दिवाकर चकवर्ती एवं अन्य
				586	निजी	डोन ।	0.004	धिरेन्द्र नाथ महतो पिता स्व. देवेन्द्र नाथ महतो
				587	निजी	डोन ।	0.002	धासीराम महतो पिता राम पदो महतो एवं अन्य
				595	निजी	डोन ।	0.002	आदरी महतानी माता बुधनी महातानी एवं अन्य
				597	निजी	डोन ।	0.075	योगेश्वर मंडल पिता गुईराम मंडल एवं अन्य
				598	निजी	डोन ।	0.326	सीतानाथ गोस्वामी पिता खोणे गोस्वामी एवं अन्य
				599	निजी	डोन ।	0.316	महावीर गोराई पिता स्व. द्विजपदो गोराई एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600	निजी	डोन।	0.13	धासीराम महतो पिता राम पदो महतो एवं अन्य
				601	निजी	डोन।	0.132	धासीराम महतो पिता राम पदो महतो एवं अन्य
				602	निजी	डोन।।	0.265	मनसुक महतो पिता लखीराम महतो एवं अन्य
				603	निजी	डोन।	0.089	धासीराम महतो पिता राम पदो महतो एवं अन्य
				604	निजी	डोन।	0.007	धासीराम महतो पिता राम पदो महतो एवं अन्य
				605	निजी	डोन।	0.162	सुनिल महतो पिता धनी महतो एवं अन्य
				606	निजी	डोन।	0.271	पंचान्न गोर्राई पिता भिखाकर गोर्राई
				607	निजी	डोन।	0.036	पंचान्न गोर्राई पिता भिखाकर गोर्राई
				608	निजी	डोन।	0.061	पंचान्न गोर्राई पिता भिखाकर गोर्राई
				609	निजी	डोन।	0.069	काशीनाथ महतो पिता सोना राम महतो एवं अन्य
				610	निजी	डोन।	0.101	अन्तर देवी पति नवल किशोर सिंह एवं अन्य
				611	निजी	डोन।	0.014	सरस्वती महतानी पिता गुहीराम महतो
				614	निजी	डोन।	0.142	मनसुक महतो पिता लखीराम महतो एवं अन्य
				615	निजी	डोन।।	0.178	विजय सिंह पिता विरेन सिंह एवं अन्य
				616	निजी	डोन।	0.053	विजय सिंह पिता विरेन सिंह एवं अन्य
				617	निजी	डोन।	0.077	बबन सिंह पिता गोपाल चन्द्र सिंह एवं अन्य
				618	निजी	डोन।	0.093	भवतारण सिंह पिता ईश्वर सिंह एवं अन्य
				619	निजी	डोन।	0.024	मुरलीमोहन मंजूमदार पिता भवानन्द मंजूमदार एवं अन्य
				620	निजी	डोन।	0.016	अनंग मोहन चक्रवर्ती पिता दिवाकर चक्रवर्ती एवं अन्य
				621	निजी	डोन।	0.012	अनंग मोहन चक्रवर्ती पिता दिवाकर चक्रवर्ती एवं अन्य
				622	निजी	डोन।	0.036	मुरलीमोहन मंजूमदार पिता भवानन्द मंजूमदार एवं अन्य
				623	निजी	डोन।	0.008	अनंग मोहन चक्रवर्ती पिता दिवाकर चक्रवर्ती एवं अन्य
				624	निजी	डोन।	0.012	अनंग मोहन चक्रवर्ती पिता दिवाकर चक्रवर्ती एवं अन्य
				625	निजी	डोन।	0.026	भवतारण सिंह पिता ईश्वर सिंह एवं अन्य
				626	निजी	डोन।	0.087	प्रभात महतो पिता कृष्ण चन्द्र महतो एवं अन्य
				627	निजी	डोन।	0.144	धासीराम महतो पिता राम पदो महतो एवं अन्य
				628	निजी	डोन।	0.04	किरीटी महतो पिता नीलकमल महतो एवं अन्य
				629	निजी	डोन।	0.011	किरीटी महतो पिता नीलकमल महतो एवं अन्य
				742	निजी	डोन।	0.063	बिन्दु महतो पति स्व. सन्तोष महतो एवं अन्य
				743	निजी	डोन।	0.024	केशु महतानी पति राजेन्द्र महतो
				746	निजी	डोन।	0.075	सरस्वती महतानी पिता गुहीराम महतो
				747	निजी	डोन।	0.014	आदरी महतानी माता बुधनी महातानी एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				757	निजी	डोन।	0.065	वशिष्ट नारायण महतो पिता श्रीचौद महतो
				758	निजी	डोन।	0.014	कमला महतो पति आशाराम महतो
				759	निजी	डोन।	0.049	वशिष्ट नारायण महतो पिता श्रीचौद महतो
				760	निजी	डोन।	0.038	सन्तोष कुमार महतो पिता आशाराम महतो एवं अन्य
				769	निजी	डोन।	0.101	खोकी महतो पिता मानिक महतो एवं अन्य
				771	निजी	डोन।	0.061	शशधर महतो पिता रवि महतो एवं अन्य
				772	निजी	डोन।	0.065	अशोक महतो पिता बावरी महतो
				775	निजी	डोन।।	0.067	सुनिल महतो पिता धनी महतो एवं अन्य
				776	निजी	डोन।	0.032	सदाई महतो पिता दुखु महतो एवं अन्य
				778	निजी	डोन।	0.006	शकु महतो पिता किरन महतो एवं अन्य
			बुरुडुंगरी (थाना/जे. एल.न. 244)	8	निजी	डोन।	0.045	नारायण पमाणिक पिता उमेश प्रमाणिक एवं अन्य
				147	निजी	डोन।।	0.001	राम महतो पिता देवनाथ महतो एवं अन्य
				151	निजी	डोन।।	0.03	गंगाधर महतो पिता सुई महतो।
				152	निजी	डोन।	0.712	काशी राम महतो पिता स्व. नितार्ई महतो एवं अन्य
				153	निजी	डोन।	0.227	धीरेन्द्र नाथ महतो पिता स्व. देवेन्द्र नाथ महतो एवं अन्य
				154	निजी	डोन।	0.03	शशधर महतो पिता कालीदास महतो।
				166	निजी	डोन।।	0.039	शशधर महतो पिता कालीदास महतो।
				178	निजी	डोन।	0.075	दिगम्बर महतो पिता गईराम महतो एक अंश।
				179	निजी	डोन।।	0.057	दिगम्बर महतो पिता गईराम महतो एक अंश।
				180	निजी	डोन।।	0.162	निमाई मंडल पिता राम प्रसाद मंडल एवं अन्य
				181	निजी	डोन।	0.032	प्रहलाद नाग पिता महेन्द्र नाग
				182	निजी	डोन।	0.071	श्रीमती शिवानी महतो पति श्री कालीपद महतो
				183	निजी	डोन।	0.002	प्रहलाद नाग पिता महेन्द्र नाग
			लंगडिह (थाना/जे. एल.न. 245)	48	निजी	डोन।	0.034	महादेव महतो पिता चुनाराम महतो
				50	निजी	मोटियार	0.02	शान्ति महतो पति छुटु लाल महतो एवं अन्य
				51	निजी	डोन।	0.067	सरोज देवी पति रसराज महतो एवं अन्य
				52	निजी	मोटियार	0.026	शान्ति महतो पति छुटु लाल महतो एवं अन्य
				53	निजी	डोन।	0.154	शान्ति महतो पति छुटु लाल महतो एवं अन्य
				54	निजी	डोन।	0.117	शान्ति महतो पति छुटु लाल महतो एवं अन्य
				55	निजी	डोन।	0.081	शान्ति महतो पति छुटु लाल महतो एवं अन्य
				56	निजी	मोटियार	0.028	शान्ति महतो पति छुटु लाल महतो एवं अन्य
				69	निजी	डोन।	0.091	श्रीमती शिवानी महतो पति खीरोद चन्द्र महतो
				70	निजी	डोन।	0.334	शान्ति महतो पति छुटु लाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								महतो एवं अन्य
				71	निजी	डोन।	0.063	शान्ति महतो पति छट्टु लाल महतो एवं अन्य
				76	निजी	डोन।	0.223	श्रीमती सिवानी महतो पति खीरोद चन्द्र महतो
				77	निजी	डोन।	0.212	जयदेव महतो पिता अकलु महतो एवं अन्य
				80	निजी	डोन।	0.295	महदेव महतो पिता स्व. चुनाराम महतो एवं अन्य
				81	निजी	डोन।	0.119	उमापदो महतो पिता स्व. चुनाराम महतो
				82	निजी	डोन।	0.073	सुवोध कुमार महतो पिता स्व. नित्यानन्द महतो एवं अन्य
				83	निजी	डोन।	0.034	जयदेव महतो पिता अकलु महतो एवं अन्य
				85	निजी	डोन।	0.002	सुनिल महतो पिता पुर्नो महतो
				90	निजी	डोन।	0.006	आरती महतानी पिता ज्ञान महतो एवं अन्य
				91	निजी	डोन।	0.059	भोला सिंह पिता खेतु सिंह एवं अन्य
				92	निजी	डोन।	0.069	दयामय सिंह सरदार पिता दिनबन्धु सरदार एवं अन्य
				93	निजी	डोन।	0.049	तरुन महतो पिता स्व. प्रफुल्य महतो एवं अन्य
				94	निजी	डोन।	0.065	मलिनद्र महतो पिता कर्मु महतो एवं अन्य
				95	निजी	डोन।	0.089	आन्द महतो पिता भिकु महतो
				96	निजी	डोन।	0.069	भोला सिंह पिता खेतु सिंह एवं अन्य
				97	निजी	डोन।	0.032	आन्द महतो पिता भिकु महतो
				98	निजी	डोन।	0.008	खोकी महतानी पिता मानीक महतो एवं अन्य
				99	निजी	डोन।	0.006	सिन्धु महतानी पति स्व. वावुलाल महतो एवं अन्य
				100	निजी	डोन।	0.002	खोकी महतानी पिता मानीक महतो एवं अन्य
				111	निजी	डोन।	0.001	तरुन महतो पिता स्व. प्रफुल्य महतो एवं अन्य
				116	निजी	डोन।	0.008	खोकी महतानी पिता अनन्त महतो
				117	निजी	डोन।	0.024	सरोज देवी पति स्व. रसोराज महतो एवं अन्य
				118	निजी	डोन।	0.067	सिन्धु महतानी पति स्व. वावुलाल महतो एवं अन्य
				119	निजी	डोन।	0.024	दयामय सिंह सरदार पिता दिनबन्धु सरदार एवं अन्य
				120	निजी	डोन।	0.028	उमापदो महतो पिता चुनाराम महतो एवं अन्य
				121	निजी	डोन।	0.138	मनटु महतो, पिता छट्टु महतो एवं अन्य
				127	निजी	डोन।	0.004	दयामय सिंह सरदार पिता दिनबन्धु सरदार एवं अन्य
			चन्दिल (थाना/जे. एल.न. 246)	127	निजी	डोन।	0.093	श्रीमती राम प्रिया देवी पति श्रीकान्त चन्द्र चक्रवर्ती
				128	निजी	डोन।	0.024	लखी प्रिया देवी पति देवीधर आदित्यदेव
				129	निजी	डोन।	0.063	लखी प्रिया देवी पति देवीधर आदित्यदेव
				139	निजी	डोन।	0.158	सनीचरा देवी पति वाल वचन सिंह एवं अन्य
				141	निजी	डोन।	0.219	श्रीमती राम प्रिया देवी पति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								श्रीकान्त चन्द्र चक्रवर्ती
				142	निजी	डोन।	0.016	श्रीमती राम प्रिया देवी पति श्रीकान्त चन्द्र चक्रवर्ती
				143	निजी	डोन।	0.13	काली दास चौधरी पिता भवतोष चौधरी एवं अन्य
				144	निजी	डोन।	0.049	गौर गोप पिता किर्ती गोप
				145	निजी	डोन।	0.109	नयन सिंह पिता कालीपद सिंह
				155	निजी	डोन।	0.231	योगेश्वर मंडल पिता गोहीराम मंडल एवं अन्य
				156	निजी	डोन।	0.071	विमला वाला दासी पति दुर्गा चरण प्रमाणिक
				157	निजी	डोन।	0.182	निताई चन्द्र मंडल पिता बुढ़न चन्द्र मंडल
				159	निजी	डोन।	0.006	गौर चन्द्र मंडल पिता बुढ़न मंडल।
				178	निजी	डोन।	0.087	योगेश्वर मंडल पिता गोहीराम मंडल एवं अन्य
				180	निजी	डोन।	0.251	रामु नापीत पिता भीखु नापीत
				181	निजी	डोन।।	0.036	रामु नापीत पिता भीखु नापीत
				182	निजी	डोन।	0.113	रामु नापीत पिता भीखु नापीत
				183	निजी	डोन।	0.012	रामु नापीत पिता भीखु नापीत
				184	निजी	डोन।	0.036	उपेन्द्र मंडल पिता राधानाथ मंडल
				185	निजी	डोन।	0.071	वासन्ती गोप पति विभिषण गोप
				203	निजी	डोन।	0.02	दुर्गा पद दौं पिता कार्तिक दौं
				204	निजी	डोन।	0.006	महाराज मांझी पिता लुदु मांझी एवं अन्य
				205	निजी	डोन।	0.042	वासन्ती गोप पति विभिषण गोप
				206	निजी	डोन।	0.036	महाराज मांझी पिता लुदु मांझी एवं अन्य
				207	निजी	डोन।	0.045	महाराज मांझी पिता लुदु मांझी एवं अन्य
				208	निजी	डोन।	0.026	मसो मांझी पिता कार्तिक मांझी
				209	निजी	डोन।	0.016	सुकलाल मांझी पिता रामु मांझी
				210	निजी	डोन।	0.061	तपन नाग पिता सुधिर नाग एवं अन्य
				213	निजी	डोन।	0.071	निधी वाला दासी पति दिनदयाल
				218	निजी	डोन।।	0.119	श्री जीत वाहन सेन पिता स्व. सरेल सेन एवं अन्य
				219	निजी	डोन।।	0.063	पदो मांझी पिता गोकुल मांझी एवं अन्य
				223	निजी	डोन।	0.174	सुहागी मांझी पिता सकरा मांझी एवं अन्य
				225	निजी	डोन।।	0.075	सुरा भुईया पिता घासीया भुईया एवं अन्य
				238	निजी	डोन।।	0.152	घासनी मांझी पति लुथु मांझी एवं अन्य
				239	निजी	डोन।।	0.055	फुलकुमारी हलधर पति महादेव हलधर
				242	निजी	डोन।।	0.081	वनु मांझी पिता
				243	निजी	डोन।।	0.016	वृन्दा प्रसाद महतो पिता स्व. धीरज महतो एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				244	निजी	डोन।	0.049	मसो माझी पिता कार्तिक माझी
				245	निजी	डोन।	0.012	सुकलाल माझी पिता रामु माझी
				247	निजी	डोन।	0.006	चिन्ता मनी दाँ पति
				248	निजी	डोन।।	0.049	घासी राम कुम्हार पिता
				249	निजी	डोन।।	0.038	रीशि कश दाँ पिता कार्तिक दाँ
				260	निजी	डोन।	0.018	हाडीराम माझी पिता गोंदलो माझी
				261	निजी	डोन।	0.045	दुखीराम किस्कु पिता भीम किस्कु
				262	निजी	डोन।	0.061	श्रीधर माझी पिता राधा माझी
				268	निजी	डोन।	0.087	नारायण प्रमाणिक पिता उमेश प्रमाणिक एवं अन्य
				271	निजी	डोन।	0.103	उपेन्द्र मंडल पिता राधानाथ मंडल एवं अन्य
				272	निजी	डोन।	0.075	नुनी माझीयानी पिता वन्दो माझी
				274	निजी	डोन।	0.091	रतन लाल साहु पिता नकुल चन्द्र साहु
				275	निजी	डोन।	0.172	रतन लाल साहु पिता नकुल चन्द्र साहु
				277	निजी	डोन।	0.144	सुरेन्द्र नाथ रक्षित पिता वैद्यनाथ रक्षित
				281	निजी	डोन।	0.172	दुरु सरदार पिता मनसा सरदार एवं अन्य
				282	निजी	पुरानी परती	0.004	दुरु सरदार पिता मनसा सरदार एवं अन्य
				286	निजी	डोन।	0.01	दुरु सरदार पिता मनसा सरदार एवं अन्य
				287	निजी	डोन।	0.049	दुरु सरदार पिता मनसा सरदार एवं अन्य
				288	निजी	डोन।	0.091	दुरु सरदार पिता मनसा सरदार एवं अन्य
				289	निजी	डोन।	0.008	दुरु सरदार पिता मनसा सरदार एवं अन्य
				292	निजी	डोन।	0.004	दुरु सरदार पिता मनसा सरदार एवं अन्य
				294	निजी	डोन।	0.04	दुखीराम माझी पिता भीम माझी
				295	निजी	डोन।	0.045	सिताराम माझी पिता मोहन माझी
				296	निजी	डोन।	0.045	राम चन्द्र माझी पिता गोदलो माझी।
				297	निजी	डोन।	0.008	शरला महतो पति बुधु महतो
				298	निजी	डोन।	0.119	उपेन्द्र मंडल पिता राधा नाथ मंडल एवं अन्य
				299	निजी	डोन।	0.079	नारायण प्रमाणिक पिता उमेश प्रमाणिक एवं अन्य
				300	निजी	डोन।	0.075	नुनी माझीयानी पिता वन्दो माझी
				301	निजी	डोन।	0.067	नारायण प्रमाणिक पिता उमेश प्रमाणिक एवं अन्य
				304	निजी	डोन।	0.065	गौर चन्द्र मंडल पिता बुडन मंडल एवं अन्य
				306	निजी	डोन।	0.049	कडी सरदार पिता मान सिंह सरदार
				307	निजी	डोन।	0.022	दुरु सरदार पिता मनसा सरदार एवं अन्य
				308	सरकारी	रास्ता	0.028	सरकारी
			रुचप	819	सरकारी	रास्ता	0.024	सरकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(थाना/जे. एल.न. 238)	820	निजी	डोन II	0.397	शिखा सिन्हा पति स्व. तारा प्रसाद सिन्हा एवं अन्य
				821	निजी	मोटियार	0.065	अमिन चन्द्र महतो पिता स्व. मोतीलाल महतो एवं अन्य
				822	निजी	डोन II	0.364	विपद तारन गोप पिता शशीधर गोप एवं अन्य
				823	निजी	डोन III	0.036	विपद तारन गोप पिता शशीधर गोप एवं अन्य
				824	निजी	डोन III	0.146	जगन्नाथ गोप पिता गौर गोप एवं अन्य
				825	निजी	मोटियार	0.045	वनु गोप पिता स्व. हलधर गोप एवं अन्य
				826	निजी	डोन I	0.253	दिलीप प्रमाणिक पिता भैरव प्रमाणिक एवं अन्य
				991	निजी	डोन I	0.168	हरिलाल राय पिता विनय कुमार राय एवं अन्य
				994	निजी	डोन I	0.036	रामचन्द्र कुम्हार पिता दुर्योधन कुम्हार एवं अन्य
				995	निजी	मोटियार	0.069	शिखा सिन्हा पति तारा प्रसाद सिन्हा एवं अन्य
				996	निजी	डोन I	0.583	शिखा सिन्हा पति तारा प्रसाद सिन्हा एवं अन्य
				997	निजी	मोटियार	0.032	हरिलाल राय पिता विनय कुमार राय एवं अन्य
				1007	निजी	गोड़ा I	0.107	अरुप कुमार सिंह पिता विजय चन्द्र सिंह एवं अन्य
				1008	निजी	डोन III	0.012	अरुप कुमार सिंह पिता विजय चन्द्र सिंह एवं अन्य
				1009	सरकारी	कृषी रहित	0.049	सरकारी
				1010	निजी	डोन III	0.024	अरुप कुमार सिंह पिता विजय चन्द्र सिंह एवं अन्य
				1011	निजी	गोड़ा I	0.081	अरुप कुमार सिंह पिता विजय चन्द्र सिंह एवं अन्य
				1022	निजी	गोड़ा II	0.051	गीता देवी पति गुरुचरण सिंह मुण्डा एवं अन्य
				1023	निजी	डोन III	0.142	गीता देवी पति गुरुचरण सिंह मुण्डा एवं अन्य
				1024	निजी	मोटियार	0.016	गीता देवी पति गुरुचरण सिंह मुण्डा एवं अन्य
				1025	निजी	डोन I	0.083	निर्मलेन्दु राय पिता कल्याणी चरण राय एवं अन्य
				1026	निजी	डोन I	0.083	निर्मलेन्दु राय पिता कल्याणी चरण राय एवं अन्य
				1027	निजी	डोन II	0.14	हरीलाल राय पिता विनय कुमार राय एवं अन्य
				1033	निजी	डोन I	0.107	बेबी सिंह पति भक्तिपदो सिंह
				1084	निजी	डोन II	0.071	निर्मलेन्दु राय पिता कल्याणी चरण राय एवं अन्य
				1085	निजी	डोन I	0.389	रम्भा देवी पति स्व० सुचौद कुम्भकार एवं अन्य
				1086	निजी	डोन I	0.032	निर्मलेन्दु राय पिता कल्याणी चरण राय एवं अन्य
				1087	निजी	डोन I	0.081	निर्मलेन्दु राय पिता कल्याणी चरण राय एवं अन्य
				1088	निजी	डोन II	0.024	निर्मलेन्दु राय पिता कल्याणी चरण राय एवं अन्य
				1089	निजी	डोन I	0.119	बेबी सिंह पति भक्तिपदो सिंह
				1094	निजी	मोटियार	0.02	गीता देवी पति गुरुचरण सिंह मुण्डा एवं अन्य
				1175	निजी	डोन III	0.138	अरुप कुमार सिंह पिता विजय चन्द्र सिंह एवं अन्य
				1176	निजी	पुरानी परती	0.358	अरुप कुमार सिंह पिता विजय चन्द्र सिंह एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1177	निजी	नदी	0.107	रत्नाकर खैतान पिता निलकमल खैतान एवं अन्य
				1178	निजी	पुरानी परती	0.117	रत्नाकर खैतान पिता निलकमल खैतान एवं अन्य
				1179	निजी	नदी	0.061	रत्नाकर खैतान पिता निलकमल खैतान एवं अन्य
				1180	निजी	गोड़ा II	0.022	रत्नाकर खैतान पिता निलकमल खैतान एवं अन्य
				1182	निजी	डोन I	0.051	निर्मलेन्दु राय पिता कल्याणी चरण राय एवं अन्य
				1183	निजी	डोन I	0.314	निर्मलेन्दु राय पिता कल्याणी चरण राय एवं अन्य
				1184	निजी	डोन II	0.069	अरुण कुमार सिंह पिता विजय चन्द्र सिंह एवं अन्य
				1185	निजी	डोन II	0.03	डोमन कुम्भकार पिता युगल कुम्भकार एवं अन्य
				1186	निजी	डोन II	0.004	डोमन कुम्भकार पिता युगल कुम्भकार एवं अन्य
				1187	निजी	डोन II	0.117	बेबी सिंह पति भक्तिपदो सिंह
				1188	निजी	डोन II	0.065	मोहन कुमार एवं अन्य
				1023/1703	निजी	डोन III	0.219	गीता देवी पति गुरुचरण सिंह मुण्डा एवं अन्य
				1179/1707	सरकारी	कृषी रहित	0.184	सरकारी
		गंगुडिह (थाना/जे. एल.न. 249)		102	सरकारी	रास्ता	0.002	सरकारी
			103	निजी	गोड़ा II	0.002	सावी माझी पिता सुना माझी एवं अन्य	
			104	निजी	गोड़ा II	0.073	सावी माझी पिता सुना माझी एवं अन्य	
			105	निजी	गोड़ा II	0.069	आनन्द माझी माता सरस्वती माझी एवं अन्य	
			109	निजी	गोड़ा II	0.022	ठाकुर माझी एवं अन्य	
			153	सरकारी	जंगल झाड़ी	0.324	सरकारी	
			154	निजी	गोड़ा II	0.125	दिकु माझी पिता रबी माझी एवं अन्य	
			155	निजी	मोटियार	0.002	दिकु माझी पिता रबी माझी एवं अन्य	
			156	निजी	गोड़ा II	0.022	दिकु माझी पिता रबी माझी एवं अन्य	
			172	निजी	गोड़ा II	0.081	घासी राम माझी एवं अन्य	
			173	निजी	गोड़ा II	0.006	घासी राम माझी एवं अन्य	
			175	निजी	गोड़ा II	0.002	दिकु माझी पिता रबी माझी एवं अन्य	
			176	निजी	जंगल झाड़ी	0.271	घासी राम माझी एवं अन्य	
			184	निजी	डोन I	0.01	बुधनी माझियान पति अश्विनी माझी एवं अन्य	
			185	निजी	डोन II	0.13	बुधनी माझियान पति अश्विनी माझी एवं अन्य	
			186	निजी	पुरानी परती	0.445	घासी राम माझी एवं अन्य	
			187	निजी	पुरानी परती	0.219	घासी राम माझी एवं अन्य	
			188	निजी	डोन III	0.093	सुमीत्रा माझियान पिता मंडल माझी एवं अन्य	
			189	निजी	डोन I	0.004	बुधनी माझियान पति अश्विनी माझी एवं अन्य	
			202	निजी	डोन II	0.045	बुधनी माझियान पति अश्विनी माझी एवं अन्य	
			203	निजी	डोन II	0.121	होपना माझी एवं अन्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				204	निजी	डोन II	0.002	गुंगा माझी एवं अन्य
				208	निजी	डोन II	0.006	बुद्धेश्वर माझी पिता रागदु माझी
				209	निजी	डोन III	0.049	बुद्धेश्वर माझी पिता रागदु माझी
				210	निजी	डोन III	0.065	बुधनी माझियान पति अश्विनी माझी एवं अन्य
				211	निजी	डोन III	0.125	गुंगा माझी एवं अन्य
				212	निजी	गोड़ा II	0.026	होपना माझी एवं अन्य
				213	निजी	डोन III	0.024	होपना माझी एवं अन्य
				214	निजी	डोन II	0.032	बुधनी माझियान पति अश्विनी माझी एवं अन्य
				215	निजी	डोन III	0.04	काली माझी एवं अन्य
				216	निजी	डोन III	0.04	बुधनी माझियान पति अश्विनी माझी एवं अन्य
				217	निजी	डोन III	0.026	काली माझी एवं अन्य
				218	निजी	डोन II	0.018	सोनाराम माझी एवं अन्य
				219	निजी	डोन II	0.006	बुधनी माझियान पति अश्विनी माझी एवं अन्य
				220	निजी	डोन III	0.018	बुधनी माझियान पति अश्विनी माझी एवं अन्य
				221	निजी	डोन III	0.008	काली माझी एवं अन्य
				236	निजी	मोटियार	0.004	सोनाराम माझी एवं अन्य
				239	निजी	डोन III	0.002	बुधनी माझियान पति अश्विनी माझी एवं अन्य
				240	निजी	डोन II	0.125	रवि माझी पिता मनसा माझी एवं अन्य
				241	निजी	डोन II	0.166	रवि माझी पिता मनसा माझी एवं अन्य
				242	निजी	मोटियार	0.016	रवि माझी पिता मनसा माझी
				243	निजी	पुरानी परती	0.016	काला माझी एवं अन्य
				244	निजी	मोटियार	0.016	रवि माझी पिता मनसा माझी
				245	निजी	डोन II	0.089	रवि माझी पिता मनसा माझी
				246	निजी	डोन II	0.024	रवि माझी पिता मनसा माझी
				247	निजी	डोन III	0.176	रवि माझी पिता मनसा माझी
				248	निजी	गोड़ा III	0.049	रवि माझी पिता मनसा माझी
				249	निजी	गोड़ा III	0.01	चिनुवा माझीयानी पिता धाना माझी एवं अन्य
				252	निजी	गोड़ा III	0.316	सरबन माझी पिता लोदरो माझी एवं अन्य
				253	निजी	गोड़ा III	0.065	सोनाराम माझी पिता
				255	निजी	गोड़ा II	0.04	रवि माझी पिता मनसा माझी
				382	निजी	गोड़ा II	0.042	वालक सिंह पिता स्व0 एवं अन्य
				383	निजी	डोन II	0.073	रास विहारी पंगा पिता कानन पंगा ईत्यादि
				384	निजी	डोन I	0.089	कालीराम माझी पिता फरसु माझी
				385	निजी	डोन II	0.089	फुचु माझी पिता घासीया माझी एवं अन्य
				386	निजी	मोटियार	0.001	वालक सिंह एवं अन्य
				388	निजी	डोन II	0.004	मोची राम मुर्मू
				393	निजी	डोन I	0.002	जोबुना मानकी पति मदन मानकी I
				394	निजी	डोन II	0.018	पानमनी माझीयानी पति श्रावण माझी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				395	निजी	डोन ॥	0.109	जोबुना मानकीनी पति मदन मानकी।
				396	निजी	डोन ॥	0.057	मोहन माझी पिता श्रावण माझी।
				397	निजी	डोन ॥	0.156	श्रावण माझी पिता झवरा माझी।
				398	निजी	डोन ॥	0.134	वासन्ती माझी पति मोहन माझी।
				399	निजी	डोन ॥	0.125	गोष्ठी विहारी बाग पिता केदार नाथ बाग
				416	निजी	डोन ॥	0.01	मोहन माझी पिता श्रावण माझी।
				417	निजी	डोन ॥	0.04	मोहन माझी पिता श्रावण माझी।
				418	निजी	डोन ॥	0.036	मोहन माझी पिता श्रावण माझी।
				421	निजी	डोन ॥	0.069	बुधु प्रमाणिक पिता छट्टु प्रमाणिक एवं अन्य
				422	निजी	डोन ॥	0.073	मदन मानकी पिता संकट मानकी।
				423	निजी	डोन ॥	0.113	मदन मानकी पिता संकट मानकी।
				424	निजी	डोन ॥	0.093	होपना माझी एवं अन्य
				426	निजी	डोन ॥	0.006	होपना माझी एवं अन्य
				428	निजी	डोन ॥	0.051	मनीराम माझी पिता इन्द्रजीत माझी एवं अन्य
				429	निजी	डोन ॥	0.028	मनीराम माझी पिता इन्द्रजीत माझी एवं अन्य
				430	निजी	डोन ॥	0.032	मुकुरु माझीयानी पति गुहिराम माझी एवं अन्य
				431	निजी	डोन ॥	0.045	मुनीराम माझी पिता इन्द्रजीत माझी एवं अन्य
				432	निजी	डोन ॥	0.13	मुनीराम माझी पिता इन्द्रजीत माझी एवं अन्य
				469	निजी	डोन ॥	0.012	मोची राम मुर्मू पिता जीत माझी एवं अन्य
				470	निजी	डोन ॥	0.018	कालीराम माझी पिता फरसु माझी
				471	निजी	डोन ॥	0.008	शम्भु माझी पिता शकला माझी एवं अन्य
				472	निजी	डोन ॥	0.012	मोचीराम माझी पिता जीतुमा माझी
				473	निजी	डोन ॥	0.012	कालीराम पिता फरसु माझी
				474	निजी	डोन ॥	0.036	मोचीराम एवं अन्य
				475	निजी	डोन ॥	0.028	कालीराम पिता फरसु माझी
				477	निजी	डोन ॥	0.032	पदु माझी पिता नन्दो माझी एवं अन्य
				478	निजी	डोन ॥	0.028	पदु माझी पिता नन्दो माझी एवं अन्य
				479	निजी	डोन ॥	0.028	पदु माझी पिता नन्दो माझी एवं अन्य
				480	निजी	डोन ॥	0.018	फुचु माझी पिता घासीया माझी एवं अन्य
				481	निजी	डोन ॥	0.014	मोचीराम माझी पिता जीतु माझी एवं अन्य
				482	निजी	डोन ॥	0.016	कालीराम माझी पिता फरसु माझी।
				483	निजी	डोन ॥	0.024	शम्भु माझी पिता शकला माझी।
				484	निजी	डोन ॥	0.01	पदु माझी पिता नन्दो माझी एवं अन्य
				501	निजी	डोन ॥	0.01	शम्भु माझी पिता शकला

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								माझी।
				511	निजी	डोन ॥	0.057	घासनी भुमजानी पिता राखाल भुमिज एवं अन्य
				512	निजी	डोन ॥	0.13	घासनी भुमजानी पिता राखाल भुमिज एवं अन्य
				515	निजी	डोन ॥	0.002	सुर्य नारायण घोषाल
				516	निजी	डोन ॥	0.038	घासनी भुमजानी पिता राखाल भुमिज एवं अन्य
				517	निजी	डोन ॥	0.04	घासनी भुमजानी पिता राखाल भुमिज एवं अन्य
				519	निजी	गोडा ॥	0.002	घासनी भुमजानी पिता राखाल भुमिज
				520	निजी	डोन ॥	0.034	घासनी भुमजानी पिता राखाल भुमिज
				521	निजी	डोन ॥	0.032	मोचीराम मुर्तु एवं अन्य
				522	निजी	डोन ॥	0.02	कालीराम माझी पिता फरसु माझी
				523	निजी	डोन ॥	0.02	सारथी माझी पिता कारु माझी।
				524	निजी	डोन ॥	0.049	घासनी भुमजानी पिता राखाल भुमिज
				525	निजी	गोडा ॥	0.018	सारथी माझी पिता कारु माझी
				526	निजी	डोन ॥	0.014	सारथी माझी पिता कारु माझी
				527	निजी	डोन ॥	0.036	सुर्य नारायण घोषाल
				528	निजी	गोडा ॥	0.028	घासनी भुमजानी पिता राखाल भुमिज
				570	निजी	डोन ॥	0.002	सुर्य नारायण घोषाल
				574	निजी	डोन ॥	0.04	पुष्पा प्रमाणिक पति तरणी प्रमाणिक एवं अन्य
				578	निजी	गोडा ॥	0.219	पुष्पा प्रमाणिक पति तरणी प्रमाणिक एवं अन्य
				581	निजी	गोडा ॥	0.061	सुर्य नारायण घोषाल
				582	निजी	गोडा ॥	0.101	सुर्य नारायण घोषाल
				585	निजी	गोडा ।	0.006	फुचु माझी पिता घासीया माझी एवं अन्य
				586	निजी	गोडा ॥	0.267	सुर्य नारायण घोषाल
				587	निजी	गोडा ।	0.012	ठाकुर माझी पिता सोमाई माझी एवं अन्य
				592	निजी	गोडा ॥	0.034	होपन माझी पति रगुड माझी एवं अन्य
				593	निजी	गोडा ॥	0.034	होपन माझी पति रगुड माझी एवं अन्य
				599	निजी	गोडा ॥	0.002	वालक सिंह पिता जीतु सिंह सरदार एवं अन्य
				600	निजी	गोडा ॥	0.018	वालक सिंह पिता जीतु सिंह सरदार एवं अन्य
				601	निजी	गोडा ॥	0.13	वालक सिंह पिता जीतु सिंह सरदार एवं अन्य
				602	निजी	गोडा ॥	0.097	वालक सिंह पिता जीतु सिंह सरदार एवं अन्य
				603	निजी	गोडा ॥	0.405	रवि माझी पिता मनसा माझी
				604	निजी	गोडा ॥	0.034	रवि माझी पिता मनसा माझी
				605	निजी	गोडा ॥	0.032	सावी माझी पिता सुना माझी एवं अन्य
				606	निजी	डोन ॥	0.01	सावी माझी पिता सुना माझी एवं अन्य
				609	निजी	डोन ॥	0.002	श्रावण माझी पिता झवरा माझी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				610	निजी	डोन II	0.014	श्रावण माझी पिता झवरा माझी।
				611	निजी	गोडा II	0.002	उजर माझी पिता नुनु माझी एवं अन्य
				617	निजी	गोडा II	0.01	सावी माझी एवं अन्य
				990	सरकारी	कृषी रहित	0.089	सरकारी
				991	निजी	गोडा III	0.227	लुडकु प्रमाणिक पिता नकुल प्रमाणिक
				992	निजी	पुरानी परती	0.016	लुडकु प्रमाणिक पिता नकुल प्रमाणिक
				993	निजी	मोटियार	0.038	अश्विनी प्रमाणिक पिता नकुल प्रमाणिक
				994	निजी	जंगल झाड़ी	0.065	अश्विनी प्रमाणिक पिता नकुल प्रमाणिक एवं अन्य
				995	सरकारी	डोन II	0.121	सरकारी
				996	निजी	डोन I	0.065	अश्विनी प्रमाणिक पिता नकुल प्रमाणिक
				997	निजी	डोन I	0.028	अश्विनी प्रमाणिक पिता नकुल प्रमाणिक
				998	निजी	डोन I	0.243	जनार्दन प्रमाणिक पिता शंकर प्रमाणिक एवं अन्य
				1025	निजी	डोन II	0.283	वासन्ती सिंह सरदार पति बिहारी भूमिज
				1027	निजी	डोन II	0.032	सोभा माझी पिता जीतु माझी
				1028	निजी	डोन III	0.053	भुजगिनी भूमिजानी पिता मकरा सिंह एवं अन्य
				1029	निजी	डोन II	0.065	जोती कांवर पिता चिनी कंवार एवं अन्य
				1031	निजी	डोन II	0.01	लाली माणे पति काशीनाथ माझी एवं अन्य
				1062	निजी	डोन II	0.202	नारायण प्रमाणिक पिता उमेश चन्द्र प्रमाणिक।
				1063	निजी	डोन II	0.364	नारायण प्रमाणिक पिता उमेश चन्द्र प्रमाणिक।
				1064	निजी	मोटियार	0.032	नारायण प्रमाणिक पिता उमेश चन्द्र प्रमाणिक।
				1065	निजी	डोन II	0.038	नारायण प्रमाणिक पिता उमेश चन्द्र प्रमाणिक।
				1072	निजी	डोन III	0.045	किशोर माझी एवं अन्य
				1074	निजी	डोन III	0.051	विरधन माझी पिता सोम माझी
				1075	निजी	डोन III	0.089	नारायण प्रमाणिक पिता उमेश चन्द्र प्रमाणिक
				1076	निजी	डोन III	0.121	नारायण प्रमाणिक पिता उमेश चन्द्र प्रमाणिक
				1111	निजी	डोन III	0.012	झरी माझीयानी पिता दुर्गा माझी एवं अन्य
				1114	निजी	डोन II	0.04	झरी माझीयानी पिता दुर्गा माझी एवं अन्य
				1115	निजी	डोन II	0.049	पुष्पा प्रमाणिक पति तरणी प्रमाणिक
				1116	निजी	डोन II	0.024	पुष्पा प्रमाणिक पति तरणी प्रमाणिक
				1117	निजी	डोन II	0.02	पुष्पा प्रमाणिक पति तरणी प्रमाणिक
				1118	निजी	डोन II	0.008	पुष्पा प्रमाणिक पति तरणी प्रमाणिक
				1119	निजी	डोन II	0.01	पुष्पा प्रमाणिक पति तरणी प्रमाणिक
				1120	निजी	डोन II	0.008	पुष्पा प्रमाणिक पति तरणी प्रमाणिक
				1121	निजी	डोन II	0.001	पुष्पा प्रमाणिक पति तरणी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								प्रमाणिक
				1122	निजी	डोन II	0.214	पुष्पा प्रमाणिक पति तरणी प्रमाणिक
				1123	निजी	डोन II	0.006	सोमा माझी पिता कुँवर माझी
				1124	निजी	डोन II	0.089	अलंगा माझीयानी पिता जादु माझी एवं अन्य
				1125	निजी	डोन II	0.198	ठाकुर माझी पिता सोमाई माझी एवं अन्य
				1126	निजी	डोन II	0.057	अलंगा माझीयानी पिता जादु माझी एवं अन्य
				1127	निजी	डोन II	0.045	सोमा माझी पिता कुँवर माझी
				1128	निजी	डोन II	0.105	ठाकुर माझी एवं अन्य
				1129	निजी	डोन II	0.065	सोमा माझी पिता कुँवर माझी
				1130	निजी	डोन II	0.008	अलंगा माझीयानी पिता जादु माझी एवं अन्य
				1131	निजी	डोन II	0.008	सोमा माझी पिता कुँवर माझी
				1132	निजी	डोन III	0.016	ठाकुर माझी एवं अन्य
				1133	निजी	डोन III	0.008	वासन्ती सिंह सरदार पति बिहारी भुमिज
				1134	निजी	पुरानी परती	0.02	वासन्ती सिंह सरदार पति बिहारी भुमिज
				1135	निजी	डोन II	0.038	गोष्ठी बिहारी वाग पिता केदार नाथ वाग
				1136	निजी	पुरानी परती	0.002	मुन्डरू माझी पिता छोटा दुर्गा माझी एवं अन्य
				1137	निजी	डोन II	0.012	मुन्डरू माझी पिता छोटा दुर्गा माझी एवं अन्य
				1138	निजी	डोन III	0.045	लाली माझी पति काशीनाथ माझी एवं अन्य
				1139	निजी	डोन III	0.04	भुजंगिनी भुमिजानी पिता मकरा सिंह एवं अन्य
				1140	निजी	डोन III	0.049	सोमा माझी पिता जीतु माझी
				1141	निजी	डोन III	0.032	मुन्डरू माझी पिता छोटा दुर्गा माझी एवं अन्य
				1142	निजी	डोन III	0.04	मुन्डरू माझी पिता छोटा दुर्गा माझी एवं अन्य
				1143	निजी	डोन III	0.219	सतीश चन्द्र वाग पिता केदार नाथ वाग।
				1144	निजी	डोन III	0.073	श्रावन भुमिज पिता जीवन भुमिज एवं अन्य
				1145	निजी	डोन III	0.028	श्रावन भुमिज पिता जीवन भुमिज एवं अन्य
				1146	निजी	डोन III	0.089	उपेन्द्र कुमार एवं अन्य
				1147	निजी	डोन III	0.002	आरती देवी पति कान्हार प्रमाणिक।
				1148	निजी	डोन III	0.042	पीरू भुमिज पिता लेडा भुमिज एवं अन्य
				1149	निजी	डोन III	0.01	जितेन भूमिज पिता जहलु भूमिज
				1169	निजी	डोन III	0.02	वासुदेव महतो पिता धनंजय महतो एवं अन्य
				1230	सरकारी	नदी	0.202	सरकारी
				1607	सरकारी	पुरानी परती	0.109	सरकारी
				1608	निजी	डोन II	0.097	त्रिलोचन सिंह सरदार पिता लखन भुमिज
				1609	निजी	डोन II	0.073	मोहन कुमार एवं अन्य
				1610	निजी	गोड़ा III	0.016	सिमन्त प्रमाणिक पिता विशो नापित एवं अन्य
				1611	निजी	गोड़ा II	0.259	दशरथ भुमिज पिता भोटो भुमिज एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1619	निजी	पुरानी परती	0.494	भुरि माझीयानी पिता दुर्गा माझी एवं अन्य
				1620	निजी	डोन ॥	0.567	श्रावन भुमिज पिता जीवन भुमिज एवं अन्य
				1631	निजी	गोड़ा ॥	0.259	थाथुराम माझी पिता लाकप माझी
				1632	निजी	गोड़ा	0.652	पुरुषोत्तम सिंह सरदार पिता जय जीवन सिंह एवं अन्य
				1633	निजी	गोड़ा ॥	0.251	शुकु माझी एवं अन्य
				1637	निजी	गोड़ा ॥	0.235	शुकु माझी एवं अन्य
				1638	निजी	गोड़ा ॥	0.17	साहु माझी पिता कान्दरा माझी
				1639	निजी	डोन ॥	0.117	रवि माझी पिता माधव माझी एवं अन्य
				1640	निजी	डोन ॥	0.097	जय जिवन सिंह सरदार पिता पुरोषतम सिंह एवं अन्य
				1644	निजी	डोन ॥	0.022	सनु माझी पिता रवि माझी एवं अन्य
				1651	निजी	गोड़ा ॥	1.036	लखीपदो सिंह सरदार पिता मोतीलाल एवं अन्य
				1652	निजी	डोन ॥	0.002	मोचीराम मुर्मु एवं अन्य
				1653	निजी	डोन ॥	0.138	शुकु माझी एवं अन्य
				1654	निजी	गोड़ा ॥	0.615	शुकु माझी एवं अन्य
				1655	निजी	गोड़ा ॥	0.012	पार्वति माझी पति सोम माझी
				1678	निजी	गोड़ा ॥	0.267	सीताराम माझी पिता लखन माझी
				1685	निजी	गोड़ा ॥	0.283	सोमा माझी पिता कुँवर माझी
				1686	निजी	गोड़ा ॥	0.008	थाथुराम माझी पिता लाकप माझी
				1688	सरकारी	डुंगरी	0.049	सरकारी
				1690	निजी	गोड़ा ॥	0.016	हरे कृष्टो नापित
				1998	निजी	डोन ॥	0.17	सुकराम माझी पिता थाथु राम माझी एवं अन्य
			घोरलिंग (थाना/जे. एल.न. 205)	2199	जंगल	कृषी रहित	0.461	सरकारी
				2235	सरकारी	कृषी रहित	0.152	सरकारी
				2236	निजी	गोड़ा ।	0.026	खियन कैवर्त पिता रोहिन कैवर्त ।
				2241	निजी	डोन ॥	0.028	पारिक्षित महतो पिता लेरहा महतो
				2243	निजी	डोन ॥	0.032	गन महतो पिता शुकू महतो एवं अन्य
				2244	निजी	डोन ॥	0.202	वनु महतो पिता शुकु महतो एवं अन्य
				2245	निजी	डोन ॥	0.02	गन महतो पिता शुकू महतो एवं अन्य
				2246	निजी	डोन ॥	0.045	कर्मू महतो पिता गुही महतो एवं अन्य
				2247	निजी	डोन ॥	0.065	कर्मू महतो पिता गुही महतो एवं अन्य
				2248	निजी	डोन ॥	0.045	सुभद्र महतानी पति जीतु महतो ।
				2249	निजी	डोन ॥	0.091	सुभद्र महतानी पति जीतु महतो ।
				2250	निजी	डोन ॥	0.014	सुभद्र महतानी पति जीतु महतो ।
				2253	निजी	डोन ॥	0.002	कोका महतो पिता मनु महतो एवं अन्य
				2255	सरकारी	कृषी रहित	0.02	सरकारी
				2427	निजी	गोड़ा ॥	0.042	श्री शिवु महतो पिता स्व.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								कोकिल महतो
				2428	निजी	गोड़ा III	0.024	कर्मू महतो पिता गुही महतो एवं अन्य
				2429	निजी	गोड़ा III	0.026	गन महतो पिता शुक्ल महतो एवं अन्य
				2430	निजी	गोड़ा III	0.028	कोका महतो पिता मनु महतो एवं अन्य
				2431	निजी	गोड़ा III	0.073	आनन्द महतो पिता खुदु महतो एवं अन्य
				2433	निजी	गोड़ा III	0.089	लाल बिहारी महतो पिता कनहई महतो
				2597	निजी	गोड़ा III	0.121	जगरनाथ महतो पिता लाल बिहारी महतो एवं अन्य
				2598	सरकारी	कृषी रहित	0.194	सरकारी
				2604	निजी	डोन III	0.012	आनन्द महतो पिता खुदु महतो एवं अन्य
				2605	निजी	डोन III	0.028	पारिक्षित महतो पिता लेरहा महतो
				2606	निजी	गोड़ा III	0.148	मोती लाल महतो पिता गोकुल महतो एवं अन्य
				2607	सरकारी	कृषी रहित	0.012	सरकारी
				2608	निजी	गोड़ा III	0.243	मोती लाल महतो पिता गोकुल महतो एवं अन्य
				2609	निजी	गोड़ा III	0.194	कालुराम महतो पिता पोदी महतो
				2610	निजी	गोड़ा III	0.079	आनन्द महतो पिता खुदु महतो एवं अन्य
				2612	जंगल	गोड़ा III	0.057	सरकारी
				2613	जंगल	डोन III	0.049	सरकारी
				2614	निजी	गोड़ा III	0.111	जगरनाथ महतो पिता लाल बिहारी महतो एवं अन्य
				2615	निजी	गोड़ा III	0.069	कुशल चन्द्र महतो पिता लाल महतो
				2616	निजी	गोड़ा III	0.008	कुशल चन्द्र महतो पिता लाल महतो
				2618	निजी	गोड़ा III	0.014	आनन्द महतो पिता खुदु महतो एवं अन्य
				2640	निजी	डोन II	0.036	मोती लाल महतो पिता गोकुल महतो एवं अन्य
				2641	निजी	डोन II	0.111	मोती लाल महतो पिता गोकुल महतो एवं अन्य
				2642	निजी	गोड़ा III	0.089	घोल्टु महतो पिता भैरव महतो
				2643	जंगल	कृषी रहित	0.105	सरकारी
				2714	निजी	गोड़ा III	0.001	कालुराम महतो पिता पोदी महतो
				2715	सरकारी	गोड़ा III	0.144	सरकारी
				2716	सरकारी	कृषी रहित	0.253	सरकारी
				2720	निजी	गोड़ा II	0.045	श्री मथरु महतो पिता कालु महतो।
				2721	निजी	गोड़ा II	0.049	दुर्गो पदो महतो पिता गोलटु महतो
				2722	निजी	गोड़ा II	0.061	फुलचन्द महतो पिता अधनु महतो
				2723	निजी	गोड़ा II	0.107	जिन्दु महतानी पति मुनिराम महतो
				2724	निजी	गोड़ा II	0.022	कृतिवास महतो पिता मनसा महतो एवं अन्य
				2743	निजी	पुरानी परती	0.395	सन्तोष भुमिज पिता भीम भुमिज।
				2744	निजी	पुरानी परती	0.119	दुखु माझी सरकार पिता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								बुड़िया मांझीयन
				2813	निजी	गोड़ा III	0.103	जयदेव महतो पिता रेवती महतो एवं अन्य
				2612/3219	निजी	डोन II	0.093	कर्मू महतो पिता गुही महतो एवं अन्य
				2234/3256	सरकारी	कृषी रहित	0.038	सरकारी
				2244/3263	जंगल	कृषी रहित	0.036	सरकारी
				2244/3264	निजी	गोड़ा I	0.144	गुरुआ मांझी एवं अन्य
				2250/3265	जंगल	कृषी रहित	0.144	सरकारी
				2716/3280	जंगल	कृषी रहित	0.144	सरकारी

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयु दुर्गापुर/एन एच-32/3डी]
माया प्राकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2016

S.O. 481(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1611 (E) Dated 17th June 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 56) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / 4 laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 32, on the stretch of land from km 132.900 to Km 153.705 (Purulia – Balarampur – Chandil Section) in the District of Saraikela in the state of Jharkhand.

And, whereas, the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Prabhat Khabar” dated the 24th July 2015, under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances;

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km 132.900 to km 153.705 (Purulia–Balarampur–Chandil Section) of the National Highway No. 32 in the state of Jharkhand.

Sl. No.	Name of the District	Name of the Tehsil / Taluk	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area	Name of Person Interested
							(in Ha.)	
1	Saraikela	Raghunathpur	Adardih (J.L. No. 292)	462/p	Private	Done III	0.012	Amar Kumar s/o Gopal Kumhar
				463/P	Private	Done III	0.089	Guhiram Mandal s/o Bhushan Mandal and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				464/p	Govt.	Rasta	0.022	Govt.
				465/P	Private	Purani Parti	0.091	Sudhir Chandra Gorai s/o Lt. Devu Gorai and Others
				474/P	Private	Done III	0.083	Ratni Devi w/o Lt. Ritu Kumar and Others
				475/P	Private	Done III	0.004	Agast Pramanik s/o Hadiram Pramanik
				476/P	Private	Done III	0.032	Agast Pramanik s/o Hadiram Pramanik and Others
				477/P	Private	Done III	0.02	Shivprasad Pandey s/o Umamad Pandey and Others
				478/P	Private	Done III	0.002	Narendra Nath Kumar, s/o Janardan Kumar and Others
				479/P	Private	Gora II	0.018	Narendra Nath Kumar, s/o Janardan Kumar and Others
				482/P	Private	Done II	0.006	Prem Kumar Mehta s/o Sarwan Kumar Mehta
				483/P	Private	Done II	0.012	Chitranjan Dutta s/o Laxmi Narayan Dutta and Others
				486/P	Private	Done II	0.014	Sohan Gorai
				487/P	Private	Done II	0.016	Gundhar Kumar s/o Hiralal Kumbhakar
				503/P	Private	Done III	0.053	Madhusudan Chand s/o Mohan Chand and Others
				505/P	Private	Gora II	0.014	Nibasi Napitani w/o Kalipad Napit and Others
				506/P	Private	Gora I	0.04	Bimal Gorai w/o Ajit Gorai and Others
				507/P	Govt.	Rasta	0.004	Govt.
				508/P	Private	Gora I	0.04	Santosh Gorai s/o Khoka Gorai and Others
				510/P	Govt.	Rasta	0.008	Govt.
				512/P	Private	Gora I	0.024	Kalipad Gorai s/o Kamal Gorai
				514/P	Private	Gora I	0.04	Dayamay Rajak s/o Hem Chandra Rajak and Others
				515/F	Private	Makan/Saha n	0.016	Ashutosh Chandra, Khudiwala Dasi
				517/P	Private	Makan/Saha n	0.006	Purnachandra Chandra and Chunnilal Chandra
				518/P	Private	Makan/Saha n	0.006	Gagan Chandra s/o Chunnilal
				519/P	Private	Makan/Saha n	0.008	Gagan Chandra s/o Chunnilal
				521/P	Private	Gora I	0.008	Gunadhar Chandra s/o Anand Chandra
				522/P	Private	Makan/Saha n	0.008	Lalita Kumharin w/o Bhadu Kumhar and Others
				529/P	Private	Gora I	0.02	Rabindra Nath Gorai s/o Lt. Chandi Charan Gorai
				530/P	Private	Gora I	0.014	Smt. Sunnata Gorai w/o Rabindra Nath Gorai

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				534/P	Private	Gora I	0.012	Raghuvar Kumhar s/o Nilkamal Kumhar
				535/P	Private	Gora I	0.012	Motilal and Others
				537/P	Private	Gora I	0.012	Dwarika Kumhar and Others
				538/F	Private	Makan/Sahan	0.012	Budheshwar Haldhar s/o Hari Haldhar and Others
				543/F	Private	Makan/Sahan	0.012	Bholanath Mandal s/o Brindaban Mandal and Others
				544/P	Private	Gora I	0.01	Shatrughan Kumhar s/o Binod Kumhar and Others
				545/P	Private	Makan/Sahan	0.016	Bhola Nath Kumhar s/o Dhram Das Kumhar
				548/P	Private	Gora I	0.014	Bhagatlal Kumhar s/o Madu Kumhar and Others
				549/P	Private	Gora I	0.016	Madan Chandra, s/o Purna Chandra and Others
				550/P	Private	Gora I	0.012	Basanti Kumhar w/o Jyoti Kumhar and Others
				553/P	Private	Gora I	0.012	Ashwani Kumhar s/o Lt. Jitu Kumhar and Others
				554/P	Private	Gora I	0.026	Ajit Kumhar s/o Amulya Kumhar and Others
				555/F	Private	Gora I	0.02	Krishna Kumar Dutt s/o Jaldhar Dutt and Others
				563/P	Private	Makan/Sahan	0.026	Mirtunjay Chand s/o Lt. Govind Chand and Others
				564/P	Private	Makan/Sahan	0.026	Prasann Kumhar s/o Lt. Jaldhar Kumhar
				565/P	Private	Khamhar	0.018	Nagen Kumhar s/o Lt. Dukhu Kumhar and Others
				992/P	Govt.	Rasta	0.012	Govt.
				994/P	Private	Gora I	0.004	Madhuri Haldhar s/o Lt. Binod Haldhar and Others
				995/P	Private	Gora I	0.002	Guhiram Kumhar and Others
				996/P	Private	Gora I	0.008	Malti Dutt w/o Ganga Sagar Dutt and Others
				997/P	Private	Gora I	0.006	Guhiram Kumhar and Others
				998/P	Private	Gora I	0.012	Hitesh Kumar s/o Lt. Thakur Das Kumar and Others
				999/P	Private	Makan/Sahan	0.006	Krishna Dutt s/o Jaldhar Dutt and Others
				1000/P	Private	Makan/Sahan	0.006	Chitrnanjan Kumhar s/o Lakshmi Ray Kumhar
				1001/P	Private	Done II	0.022	Baldev Pramanik s/o Bedhnath Pramanik and Others
				1023/P	Private	Done II	0.03	Lakshmi Kant Kumar s/o Lt. Padmolochan Kumar
				1024/P	Private	Done II	0.006	Vipat Taran Nag s/o Lt. Vagsi Mohan Nag
				1025/P	Private	Done II	0.047	Mohit Mahant Gorai s/o Manu Gorai and Others
				1026/P	Private	Done II	0.024	Purno Gorai, s/o Lt. Jagarnath Gorai and Others
				1027/P	Private	Done III	0.026	Dhanjay Chandra Chand s/o Lt. Chunnilal Chand and Others
				1028/P	Private	Done III	0.008	Bhagat Ranjan Chand s/o Lt. Chunnilal Chand
				1029/P	Private	Makan/Sahan	0.022	Bhim Kumhar s/o Baburam Kumhar
				1046/P	Private	Makan/Sahan	0.014	Chitrnanjan, s/o Lt. Kalipad Pramanik and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1047/P	Private	Done III	0.014	Pagla Chandra Chand, s/o Lt. Ashutosh Chandra Chand and Others
				1048/P	Private	Done III	0.014	Punubala Gorai w/o Lt. Bashanto Gorai
				1049/P	Private	Done III	0.016	Binod Kumar s/o Udhav Kumhar & other
				1059/P	Private	Gora II	0.02	Tarni Pramanik, s/o Nakul Pramanik and Others
				1061/P	Private	Road	0.008	Tarni Pramanik, s/o Nakul Pramanik and Others
				1072/P	Private	Gora II	0.02	Agast Kumhar s/o Anil Varan Kumhar & others
				1073/P	Private	Gora II	0.022	Mrinal Kanti Kumhar s/o Lt. Gaurhari Kumhar and Others
				1076/P	Private	Gora II	0.032	Ushawala s/o Mahendar Kumhar and Others
				1077/P	Private	Gora II	0.055	Vankim Chandra Gorai s/o Lakhi Narayan Gorai and Others
				1078/P	Private	Done III	0.067	Janki Devi w/o Abhiram Kumhar and Others
				1088/P	Private	Done III	0.138	Lakhindar Kumhar s/o Nandlal Kumhar and Others
				1089/P	Private	Done III	0.001	Guhiram Kumhar and Others
				1107/P	Private	Done III	0.028	Nikhil Chandra Kumhar s/o Lt. Khadu Kumhar and Others
				1108/P	Private	Done III	0.109	Nidhu Singh Sardar s/o Lt. Anand Singh Sardar and Others
				1115/P	Private	Done III	0.093	Gorkhnath Jayswal s/o Chandrika Prasad Jayswal and Others
				1116/P	Private	Done III	0.032	Gorkhnath Jayswal s/o Chandrika Prasad Jayswal and Others
				1117/P	Private	Done III	0.089	Smt. Vedni Natitani w/o Sri Madhusudan Napti and Others
				1122/P	Private	Done III	0.156	Pashupati Singh s/o Lt. Balram Singh and Others
				1123/P	Private	PURANI PARTI	0.097	Arun Nag s/o Lt. Gopal Nag and Others
				1424/P	Govt.	Rasta	0.004	Govt.
				1127/P	Private	Done I	0.14	Srikant Kumar s/o Lt. Subhash Kumhar and Others
				1128/P	Private	DONE II	0.067	Parikshit Kumar, s/o Lt. Rashbihari Kumar and Others
				1438/P	Private	Gora I	0.006	Gauri Shankar Kumhar s/o Lt. Ratti Kumhar and Others
				1439/P	Private	Gora I	0.004	Renubala Kumari w/o Sri Sadhu Kumar
				1440/P	Private	Done III	0.018	Samla Mandal w/o Sagar Mandal and Others
				1449/P	Private	Done III	0.042	Madhuri Kumharin w/o Balram Kumharin and Others
				1450/P	Private	Done III	0.008	Phulchand Gorai s/o Anand Gorai and Others
				1452/P	Govt.	SCHOOL	0.069	Govt.
				1453/P	Govt.	BAZAR	0.095	Govt.
				1458/P	Govt.	GORA II	0.002	Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1459/P	Govt.	GORA II	0.01	Govt.
				1473/P	Private	GORA I	0.008	Sunil Singh, Anil Singh s/o Tilak Singh
				1474/P	Private	DONE II	0.012	Jitan Singh s/o Moti Singh
				1583/P	Govt.	PURANI PARTI	0.022	Govt.
				1585/P	Private	DONE II	0.13	Hariprasad Jalan s/o Sri Sitaram Jalan and Others
				1586/P	Private	DONE II	0.022	Smt. Ujala Kumharin w/o Chanitan Kumhar
				1587/P	Private	DONE II	0.018	Smt. Ujala Kumharin w/o Chanitan Kumhar
				1588/P	Private	DONE II	0.01	Pruna Gorai, s/o Jethu Gorai and Others
				1589/P	Private	DONE II	0.016	Gangadhar Gorai, s/o Jatindra Nath Gorai and Others
				1590/P	Private	DONE II	0.012	Surendra Gorai s/o Kesho Gorai and Others
				1591/P	Private	DONE II	0.022	Rasmai Nag w/o Basant Nag
				1592/P	Private	DONE II	0.006	Nivaran Dhoba s/o Dinu Dhoba
				1593/P	Private	DONE II	0.012	Baikunth Kohra s/o Ridai Kohar
				1594/P	Private	DONE II	0.016	Bekunth Kohar s/o Ridai Kohar
				1599/P	Private	DONE II	0.032	Bishwaranjan Mahato s/o Lt. Dhannjay Mahato and Others
				1600/P	Private	DONE II	0.026	Dharamshila Devi w/o Dhannjay Singh and Others
				1601/P	Private	DONE II	0.014	Gaur Das s/o Ram Das
				1603/P	Private	DONE II	0.02	Charubala Dasi w/o Basanto Kumar
				1604/P	Private	DONE II	0.028	Gatadhar Gorai s/o Harendra Nath Gorai and Others
				1606/P	Private	DONE II	0.051	Smt. Rasmai Nag w/o Basanto Nag
				1607/F	Private	DONE II	0.016	Kalipad Gorai s/o Lt. Shivpado Gorai
				1608/P	Private	DONE II	0.018	Kalipad Gorai s/o Lt. Shivpado Gorai
				1609/P	Private	DONE II	0.067	Shyamlal Munka s/o Lt. Kanhai Munka and Others
				1622/P	Private	DONE II	0.059	Yadu Kumhar and Others
				1623/P	Private	DONE II	0.016	Doman Kumhar s/o Brindaban Kumha and Others
				1630/P	Private	DONE II	0.059	Anupam Kumar Nag s/o Lt. Ganesh Chandra Nag and Others
				1631/P	Private	DONE II	0.038	Sanat Kumhar s/o Lt. Shivshankar Kumhar and Others
				1642/P	Private	DONE II	0.051	Sam Sundar Singh s/o Madhab Singh
				1643/P	Private	DONE II	0.036	Sri Nityanand Mandal s/o Lt. Nilmohan Mandal and Others
				1644/P	Private	DONE II	0.038	Rajkishor Kumbhakar s/o Lt. Gorachand Kumbhakar and Others
				1647/P	Private	DONE II	0.042	Jayant Kumar s/o Koka Kumar and Others
				1649/P	Private	DONE II	0.018	Kalpana w/o Leda Singh and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1670/P	Govt.	Rasta	0.006	Govt.
				1671/P	Private	GORA I	0.085	Balram Kumhar s/o Lt. Umacharan and Others
				1672/P	Private	GORA I	0.012	Umacharan Kumhar s/o Kaviraj Kumhar
				1673/P	Govt.	POND	0.095	Govt.
				1675/P	Govt.	PURANI PARTI	0.053	Govt.
				1676/P	Govt.	Rasta	0.002	Govt.
				1870/P	Private	DONE II	0.03	Bhashkar Singh, s/o Brindaban Singh and Others
				1871/P	Private	Gora II	0.075	Gautom Mandal s/o Hadiram Mandal and Others
				1873/P	Govt.	Rasta	0.008	Govt.
				1875/P	Govt.	PURANI PARTI	0.012	Govt.
				1876/P	Govt.	MOTIAAR	0.008	Govt.
				1877/P	Govt.	PURANI PARTI	0.051	Govt.
				1878/P	Private	DONE II	0.024	Baikunth Kumhar s/o Richai Kumhar
				1977/P	Private	DONE II	0.053	Bholanath Kumar Mandal s/o Lt. Brindawan Mandal
				1983/P	Private	DONE II	0.018	Dalgovind Kumhar s/o Lt. Anant Bandhu Kumhar and Others
				1984/P	Private	DONE II	0.02	Yadu Kumhar and Others
				2001/P	Private	DONE II	0.018	Yadu Kumhar and Others
				2002/P	Private	DONE II	0.026	Narayan Chandra, s/o Sanatan Kumhar and Others
				2006/P	Private	DONE II	0.008	Yadu Kumhar, Tilak Kumhar and Others
				2007/P	Private	DONE II	0.02	Mohan Chand s/o Chunnilal and Others
				2008/P	Private	DONE II	0.02	Bijay Jalan, Kamal Jalan and Others
				2023/P	Private	DONE II	0.024	Unasi Mandal w/o Sanat Mandal
				2026/P	Private	DONE II	0.022	Gor Gorai s/o Durga Charan Gorai
				2027/P	Private	DONE II	0.022	Gokul Rajak and Others
				2031/P	Private	DONE II	0.024	Dara Kumbhakar s/o Karmu Kumbhakar and Others
				2032/P	Private	DONE II	0.014	Bijay Kumar Mandal s/o Doman Mandal and Others
				2034/P	Private	DONE II	0.008	Baikunth Kohra s/o Ridai Kohar
				2037/P	Private	DONE I	0.008	Santosh Rajak and Pokhramal Rajak
				2038/P	Private	DONE I	0.018	Smt. Rasmai Nag w/o Basant Nag
				2049/P	Private	DONE II	0.028	Mahendar Gorai s/o Bhondu Gorai and Others
				2050/P	Private	DONE II	0.008	Kalipad Gorai, s/o Sadhu Gorai and Others
				2051/P	Private	DONE II	0.008	Pruna Gorai s/o Sadhu Gorai
				2053/P	Govt.	PLAS JANGEL	0.012	Govt.
				2055/P	Private	DONE II	0.036	Shyam Bihari Agrawal and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2056/P	Private	DONE II	0.055	Shyam Bihari Agrawal and Others
				2057/P	Private	DONE II	0.087	Mode Kumar s/o Guru Charan Kumar and Others
				2059	Private	PURANI PARTI	0.026	Jagarnath Mahato s/o Lt. Amar Nath Mahato and Others
				1707 / 2372/P	Private	DONE II	0.008	Puran Modni w/o Sadhu Kumar
				1672 / 2377/P	Private	DONE II	0.038	Himesh Kumhar, s/o Thakurdas Kumhar and Others
				1976 /P	Private	Done II	0.061	Punam Kumari w/o Ajay Kumar and Others
			Raghunathpur (J.L. No. 288)	1186/P	Private	Done III	0.061	Joti Mahato and Others
				1187/P	Private	DONE III	0.032	Padun Mahato s/o Trilochan Mahato and other
				1188/P	Private	DONE III	0.024	Narendra Nath Mahato, s/o Atul Mahato and Others
				1189/P	Private	PURANI PARTI	0.006	Sanatan Mahato, s/o Harekrishna Mahato and Others
				1421/P	Private	Makan/Sahan	0.004	Subhash Pandey s/o Bhisma Dev Pandey
				1422/P	Private	Makan/Sahan	0.002	Ashwani Kumar Pandey, s/o Sarveshwar Pandey and Others
				1424/P	Private	Gora I	0.014	Ashwani Kumar Pandey, s/o Sarveshwar Pandey and Others
				1428/P	Private	Gora I	0.006	Ashwani Kumar Pandey, s/o Sarveshwar Pandey and Others
				1429/p	Govt.	PURANI PARTI	0.004	Govt.
				1430/P	Private	Makan/Sahan	0.004	Sombari Mahli w/o Chhutu Mahli
				1434/P	Private	Makan/Sahan	0.006	Budheshwar Mahli, s/o Bhim Mahli and Others
				1435/P	Private	Gora I	0.014	Suchand Mahato, s/o Aghnu Mahato and Others
				1437/P	Private	Makan/Sahan	0.008	Jagarnath Mahato, s/o Amar Mahato and Others
				1438/P	Private	Makan/Sahan	0.014	Jagarnath Mahato, s/o Amar Mahato and Others
				1440/P	Private	Gora I	0.018	Akshay Mahato, s/o Narottam Mahato and Others
				1441/P	Private	Gora II	0.032	Amiyo Ranjan Mahato, s/o Nunki Mahtani and Others
				1442/P	Private	Gora II	0.032	Bijay Mahato s/o Rampad and Others
				1448/P/	Private	Gora I	0.097	Malti Mahato w/o Thulu Mahato and Others
				1449/P	Private	Temple	0.069	Jagannath Mahato s/o Amar Mahato and Others
				1450/P	Govt.	Non-Agri	0.008	Govt.
				1591/P	Private	Gora I	0.024	Rajkumari Mahli w/o Ajit Mahli and Others
				1592/P	Private	Gora I	0.014	Kedar Nath Gorai s/o Kritivas and Others
				1593/P	Private	Gora I	0.012	Jhalika Singh w/o
				1596/P	Private	PURANI PARTI	0.061	Indu Goshwami w/o Ram Kamal Goshwami and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1597/P	Private	DONE III	0.016	Barju Ram Singh s/o Bharat Singh
				1598/P	Private	DONE III	0.036	Bijay Krishna Nag s/o Dulal Nag and Others
				1599/P	Govt.	Non-Agri	0.006	Govt.
				1607/P	Private	DONE III	0.032	Aghnu Mahato, s/o Adu Mahato and Others
				1608/P	Private	DONE II	0.026	Gangadhar Mahato s/o Govardhan Mahato and Others
				1612/P	Private	DONE III	0.026	Alok Kumar Nag s/o Guruprasad Singh and Others
				1613/P	Private	DONE III	0.018	Madhusudan Chandra, s/o Mohan Chandra and Others
				1614/P	Private	DONE II	0.022	Bhakat Ranjan Chand s/o Chunilal Chand and Others
				1615/P	Private	DONE II	0.006	Dinbandhu Pramanik s/o atul Pramanik
				1619/P	Private	DONE III	0.018	Sunita Gorai w/o Santosh Gorai and Others
				1620/P	Private	DONE III	0.014	Mira Devi w/o Santosh Kumar Mahato and Others
				1623/P	Private	DONE III	0.02	Kalipad Das, s/o Sudhir Das and Others
				1624/P	Private	DONE II	0.032	Pravir Kumar Palit s/o Anukul Palit and Others
				1627/P	Private	DONE II	0.008	Sukdev Majhi, s/o Lalu Majhi and Others
				1629/P	Private	DONE II	0.01	Mandu Kumar s/o Bedhnath Kumar and Others
				1726/P	Private	DONE III	0.047	Shashdhar Gorai s/o Motilal Gorai and Others
				1728/P	Private	PURANI PARTI	0.03	Khagendra Nath Mahato s/o Puitu Mahato and Others
				1729/P	Private	Gora II	0.067	Shishir Kumar Nag s/o Bishwanath Nag and Others
				1730/P	Private	Gora II	0.006	Padmabati Mahli w/o Govind Mahli and Others
				1731/P	Private	Makan/Sahan	0.006	Kushum Mahli w/o Dulal Mahli
				1732/P	Private	Gora III	0.006	Kushum Mahli w/o Dulal Mahli
				1733/P	Govt.	PURANI PARTI	0.085	Govt.
				1749/P	Govt.	PURANI PARTI	0.012	Govt.
				1752/P	Private	DONE III	0.016	Phukram Majhi s/o Sigray Majhi and Others
				1756/P	Govt.	PURANI PARTI	0.004	Govt.
				1757/P	Private	PURANI PARTI	0.004	Shiv Prasad Pandey s/o Kalipad Pandey
				1758/P	Private	DONE III	0.016	Khandu Mahato, s/o Mohan Mahato and Others
				1759/P	Private	DONE III	0.081	Suchand Mahato, s/o Aghnu Mahato and Others
				1760/P	Private	DONE III	0.04	Suchand Mahato and Others
				1762/P	Private	DONE III	0.012	Bijay Mahato s/o Rampad Mahato and Others
				1763/P	Private	DONE III	0.067	Bhola Nath Yogi s/o Braham Devi Yogi and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1764/P	Private	DONE III	0.121	Banbihari Sardar s/o Gahan Singh Sardar and Others
				1765/P	Private	DONE III	0.004	Ramjiven Mahli, s/o Barsa Mahli and Others
				1788/P	Private	DONE II	0.012	Gya Mahato s/o
				2037/P	Private	Gora I	0.022	Pramod Singh s/o Shambhu Singh
				2038/F	Private	PURANI PARTI	0.036	Pramod Singh s/o Shambhu Singh
				2039/F	Private	PURANI PARTI	0.036	Asha Mahli s/o Kuila Mahli and Others
				2040/P	Private	PURANI PARTI	0.006	Asha Mahli s/o Kuila Mahli and Others
				2042/P	Private	PURANI PARTI	0.002	Magla Yogi s/o Dhanu yogi and Others
				2043/P	Private	DONE III	0.036	Magla Yogi s/o Dhanu yogi and Others
				2046/P	Private	DONE III	0.016	Magla Yogi s/o Dhanu yogi and Others
				2047/P	Private	Gora I	0.012	Magla Yogi s/o Dhanu yogi and Others
				2048/P	Private	Makan/Sahan	0.012	Magla Yogi s/o Dhanu yogi and Others
				2049/P	Private	Gora I	0.012	Tarapad hazra s/o Madhusudan Hazra and Others
				2050/P	Private	Makan/Sahan	0.008	Nitai Mahato s/o Jagbandhu Mahato and Others
				2051/P	Private	Gora I	0.006	Nitai Mahato s/o Jagbandhu Mahato
				2056/P	Private	Makan/Sahan	0.008	Gaurhari Mahato, s/o Lt. Shasti Mahato and Others
				2057/P	Private	Makan/Sahan	0.008	Gopi Ballav Das, s/o Trilochan Das and Others
				2058/P	Private	Gora I	0.012	Chitto Das, s/o Padolochan Das and Others
				2059/P	Private	Makan/Sahan	0.002	Satyanarayan Das s/o Dinbandhu Das
				2060/P	Private	Gora II	0.024	Satyanarayan Das s/o Dinbandhu Das
				2068/P	Private	Gora III	0.004	Jaleshwar Mandal w/o Santosh Kumar Mandal and Others
				2069/P	Private	Gora III	0.085	Jaleshwar Mandal w/o Santosh Kumar Mandal and Others
				2140/F	Private	Makan/Sahan	0.016	Sripati Mahli and Others
				2141/F	Private	Gora I	0.016	Lavkush Pramanik s/o Bedhnath Pramanik and Others
				2142/P	Private	Gora I	0.202	Agnu Mahli s/o Haldhar Mahli and Others
				2147/P	Private	Gora I	0.002	Kartik Mahli s/o Moti Mahli
				2148/P	Private	Makan/Sahan	0.002	Kartik Mahli s/o Moti Mahli
				2184/P	Private	Gora III	0.024	Prashant Kumar Jana s/o
				2185/F	Private	Makan/Sahan	0.004	Sudhir Mahato s/o Ram Mahato and Others
				2187/P	Private	POKHAR	0.121	Bedhnath Mahato s/o Mukund Mahato and Others
				2196/P	Private	DONE III	0.049	Khagendra Nath Mahato s/o Rabindra Mahato and Others
				2197/P	Private	DONE III	0.032	Lalu Yogi s/o ...Yogi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2198/P	Private	DONE III	0.018	Manoranj Mahato s/o Dhannjay Mahato
				2202/P	Private	DONE III	0.014	Manoranj Mahato s/o Dhannjay Mahato
				2203/P	Private	DONE II	0.051	Mukund Mahato s/o Chhutu Mahato and Others
				2204/P	Private	DONE II	0.03	Mugal Kishor Singh s/o Sadai Singh and Others
				2582/P	Govt.	KHANTI	0.008	Govt.
				2583/P	Govt.	Sarak	0.014	Govt.
				2584/P	Govt.	KHANTI	0.01	Govt.
				2611/P	Private	DONE II	0.026	Srawan Singh, s/o Nayan Singh and Others
				2612/P	Private	Gora III	0.049	Smt. Chhya Rani Gorai w/o Mihir Chandra Gorai and Others
				2613/P	Private	Gora III	0.03	Sunit Kumar Nag, s/o Sapan Nag and Others
				2621/P	Private	Gora III	0.073	Sudip Singh Sardar, s/o Gahan Singh Sardar and Others
				2626/P	Private	Gora II	0.008	Mangal Singh,s/o Nayan Singh and Others
				2627/P	Private	Gora II	0.008	Mangal Singh,s/o Nayan Singh and Others
				2628/P	Private	Gora II	0.008	Mangal Singh,s/o Nayan Singh and Others
				2629/P	Private	Gora II	0.008	Mangal Singh, s/o Nayan Singh and Others
				2630/P	Private	Makan/Sahan	0.008	Jyoti Mahato s/o Chhutu Mahato
				2631/P	Private	Gora I	0.016	Jyoti Mahato s/o Chhutu Mahato
				2633/P	Private	Gora II	0.04	Mintu Chand s/o Jagnath Chand and Others
				2637/P	Private	Gora II	0.016	Kamalkant Mahato, s/o Paresh Mahaato and Others
				2638/F	Private	Makan/Sahan	0.008	Kamalkant Mahato, s/o Paresh Mahaato and Others
				2639/P	Private	Gora II	0.006	Bharat Mahato, s/o Shankar Mahato and Others
				2640/P	Private	Makan/Sahan	0.016	Jyoti Mahato, s/o Chhutu Mahato and Others
				2649/P	Private	Makan/Sahan	0.014	Shuku Mahato and Others
				2650/P	Private	Makan/Sahan	0.012	Budheshwar Mahato, s/o Raghunath Mahato and Others
				2658/P	Private	Gora III	0.049	Bishnu Mahato, s/o Nivaran Mahato and Others
				2659/P	Private	Gora I	0.014	Aghnu Mahato, s/o Adu Mahato and Others
				2669/P	Private	Gora I	0.014	Jyoti Mahato s/o Chhutu Mahato and Others
				2670/P	Private	Gora I	0.022	Bibhishan Mahato s/o shuku Mahato
				2671/P	Private	Gora II	0.032	Gopal Nag s/o Kedar Nag and Others
				2184/ 2714 P	Private	Gora III	0.02	Phatik Pramanik, s/o Gaur Pramanik and Others
			Tilla (J.L. No. 284)	285/P	Govt.	Gora III	0.045	Govt.
				286/P	Private	Gora III	0.002	Durgacharan Gorai s/o Tara Chandra Gorai

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				287/P	Private	Gora II	0.012	Indrajeet Gorai, s/o Rakkhal Gorai and Others
				288/P	Private	MAKAN SAHAN	0.004	Indrajeet Gorai, s/o Rakkhal Gorai and Others
				289/P	Private	Gora II	0.038	Alti w/o Bishu Gorai
				290/F	Private	MAKAN SAHAN	0.008	Alti w/o Bishu Gorai
				291/P	Private	Gora II	0.014	Alti w/o Bishu Gorai
				295/P	Private	Gora III	0.014	Aghnu Mahato s/o Padu Mahato and Others
				296/P	Private	Gora III	0.028	Aghnu Mahato s/o Padu Mahato and Others
				297/P	Private	MAKAN SAHAN	0.018	Hari Mahato, s/o Khandi Mahato and Others
				298/P	Private	MAKAN SAHAN	0.02	Santosh Mahato s/o Bharat Mahato and Others
				299/P	Private	MAKAN SAHAN	0.024	Nirmal Mahato s/o Lt. Rikard Mahato and Others
				300/P	Private	Gora III	0.014	Dukhu Mahato s/o Ludu Mahato and Others
				301/P	Private	MAKAN SAHAN	0.008	Narad Mahato s/o Khoku Mahato and Others
				302/P	Private	MAKAN SAHAN	0.01	Sarveshwar Mahato s/o Kartik Mahato and Others
				303/P	Private	MAKAN SAHAN	0.016	Dhannjay Mahato s/o Krmu Mahato and Others
				333/P	Private	DONE III	0.002	Surendra Kumhar, s/o Khagendra Kumhar and Others
				338/P	Private	MAKAN SAHAN	0.02	Sadhu Charan Mahato s/o Suchand Mahato and Others
				339/P	Private	Gora I	0.014	Harekrishna Mahato, s/o Sardhan Mahato and Others
				341/P	Govt.	PURANI PARTI	0.073	Govt.
				343/P	Private	DONE III	0.014	Hari Mahato s/o Khandu Mahato and Others
				347/P	Govt.	Rasta	0.014	Govt.
				352/P	Private	Gora II	0.077	Padu Mahato, s/o Mithu Mahato and Others
				353/P	Private	Gora I	0.001	Sripati Mahato s/o Padu Mahato and Others
				354/P	Private	GADDA	0.036	Sripati Mahato s/o Padu Mahato and Others
				359/P	Govt.	PURANI PARTI	0.065	Govt.
				360/P	Private	MAKAN SAHAN	0.016	Laxman Mahato, s/o Bichandi Mahato and Others
				362/P	Private	Gora I	0.036	Chaitan Mahato s/o Prem Mahato
				364/P	Private	Gora I	0.022	Srawan Mahato s/o Rasik Mahato and Others
				366/P	Private	Gora III	0.081	Khagendra Nath Gorai s/o Lt. Rakkhal Gorai and Others
				395/P	Private	Gora II	0.073	Rengtu Mahato, s/o Gangadhar Mahato and Others
				399/P	Private	Gora II	0.055	Rengtu Mahato, s/o Gangadhar Mahato and Others
				401/P	Private	DONE III	0.014	Kalipad Kumhar, s/o Uthel Kumhar and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				402/P	Private	MAKAN SAHAN	0.004	Bishwanath Kumhar s/o Mahindra Kumhar
				404/P	Private	PURANI PARTI	0.028	Surendra Kumhar s/o Mahindra Kumhar and Others
				405/P	Private	MAKAN SAHAN	0.012	Bishwanath Kumhar s/o Mahindra Kumhar
				761/P	Private	DONE III	0.022	Smt. Sarla Bhumijani
				762/P	Private	DONE III	0.012	Keshri Bhumijani w/o Bauri Bhumij
				766/P	Private	DONE I	0.445	Kalu Ram Singh Sardar,s/o Kamal Singh and Others
				767/P	Private	DONE I	0.089	Ghantu Bhumij, s/o Champa Bhumijani and Others
				768/P	Private	DONE I	0.045	Ghantu Bhumij, s/o Champa Bhumijani and Others
				769/P	Govt.	PURANI PARTI	0.283	Govt.
				775/P	Private	DONE I	0.036	Sarla Bhumijani, d/o Mahadev Bhumij and Others
				776/P	Govt.	PURANI PARTI	0.486	Govt.
				777/P	Govt.	GADDA	0.016	Govt.
				778/P	Private	Gora III	0.097	Sukarmani Bhumij, d/o Thopi Bhumijani and Others
				779/P	Govt.	PURANI PARTI	0.162	Govt.
				780/P	Private	Gora II	0.109	Shambhu Singh,s/o Jagannath Singh and Others
				781/P	Govt.	PURANI PARTI	0.022	Govt.
				782/P	Private	Gora II	0.061	Har Mohan Singh s/o Budheshwar Singh
				783/P	Private	Gora I	0.194	Tribhan Singh s/o Moti Singh and Others
				784/F	Private	MAKAN SAHAN	0.012	Tribhan Singh s/o Moti Singh and Others
				785/F	Private	MAKAN SAHAN	0.004	Chandra Kumhar s/o Rohit Kumhar
				786/F	Private	Gora I	0.081	Chandra Kumhar s/o Rohit Kumhar and Others
				787/F	Private	MAKAN SAHAN	0.004	Sawpan Kumhar, s/o Suresh Kumhar and Others
				788/F	Private	MAKAN SAHAN	0.012	Kartik Singh, s/o Arjun Singh and Others
				789/F	Private	MAKAN SAHAN	0.004	Chapla Devi w/o Bhajohari Kumhar and Others
				790/F	Private	Gora I	0.02	Nandlal Kumhar s/o Atki Kumhar
				791/F	Private	KHALIYAN	0.016	Shukmani Bhumijani, d/o Thopi Bhumijani and Others
				792/P	Private	MAKAN SAHAN	0.008	Shukmani Bhumijani, d/o Thopi Bhumijani and Others
				794/P	Private	MAKAN SAHAN	0.016	Shukmani Bhumijani, d/o Thopi Bhumijani and Others
				797/P	Private	Gora II	0.316	Dhanu Singh s/o Sivcharan Singh and Others
				826/P	Govt.	Rasta	0.045	Govt.
				872/P	Private	Gora I	0.016	Biru Kumhar, s/o Kashinath Kumhar and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				873/F	Private	MAKAN SAHAN	0.008	Sarathi Devi w/o Manohar Kumhar
				874/F	Private	Gora I	0.008	Ajay Kumhar, s/o Ganesh Kumhar and Others
				875/F	Private	MAKAN SAHAN	0.008	Ganesh Kumhar s/o Chanran Kumhar
				876/P	Private	Gora I	0.032	Ajay Kumhar, s/o Ganesh Kumhar and Others
				881/P	Private	PURANI PARTI	0.04	Chandra Mohan Das, w/o Santosh Das and Others
				882/P	Private	DONE III	0.034	Mahpati Singh s/o Malin Singh and Others
				883/P	Private	DONE III	0.069	Bimla Bala Singh w/o Shashdhar Singh
				928/P	Private	DONE III	0.004	Suku Bhumij s/o Raja Bhumij and Others
				929/P	Private	DONE II	0.04	Gopal Mahato s/o Sanatan Mahato and Others
				930/P	Private	DONE III	0.018	Suku Bhumij s/o Raja Bhumij and Others
				931/P	Private	DONE III	0.075	Dharni Sing Munda s/o Nil Kamal Munda and Others
				932/P	Private	DONE III	0.073	Mangal Singh s/o Piyal Singh and Others
				952/P	Private	DONE III	0.101	Samar Singh s/o Shambhu Singh and Others
				955/P	Private	PURANI PARTI	0.034	Aditya Das, s/o Bolai Das and Others
				956/P	Private	GORA I	0.001	Sukhu Bhumij s/o Raja Bhumij and Others
				961/P	Private	GADDA	0.008	Samar Singh s/o Shambhu Singh
				962/P	Private	DONE III	0.097	Samar Singh s/o Shambhu Singh
				968/P	Private	PURANI PARTI	0.008	Bhim Karmakar, s/o Rathu Karmakar and Others
				969/P	Private	DONE III	0.063	Bhim Karmakar, s/o Rathu Karmakar and Others
				970/P	Private	PURANI PARTI	0.026	Shashdhar Singh, s/o Jagannath Singh and Others
				971/P	Private	DONE II	0.024	Shashdhar Singh, s/o Jagannath Singh and Others
				1215/P	Private	DONE II	0.016	Susen Mahato s/o
				1216/P	Private	DONE II	0.028	Milan Singh s/o Chandan Singh and Others
				1217/P	Private	DONE II	0.006	Lal Kumhar s/o Ravi Kumhar
				1219/P	Private	DONE II	0.022	Ban Bihari Mahato s/o Mansuk Mahato
				1220/P	Private	DONE II	0.036	Milan Singh s/o Chandan Singh and Others
				1221/P	Private	DONE II	0.004	Milan Singh s/o Chandan Singh and Others
				1232/P	Private	DONE II	0.024	Milan Singh s/o Chandan Singh and Others
				1233/P	Private	DONE II	0.049	Milan Singh s/o Chandan Singh and Others
				1234/P	Pwd	KHANTU	0.032	Govt.
				1237/P	Private	DONE I	0.125	Lakhiram Kumhar s/o Dulal Kumhar and Others
				1241/P	Private	MAKAN SAHAN	0.028	Anukul Chandra Mahato, s/o Janki Ram Mahato and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1242/P	Private	DONE II	0.008	Kokila Devi w/o Haradhan Singh
				1243/P	Private	DONE II	0.028	Hari Mahato, s/o Pandu Mahato and Others
				1249/P	Private	DONE III	0.045	Gurucharan Singh s/o Thamak Singh and Others
				1250/P	Private	DONE III	0.012	Gurupado Das, s/o Bindubala Dasi and Others
				1251/P	Private	DONE III	0.02	Shashdhar Singh, s/o Jagbandhu Singh and Others
				1254/P	Private	DONE III	0.01	Harekrishna Mahato, s/o Sardhan Mahato and Others
				1255/P	Private	DONE III	0.006	Shukuntala Devi w/o Chaitan Singh and Others
				1257/P	Private	DONE III	0.008	Manik Ram Mahato s/o Mahesh Mahato
				1258/P	Private	DONE III	0.004	Gurucharan Singh s/o Thamak Singh and Others
				1259/P	Private	DONE III	0.006	Savershwar Singh s/o Phul Singh
				1260/P	Private	DONE III	0.014	Ranga Singh s/o
				1261/P	Private	DONE III	0.012	Pratap Singh Sardar s/o Laldev Singh Sardar
				1262/P	Private	DONE III	0.018	Bali Mahato s/o Prahalad Mahato and Others
				1264/P	Private	DONE III	0.01	Milan Singh s/o Chandan Singh and Others
				1265/P	Private	DONE III	0.016	Milan Singh s/o Chandan Singh and Others
				1268/P	Private	DONE III	0.051	Kalpna Singh w/o Bedhnath Singh and Others
				1272/P	Private	DONE III	0.053	Dhanu Singh s/o Sivcharan Singh
				1273/P	Private	Gora III	0.01	Jagat Singh, s/o Kailan Singh and Others
				1277/P	Govt.	PURANI PARTI	0.042	Govt.
				1279/P	Private	Gora III	0.01	Mangal Singh s/o Piyal Singh and Others
				1280/P	Govt.	PURANI PARTI	0.022	Govt.
				1281/P	Private	Gora III	0.022	Shambhu Singh, s/o Jagannath Singh and Others
				1282/P	Private	PURANI PARTI	0.042	Shambhu Singh, s/o Jagannath Singh and Others
				1284/P	Private	GORA I	0.081	Kalu Ram Singh s/o Kamal Singh and Others
				1289/P	Private	GORA I	0.081	Kiriti Singh, s/o Suwati Bhumijani and Others
				1290/P	Private	DONE III	0.057	Kiriti Singh, s/o Suwati Bhumijani and Others
				1291/P	Govt.	PURANI PARTI	0.024	Govt.
				1292/P	Govt.	Rasta	0.032	Govt.
				1316/P	Private	DONE III	0.002	Mangal Chandra Das, s/o Murlidhar Das and Others
				1317/P	Private	GORA I	0.01	Sadhan Das, s/o Lakhnan Das and Others
				1318/F	Private	MAKAN SAHAN	0.008	Shyampad Das s/o Lakhnan Das
				1319/P	Private	GORA I	0.012	Amar Chandra Das s/o Upendra Nath Das
				1320/P	Private	GORA II	0.01	Kamal Kant Das s/o Rajendra Das and Others
				1433/P	Private	DONE II	0.038	Shashdhar Mahato, s/o Lt. Phani Bhushan Mahato and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1434/P	Private	DONE II	0.042	Sripati Mahato, s/o Padu Mahato and Others
				1436/P	Private	GORA II	0.014	Kalyan Singh, s/o Manbodh Singh and Others
				1437/P	Private	GORA II	0.012	Kalyan Singh, s/o Manbodh Singh and Others
				1438/P	Private	GORA II	0.008	Susen Mahato s/o
				1440/P	Private	DONE II	0.008	Sagar Das, Ram Das s/o Ratan Das
				1452/P	Private	DONE II	0.002	Ram Pad Mahato s/o Gurucharan Mahato
				1456/P	Private	DONE II	0.109	Ram Pad Mahato s/o Gurucharan Mahato
				1457/P	Private	DONE II	0.049	Lakhi Das s/o Shishir Kumar Das and Others
				1458/P	Private	DONE II	0.049	Pratima Gorai w/o Budheshwar Gorai
				1459/P	Private	DONE II	0.026	Jagat Singh, s/o Kalyan Singh and Others
				1460/P	Private	DONE II	0.042	Narad Mahato, s/o Lt. Khokha Mahato and Others
				1461/P	Private	DONE I	0.014	Bibhishan Pramanik s/o Rathu Pramanik
				1462/P	Private	DONE II	0.002	Bibhishan Pramanik s/o Rathu Pramanik
				1469/P	Private	DONE II	0.073	Ram Pad Mahato s/o Gurucharan Mahato and Others
				1470/F	Private	GORA II	0.04	Bhimshen Das s/o Gaur Chandra Das
				1471/P	Private	GORA II	0.17	Bhimshen Das s/o Gaur Chandra Das
				1472/P	Private	DONE II	0.162	Shankar Chandra Das s/o Mahavir Das and Others
				1473/P	Private	DONE II	0.008	Ram Pad Mahato s/o Gurucharan Mahato and Others
				1475/P	Private	DONE II	0.101	Ashok Pal, s/o Meghnath Pal and Others
				1483/P	Govt.	RIVER	0.113	Govt.
				1521/P	Private	GORA II	0.445	Goshtu Mahato s/o Raghunath Mahato and Others
				1522/P	Private	DONE II	0.016	Ganesh Mahato s/o Loknath Mahato
				1529/P	Private	DONE I	0.022	Pushti Mahtani w/o Guhiram Mahato
				1530/P	Private	DONE II	0.206	Pushti Mahtani w/o Guhiram Mahato and Others
				1531/P	Govt.	DUNGRI	0.243	Govt.
				1532/P	Private	GORA II	0.13	Lambodar Das s/o Anand Das and Others
				1533/P	Govt.	Rasta	0.012	Govt.
				1534/P	Govt.	DUNGRI	0.194	Govt.
				1538/P	Govt.	GORA II	0.097	Govt.
				2363/P	Private	DONE II	0.024	Babulal Das and Others
				2364/P	Private	DONE II	0.034	Dipak Mahato s/o Mathur Mahato and Others
			Sirka (J.L. No. 283)	4/P	Govt.	NALA	0.132	Govt.
				5/P	Govt.	PURANI PARTI	0.136	Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6/P	Private	Don III	0.097	Niro Bhumijani w/o Uday
				12/P	Govt.	Rasta	0.047	Govt.
				14/P	Private	DONE II	0.202	Dhanu Singh s/o Shivcharan Singh
				15/P	Private	GORA II	0.034	Dhanu Singh s/o Shivcharan Singh
				16/F	Private	DONE II	0.21	Dhanu Singh s/o Shivcharan Singh
				17/P	Private	DONE II	0.022	Dhanu Singh s/o Shivcharan Singh
				18/P	Private	GORA II	0.148	Dhanu Singh s/o Shivcharan Singh
				19/F	Private	DONE II	0.04	Dhanu Singh s/o Shivcharan Singh
				20/F	Private	GORA II	0.162	Dhanu Singh s/o Shivcharan Singh
				21/P	Forest	JUNGAL PLAS	0.176	Govt.
				24/P	Govt.	GORA II	0.227	Govt.
				31/P	Govt.	RLY. LINE	0.413	Govt.
				32/P	Forest	JUNGAL PLAS	0.395	Govt.
				39/P	Govt.	PURANI PARTI	0.119	Govt.
				44/P	Private	DONE II	0.061	Bhanumati Dandpath w/o Sri Arnav Kumar Dandpath
				46/P	Govt.	PURANI PARTI	0.146	Govt.
				47/P	Private	New Parti	0.127	Rajendra Singh, s/o Lt. Chakardhar Singh and Others
				48/P	Govt.	NALI	0.138	Govt.
				49/P	Govt.	Rasta	0.688	Govt.
				51/P	Forest	JUNGAL PLAS	0.01	Govt.
				68/P	Private	GORA II	0.747	Lakhan Mahato s/o Sita Mahato and Others
				69/P	Private	GORA II	0.358	Phato Majhi s/o Lt. Ban Majhi and Others
				70/P	Private	GORA II	0.455	Chhutun Singh, s/o Lt. Jagannath Singh
				71/P	Private	GORA II	0.633	Nilmani Majhiyani w/o Lt. Basar Majhi and Others
				72/P	Forest	JUNGAL PLAS	0.595	Govt.
				73/P	Private	JUNGAL PLAS	0.184	Man Singh s/o Lt. Nilkamal Singh and Others
				19/1644/P	Private	DONE II	0.097	Dhanu Singh s/o Shivcharan Singh
				20/1646/P	Forest	JUNGAL PLAS	0.032	Govt.
				32/1648/P	Govt.	PURANI PARTI	0.109	Govt.
				51/1653/P	Govt.	Non Agri	0.007	Govt.
				71/1656/P	Govt.	PURANI PARTI	0.047	Govt.
				33/P	Govt.	PURANI PARTI	0.04	Govt.
			Tetla (J.L. No. 278)	1/P	Govt.	JUNGLE JHARI	0.081	Govt.
				2/P	Forest	JUNGLE JHARI	0.217	Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3/P	Govt.	BANHER JHARI	0.101	Govt.
				4/P	Private	Gora III	0.202	Reboti Roman Singh, s/o Gokul Singh and Others
				6/P	Private	DONE III	0.002	Krishna Singh Sardar s/o Lt. Man Singh Sardar
				7/P	Private	DONE II	0.016	Krishna Singh Sardar s/o Lt. Man Singh Sardar
				8/F	Private	DONE II	0.045	Krishna Singh Sardar s/o Lt. Man Singh Sardar
				9/F	Private	DONE III	0.053	Krishna Singh Sardar s/o Lt. Man Singh Sardar
				10/F	Private	DONE III	0.036	Reboti Roman Singh, s/o Gokul Singh and Others
				11/F	Private	DONE III	0.117	Reboti Roman Singh, s/o Gokul Singh and Others
				12/P	Private	DONE II	0.053	Purnima Bhumij w/o Lt. Yudhisthir Bhumij
				14/P	Private	PURANI PARTI	0.012	Reboti Roman Singh, s/o Gokul Singh and Others
				20/P	Private	DONE I	0.016	Balika Gope w/o Lt. Bishwa Gope and Others
				24/P	Private	DONE II	0.061	Reboti Roman Singh, s/o Gokul Singh and Others
				25/P	Private	DONE III	0.038	Reboti Roman Singh, s/o Gokul Singh and Others
				26/P	Govt.	Non Agri	0.001	Govt.
				30/P	Private	DONE II	0.081	Gurupado Gope s/o Lt. Dinbandhu Gope and other
				31/P	Private	DONE III	0.01	Reboti Roman Singh, s/o Gokul Singh and Others
				32/P	Private	DONE III	0.223	Reboti Roman Singh, s/o Gokul Singh and Others
				33/P	Private	DONE III	0.061	Reboti Roman Singh, s/o Gokul Singh and Others
				34/P	Private	DONE II	0.032	Reboti Roman Singh, s/o Gokul Singh and Others
				35/F	Govt.	Rasta	0.142	Govt.
				36/P	Private	DONE II	0.121	Balika Gope w/o Lt. Bishwa Gope & other
				37/P	Private	MOTI AAR	0.024	Balika Gope w/o Lt. Bishwa Gope & other
				38/F	Private	Gora I	0.19	Balika Gope w/o Lt. Bishwa Gope & other
				39/F	Private	DONE III	0.024	Asutosh Gope s/o Lt. Nepul Gope & other
				40/P	Private	DONE II	0.17	Balika Gope w/o Lt. Bishwa Gope & other
				42/F	Govt.	MOTI AAR	0.04	Govt.
				43/P	Govt.	SARAK	0.04	Govt.
				44/F	Private	DONE II	0.057	Saraswati Bhumij, w/o Giri Bhumij and Others
				45/P	Private	DONE III	0.081	Krishna Singh Sardar s/o Lt. Man Singh Sardar
				46/P	Private	DONE III	0.049	Krishna Singh Sardar s/o Lt. Man Singh Sardar
				57/P	Govt.	PURANI PARTI	0.014	Govt.
				58/P	Private	DONE III	0.051	Gopal Gorai, s/o Rajendra Gorai and Others
				63/P	Private	DONE II	0.17	Gopal Gorai, s/o Rajendra Gorai and Others
				64/F	Private	MOTI AAR	0.057	Gopal Gorai, s/o Rajendra Gorai and Others
				65/F	Private	DONE I	0.117	Gopal Gorai, s/o Rajendra Gorai and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				66/F	Private	DONE I	0.146	Gopal Gorai, s/o Rajendra Gorai and Others
				67/F	Private	DONE II	0.053	Gopal Gorai, s/o Rajendra Gorai and Others
				68/P	Private	DONE II	0.152	Reboti Roman Singh, s/o Gokul Singh and Others
				69/P	Private	DONE II	0.081	Gopal Gorai, s/o Rajendra Gorai and Others
				87/P	Private	PALAS JANGLE	0.259	Reboti Roman Singh, s/o Gokul Singh and Others
				88/F	Private	DONE III	0.089	Reboti Roman Singh, s/o Gokul Singh and Others
				89/F	Private	MAKAN SAHAN	0.032	Reboti Roman Singh, s/o Gokul Singh and Others
				90/P	Private	GORA II	0.014	Reboti Roman Singh, s/o Gokul Singh and Others
				92/P	Private	Done II	0.073	Lakhipado Gope, s/o Lt. Uday Gope and Others
				93/P	Private	GORA I	0.03	Lakhipado Gope, s/o Lt. Uday Gope and Others
				95/P	Private	Gora III	0.024	Krishna Gope, s/o Lt. Supal Gope and Others
				96/P	Private	Gora I	0.002	Balika s/o Lt. Nandlal Gope
				97/F	Private	MAKAN SAHAN	0.016	Atul Gope s/o Lt. Gobind Gope
				98/P	Private	GORA II	0.02	Ambuj Gope, s/o Lt. Varan Gope and Others
				100/P	Private	MAKAN	0.001	Ambuj Gope, s/o Lt. Varan Gope and Others
		Chandil	Lupungdih (J.L. No. 279)	297/P	Private	Gora III	0.022	Golak Bihari Gope s/o Nandlal Gope and Others
				299/P	Private	Gora II	0.014	Sarti Bhumijani w/o Lt. Asni Bhumij and Others
				300/P	Private	Gora II	0.014	Sarti Bhumijani w/o Lt. Asni Bhumij and Others
				301/P	Private	Gora II	0.011	Sarti Bhumijani w/o Lt. Asni Bhumij and Others
				302/P	Private	Gora II	0.022	Sarti Bhumijani w/o Lt. Asni Bhumij and Others
				308/P	Private	Gora II	0.038	Sarti Bhumijani w/o Lt. Asni Bhumij and Others
				309/P	Private	Gora II	0.022	Sarti Bhumijani w/o Lt. Asni Bhumij
				321/P	Private	Gora III	0.087	Sarti Bhumijani w/o Lt. Asni Bhumij
				323/P	Private	Purani Parti	0.105	Smt. Sanjita Gope w/o Gopeshwar Gope and Others
				324/P	Private	Don III	0.069	Satish Chandra Mahato s/o Bhisma Nath Mahato and Others
				330/P	Private	PLAS JANGLE	0.107	Manik Singh, s/o Gheru Bhumij and Others
				332/P	Private	Gora III	0.045	Dhamendra Gope s/o Lt. Nilkamal Gope and Others
				333/P	Private	Done III	0.03	Tara Shankar Gope s/o Lt. Mahendra Bagal
				340/P	Private	Motiaar	0.006	Tara Shankar Gope s/o Lt. Mahendra Bagal
				341/P	Private	Purani Parti	0.014	Amin Chandra Gope s/o Lt. Nandi Gope
				342/P	Private	Done II	0.008	Ghasiram Singh s/o Bahadur Singh
				343/P	Private	Done I	0.063	Ghasiram Singh s/o Bahadur Singh
				355/P	Private	Done I	0.018	Ghasiram Singh s/o Bahadur Singh
				356/F	Private	Done I	0.008	Hemlata Singh s/o Kalicharan Singh
				357/P	Private	Done II	0.008	Ghasiram Singh s/o Bahadur Singh
				358/P	Private	Done II	0.014	Ayodhya Bagal s/o Beni Bagal

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				365/P	Private	Motiaar	0.004	Deven Gope, s/o Anand Gope and Others
				367/P	Private	Done II	0.022	Deven Gope, s/o Anand Gope and Others
				370/P	Private	MOTI AAR	0.006	Deven Gope, s/o Anand Gope and Others
				371/P	Private	Done III	0.032	Anil Gope s/o Phulu Gope and Others
				372/P	Private	MOTI AAR	0.006	Dharmu Mahato s/o Lt Anant Mahato
				373/P	Private	Done III	0.032	Dharmu Mahato s/o Lt Anant Mahato and Others
				413/P	Private	Done II	0.008	Bedhnaah Gope s/o Khirod Bagal
				414/P	Private	Done II	0.071	Arnav Kumar Dandpat s/o Phelaram Dandpat and Others
				418/P	Private	Gora I	0.006	Shankti Pado Pramanik, s/o Ashutosh Pramanik and Others
				419/P	Private	Gadha	0.022	Shankti Pado Pramanik, s/o Ashutosh Pramanik and Others
				423	Govt.	Non Agri	0.006	Govt.
				424/P	Private	GORA I	0.020	Baidhnath Gope, s/o Khirod Gope and Others
				428/P	Private	GORA I	0.038	Shankti Pado Pramanik, s/o Ashutosh Pramanik and Others
				429/P	Private	MAKAN SAHAN	0.01	Shankti Pado Pramanik, s/o Ashutosh Pramanik and Others
				430/P	Private	MAKAN SAHAN	0.006	Lakhi Gope s/o Gadai Gope
				433/P	Private	MAKAN SAHAN	0.002	Dost Mahmmd Miya s/o Harkhu Miya
				437/P	Private	GORA II	0.02	Lakhinarayan Gope, s/o Karmu Gope and Others
				438/P	Private	Gora I	0.022	Mangal Gope, s/o Shivnath Gope and Others
				439/P	Private	Gora I	0.022	Lakhinarayan Gope, s/o Karmu Gope and Others
				441/P	Private	Gora I	0.024	Lakhinarayan Gope, s/o Karmu Gope and Others
				444/P	Govt.	Rasta	0.004	Govt.
				446/P	Private	Gora I	0.034	Balram Gope, Gope s/o Mohan Gope and Others
				447/P	Private	Gora I	0.006	Balram Gope s/o Mohan Gope and Others
				498/P	Private	Gora III	0.006	Nilkamal Gope, s/o Mogla Gope and Others
				499/P	Private	Gora III	0.097	Nilkamal Gope, s/o Mogla Gope and Others
				500/P	Private	Gora III	0.113	Gokul Singh s/o Labu Singh
				501/P	Govt.	PLAS JANGLE	0.045	Govt.
				502/P	Private	Gora III	0.103	Umashankar Gope s/o Bipin Gope and Others
				503/F	Private	Gora III	0.134	Rishi Gope, s/o Ayodya Gope and Others
				504/P	Private	Gora III	0.065	Lakhindra Gope s/o Gobind Gope
				505/P	Private	DONE III	0.01	Balram Gope, s/o Lt. Ajit Gope and Others
				506/P	Private	Gora III	0.075	Lakhindra Gope s/o Gobind Gope and Others
				508/P	Private	Gora II	0.001	Asutosh Gope, s/o Nepul Bagal and Others
				509/P	Private	MAKAN SAHAN	0.006	Asutosh Gope, s/o Nepul Bagal and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				510/P	Private	MAKAN SAHAN	0.002	Savitri Chakrabarti D/o Kamendra Chakraborti
				515/P	Pwd	GORA II	0.018	Govt.
				522/P	Govt.	PLAS JANGLE	0.004	Govt.
				523/P	Private	PURANI PARTI	0.018	Manik Gope s/o Phalari Gope and Others
				535/P	Private	Done II	0.001	Dashrath Gope s/o Phalari Gope
				541/P	Private	DONE I	0.001	Shankar Mahatos/o Khogen Mahato and Others
				555/P	Private	DONE I	0.001	Shankar Mahatos/o Khogen Mahato and Others
				556/P	Private	MOTI AAR	0.001	Shankar Mahatos/o Khogen Mahato and Others
				558/P	Private	MOTI AAR	0.001	Jatashankar Pandey s/o Lt. Satya Narayan Pandey
				560/P	Govt.	PURANI PARTI	0.002	Govt.
				561/P	Private	Gora I	0.001	Nilkamal Gope s/o Lakhiram Gope
				563/P	Private	MAKAN SAHAN	0.004	Kalawati Gope s/o Lt. Gour Gope
				564/P	Private	Gora II	0.018	Kalawati Gope s/o Lt. Gour Gope
				567/P	Private	Gora I	0.006	Ishwar Gope, s/o Sombari Bagalin and Others
				568/P	Private	MAKAN SAHAN	0.004	Ishwar Gope, s/o Sombari Bagalin and Others
				569/P	Govt.	Rasta	0.002	Govt.
				574/P	Private	Gora I	0.024	Nilkamal Gope, s/o Mogla Gope and Others
				575/P	Private	Gora II	0.004	Ambika Gope w/o Beshidhar Gope
				579/P	Private	GORA II	0.026	Ashtik Gope, s/o Durga Charan Gope and Others
				580/P	Private	GORA I	0.026	Atul Gope, s/o Bihari Gope and Others
				585/P	Private	GORA I	0.01	Shankar Mahato, s/o Khogen Mahato and Others
				586/P	Private	MAKAN SAHAN	0.018	Shankar Mahato, s/o Khogen Mahato and Others
				587/P	Private	GORA I	0.026	Shankar Mahato, s/o Khogen Mahato and Others
				588/P	Private	MAKAN SAHAN	0.006	Shankar Mahato, s/o Khogen Mahato and Others
				590/P	Private	Gora II	0.012	Shankar Mahato, s/o Khogen Mahato and Others
				591/F	Private	Gora II	0.324	Gurupado Gope, s/o Lt. Dinbandhu Gope and Others
				592/P	Private	GORA II	0.087	Shankar Mahato, s/o Khogen Mahato and Others
				1257/P	Govt.	Non Agri	0.105	Govt.
				1263/P	Private	GORA III	0.055	Sadanand Gope s/o Dukhu Gope and Others
				1266/P	Private	GORA III	0.061	Dhundi Devi w/o Karna Gope
				1267/P	Private	GORA III	0.051	Ram Charan Gope s/o Lt. Dasu Gope
				1268/F	Private	DONE III	0.089	Dhannjay Gope s/o Umapado Gope

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1269/P	Private	DONE III	0.081	Gurupado Gope s/o Pabito Gope and Others
				1274/P	Private	DONE II	0.212	Ghasiram Gope s/o Girdhari Gope and Others
				1275/P	Private	MOTI AAR	0.004	Smt. Bimal Bagalin w/o Bikram Bagal
				1276/P	Private	DONE I	0.079	Subhsh Singh, s/o Sadanand Singh and Others
				1277/P	Private	DONE I	0.095	Subhash Singh s/o Sadanand Singh and Others
				1279/P	Private	DONE I	0.069	Umesh Gope, s/o Gahan Bagal and Others
				1280/P	Private	DONE I	0.083	Amar Chandra Bagal s/o Phalari Bagal and Others
				1281/P	Private	DONE I	0.257	Charan Bagal s/o Hari Bagal and Others
				1282/P	Private	DONE I	0.138	Bimla Bagal s/o Budha Bagal
				1283/P	Private	DONE I	0.049	Bimla Bagal s/o Budha Bagal
				1434/P	Private	DONE III	0.01	Gangadhar Singh s/o Mansa Ram Singh
				1443/P	Private	DONE II	0.073	Bhagrathi Gope s/o Nand Gope
				1446/P	Private	DONE II	0.091	Subodhni Singh w/o Lalu Singh
				1447/P	Private	DONE II	0.073	Santosh Gope s/o Jamak Gope and Others
				1448/P	Private	DONE II	0.04	Sagori Gope s/o Sukal Gope
				1449/P	Private	DONE II	0.243	Khaki Gawalin w/o Sri Dusu Gope and Others
				1450/P	Private	DONE III	0.049	Gandhu Gope s/o Lt. Rahin Gope
				1451/P	Private	DONE II	0.202	Gandhu Gope s/o Lt. Rahin Gope and Others
				1452/P	Private	DONE II	0.138	Muntu Singh s/o Sadhucharan Singh and Others
				1453/F	Private	DONE III	0.008	Shivcharan Gope, s/o Lt. Pramanand Bagal and Others
				1454/P	Private	DONE II	0.291	Shivcharan Gope, s/o Lt. Pramanand Bagal and Others
				1455/P	Private	DONE II	0.077	Premchand Gope s/o Lt. Madav Gope
				1456/P	Private	DONE II	0.055	Gandhu Gope s/o Lt. Rahin Gope
				1457/P	Private	DONE II	0.01	Sagori Gope s/o Sukal Gope
				1458/P	Private	DONE I	0.156	Sukhdev Singh s/o Bishtu Singh
				1470/P	Private	DONE III	0.059	Muntu Singh s/o Sadhu Charan Singh
				1481/P	Private	DONE III	0.028	Gandhu Gope s/o Lt. Rahin Gope
				1482/P	Private	DONE III	0.022	Muntu Singh s/o Bahadur Singh
				1483/F	Private	DONE III	0.024	Muntu Singh s/o Bahadur Singh
				1484/F	Private	DONE III	0.065	Gandhu Gope s/o Lt. Rahin Gope and Others
				1485/F	Private	DONE III	0.093	Gandhu Gope s/o Lt. Rahin Gope
				1486/P	Private	DONE II	0.016	Jatam Singh s/o Bahadur Singh
				1487/P	Private	DONE II	0.401	Kalu Ram Marvari, s/o Sukhmal and Others
				1488/P	Private	DONE III	0.045	Kali Charan Singh, s/o Ghasiram Singh and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1490/P	Private	DONE II	0.103	Sagori Gope s/o Sukal Gope and Others
				1491/P	Govt.	Rasta	0.028	Govt.
				1494/P	Private	DONE II	0.152	Jagjivan Gope s/o Harekrishna Gope
				1498/P	Private	DONE III	0.121	Bimla Bagal s/o Budha Bagal
			Pitki (J.L. No. 280)	6/P	Private	DONE I	0.02	Suren Gope, s/o Lt. Baneshwar Gope and Others
				56/P	Private	DONE II	0.227	Asharam Mahato s/o Lt. Durga Charan Mahato
				57/P	Private	DONE II	0.223	Harishankar Singh, s/o Malindra Singh and Others
				58/P	Private	DONE III	0.243	Ghasiram Mistri s/o Govind Mistri
				59/F	Govt.	PURANI PARTI	0.061	Govt.
				60/P	Govt.	PURANI PARTI	0.123	Govt.
				61/F	Private	GORA II	0.024	Ghasiram Mistri s/o Govind Mistri
				62/F	Private	PURANI PARTI	0.008	Asharam Mahato s/o Lt. Durga Charan Mahato
				63/P	Private	DONE II	0.047	Ghasiram Mistri s/o Govind Mistri
				72/P	Private	DONE II	0.322	Mathur Singh s/o Gati Singh and Others
				73/F	Private	GORA II	0.162	Rabbari Sadarin s/o Suchand Singh and Others
				74/P	Private	DONE III	0.233	Niranjan Singh s/o Gopal Singh and Others
				75/P	Private	DONE III	0.028	Mathur Singh s/o Gati Singh and Others
				77/P	Private	DONE II	0.006	Leda Singh s/o Sumitra Singh and Others
				78/F	Private	DONE II	0.016	Sati Devi w/o Lt. Chandan Singh and Others
				79/P	Govt.	PURANI PARTI	0.057	Govt.
				80/P	Private	DONE II	0.016	Rajkumar Kundu s/o Lt. Manik Chandra Kundu and Others
				391/P	Pwd	SARAK	0.178	Govt.
				393/P	S.E.Rlyh.	RLYH. LINE	0.223	Govt.
				464/P	Private	DONE II	0.02	Hari Buchu, s/o Lagho Singh and Others
				473/P	Private	DONE II	0.162	Gopal Gope s/o Haripad Gope
				474/P	Private	DONE I	0.253	Kalimai Dasi w/o Lakhi Pal and Others
				475/P	Private	DONE II	0.006	Gopal Gope s/o Haripad Gope
				476/P	Private	DONE II	0.075	Gopal Gope s/o Haripad Gope
				478/P	Private	DONE II	0.004	Padamlochan Singh w/o Baishakhi
				576/P	Private	DONE II	0.001	Duryodhan Singh, s/o Ranjit Singh and Others
				592/P	Govt.	Non Agri	0.071	Govt.
				593/F	Private	DONE II	0.045	Rabbari Sardarin s/o Samar Singh and Others
				594/F	Private	DONE II	0.073	Ashok Singh, s/o Chandan Singh and Others
				595/P	Private	DONE III	0.275	Kalimai Dasi w/o Lakhi Pal and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				599/P	Private	DONE III	0.012	Duryodhan Singh, s/o Ranjit Singh and Others
				600/P	Private	DONE III	0.386	Harishankar Singh, s/o Malindra Singh and Others
				601/P	Private	DONE II	0.063	Madhu singh, s/o Siro Sardarin and Others
				602/P	Private	DONE II	0.051	Madhu singh, s/o Siro Sardarin and Others
				603/P	Private	DONE II	0.198	Harishankar Singh, s/o Malindra Singh and Others
				604/P	Private	DONE II	0.047	Harishankar Singh, s/o Malindra Singh and Others
				605/P	Private	DONE II	0.028	Dhandu Mahato s/o Lt. Ruitu Mahato
				607/P	Private	DONE II	0.34	Dhandu Mahato s/o Lt. Ruitu Mahato and Others
				608/P	Private	DONE II	0.004	Baju Gope s/o Lt. Madhu Gope
				616/P	Private	DONE II	0.038	Harishankar Singh, s/o Malindra Singh and Others
				617/P	Private	DONE II	0.109	Madhu singh, s/o Siro Sardarin and Others
				618/P	Private	DONE II	0.071	Madhu singh, s/o Siro Sardarin and Others
				645/P	Private	DONE II	0.223	Gurubari Devi w/o Bikram Singh
				646/P	Private	DONE II	0.419	Jitu Gope s/o Lt. Govind Gope and Others
				648/P	Private	DONE II	0.31	Kalimai Dasi w/o Lakhi Pal and Others
				649/P	Private	DONE II	0.221	Kalimai Dasi w/o Lakhi Pal
				650/P	Private	DONE II	0.024	Jitendra singh s/o Asharam Singh and Others
				651/P	Forest	DONE III	0.016	Govt.
				655/P	Govt.	GORA II	0.002	Govt.
			Ugdih (J.L. No. 243)	1/F	Private	DONE I	0.083	Ajit Singh s/o Lt. Dubraj Singh and Others
				2/F	Private	DONE I	0.061	Smt. Kunni, d/o Lt. Raghunath Singh and Others
				3/F	Private	DONE II	0.024	Kalomuni w/o Lt. Doman Singh and Others
				4/F	Private	DONE II	0.016	Niru singh s/o Lt. Anand Singh
				5/F	Private	DONE II	0.02	Umapado Singh s/o Lt. Sarveshwar Singh
				6/F	Private	DONE II	0.008	Ajit Singh s/o Lt. Dubraj Singh and Others
				7/P	Govt.	PURANI PARTI	0.024	Govt.
				8/P	Private	DONE II	0.073	Mangal Singh, s/o Lt. Gurudev singh and Others
				9/F	Private	GORA II	0.016	Mangal Singh, s/o Lt. Gurudev singh and Others
				28/P	Private	MAKAN SAHAN	0.001	Mangal Singh, s/o Lt. Gurudev singh and Others
				48/P	Govt.	Rasta	0.055	Govt.
				51/P	Private	DONE I	0.061	Nripen Mahato, s/o Lt. Kinu Mahato and Others
				59/P	Private	DONE I	0.067	Chanchla Singh, d/o Lt. Samar Singh and Others
				60/F	Private	DONE I	0.121	Guhiram Singh, s/o Lt. Mukund Singh and Others
				61/F	Private	GORA II	0.053	Mangal Singh, s/o Lt. Gurudev singh and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				62/F	Private	GORA II	0.045	Mangal Singh, s/o Lt. Gurudev Singh and Others
				63/P	Private	DONE II	0.032	Mangal Singh, s/o Lt. Gurudev Singh and Others
				68/P	Private	DONE I	0.01	Kamla Kumari d/o Sundar Singh
				69/P	Private	DONE I	0.097	Kamla Kumari d/o Sundar Singh
				70/F	Private	DONE I	0.117	Kamla Kumari d/o Sundar Singh
				71/F	Private	DONE I	0.028	Smt. Kunni, d/o Lt. Raghunath Singh and Others
				72/F	Private	DONE I	0.045	Ajit Singh s/o Lt. Dubraj Singh
				73/F	Private	DONE I	0.02	Smt. Kunni, d/o Lt. Raghunath Singh and Others
				74/P	Private	DONE I	0.014	Umapado Singh s/o Lt. Sarveshwar Singh
				83/P	Private	DONE II	0.014	Smt. Kunni, d/o Lt. Raghunath Singh and Others
				84/F	Private	DONE II	0.02	Ajit Singh s/o Lt. Dubraj Singh and Others
				85/	Private	DONE III	0.012	Umapado Singh s/o Lt. Sarveshwar Singh
				86/F	Private	DONE II	0.032	Kalomuni w/o Lt. Doman Singh and Others
				87/F	Private	DONE I	0.024	Ajit Singh s/o Lt. Dubraj Singh and Others
				88/F	Private	DONE I	0.016	Niru Singh s/o Lt. Anand Singh
				89/F	Govt.	PURANI PARTI	0.024	Govt.
				90/F	Private	DONE III	0.012	Kalomuni w/o Lt. Doman Singh and Others
				91/F	Govt.	PURANI PARTI	0.065	Govt.
				92/P	Govt.	PURANI PARTI	0.014	Govt.
				93/P	Govt.	NALA	0.073	Govt.
				97/P	Private	DONE II	0.059	Urmila Singh w/o Lt. Jaychand Singh
				98/P	Private	DONE I	0.002	Urmila Singh w/o Lt. Jaychand Singh
				99/F	Private	DONE II	0.024	Nirmal Singh, s/o Lt. Gaur Singh and Others
				100/P	Private	DONE I	0.227	Chanchla Singh, d/o Lt. Samar Singh and Others
				101/P	Private	DONE I	0.014	Bhavani Singh w/o Lt. Goverdhan Singh and Others
				102/P	Govt.	JUNGAL	0.002	Govt.
				108/P	Private	MAKAN SAHAN	0.002	Chanchla Singh, d/o Lt. Samar Singh and Others
				109/P	Private	GORA II	0.051	Kamla Kumari d/o Sundar Singh
				110/P	Private	DONE II	0.022	Kamla Kumari d/o Sundar Singh
				49/281/P	Private	DONE II	0.034	Nripen Mahato, s/o Lt. Kinu Mahato and Others
				100/284/P	Private	DONE II	0.079	Chanchla Singh, d/o Lt. Samar Singh and Others
			Rautara (J.L. No. 242)	484/P	Private	DONE I	0.393	Sadhucharan Mahato s/o Lt. Bhutesh Mahato and Others
				485/P	Private	DONE I	0.289	Rudu Mahato, s/o Jagannath Mahato and Others
				515/P	Private	DONE I	0.085	Mahavir Gorai s/o Diwjopado Gorai and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				517/P	Private	DONE I	0.038	Ashok Mahato s/o Bauri Mahato
				518/P	Private	DONE I	0.076	Mahavir Gorai s/o Diwjopado Gorai and Others
				520/P	Private	DONE II	0.084	Upendra Singh s/o Lt. Girja Singh
				522/P	Private	DONE I	0.063	Kali Prashnn Mahato s/o Jhadu Mahato and Others
				523/P	Private	DONE I	0.091	Robina Singh d/o Lt. Shayampado Singh and Others
				526/P	Private	DONE I	0.073	Mahavir Gorai s/o Diwjopado Gorai and Others
				528/P	Private	DONE I	0.077	Rakesh Mahato, s/o Lt. Sunil Mahato and Others
				529/P	Private	DONE I	0.042	Kiriti Mahato, s/o Nilkamal Mahato and Others
				531/P	Private	DONE I	0.136	Amulya Mahato, s/o Madhusudan Mahato and Others
				573/P	Private	DONE I	0.038	Khoki Mahato d/o Manik Mahato and Others
				574/P	Private	DONE I	0.004	Anag Mohan Chakarbarti s/o Diwakar Chakarbarti and Others
				586/P	Private	DONE I	0.004	Dhirendra Nath Mahato s/o Lt. Devendra Nath Mahato
				587/P	Private	DONE I	0.002	Ghasiram Mahato, s/o Rampado Mahato and Others
				595/P	Private	DONE I	0.002	Adri Mahtani d/o Budhni Mahtani and Others
				597/P	Private	DONE I	0.075	Yogeshwar Mandal s/o Guiram Mandal and Others
				598/P	Private	DONE I	0.326	Sitanath Goswami s/o Khone Goswami and Others
				599/P	Private	DONE I	0.316	Mahavir Gorai s/o Diwjopado Gorai and Others
				600/P	Private	DONE I	0.13	Ghasiram Mahato, s/o Rampado Mahato and Others
				601/P	Private	DONE I	0.132	Ghasiram Mahato, s/o Rampado Mahato and Others
				602/P	Private	DONE II	0.265	Mansuk Mahato, s/o Lakhiram Mahato and Others
				603/P	Private	DONE I	0.089	Ghasiram Mahato, s/o Rampado Mahato and Others
				604/P	Private	DONE I	0.007	Ghasiram Mahato, s/o Rampado Mahato and Others
				605/f	Private	DONE I	0.162	Sunil Mahato, s/o Dhani Mahato and Others
				606/P	Private	DONE I	0.271	Panchann Gorai s/o Bhikhakar Gorai
				607/F	Private	DONE I	0.036	Panchann Gorai s/o Bhikhakar Gorai
				608/F	Private	DONE I	0.061	Panchann Gorai s/o Bhikhakar Gorai
				609/F	Private	DONE I	0.069	Kashinath Mahato, s/o Sona Ram Mahato and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				610/F	Private	DONE I	0.101	Antar Devi w/o Naval Kishor Singh
				611/P	Private	DONE I	0.014	Saraswati Mahtani d/o Budhni Mahtani and Others
				614/P	Private	DONE I	0.142	Mansuk Mahato, s/o Lakhiram Mahato and Others
				615/F	Private	DONE II	0.178	Bijay Singh, s/o Biren Singh and Others
				616/P	Private	DONE I	0.053	Bijay Singh, s/o Biren Singh and Others
				617/F	Private	DONE I	0.077	Baban Singh, s/o Gopal Chandra Singh and Others
				618/F	Private	DONE I	0.093	Bhabtaran Singh, s/o Ishwar Singh and Others
				619/F	Private	DONE I	0.024	Murlimohan Manjumadar, s/o Bhavanand Manjumadar and Others
				620/F	Private	DONE I	0.016	Anag Mohan Chakarbarti s/o Diwakar Chakarbarti and Others
				621/F	Private	DONE I	0.012	Anag Mohan Chakarbarti s/o Diwakar Chakarbarti and Others
				622/F	Private	DONE I	0.036	Murlimohan Manjumadar, s/o Bhavanand Manjumadar and Others
				623/F	Private	DONE I	0.008	Anag Mohan Chakarbarti s/o Diwakar Chakarbarti and Others
				624/F	Private	DONE I	0.012	Anag Mohan Chakarbarti s/o Diwakar Chakarbarti and Others
				625/P	Private	DONE I	0.026	Bhabtaran Singh, s/o Ishwar Singh and Others
				626/P	Private	DONE I	0.087	Prabhat Mahato s/o Krishna Chandra Mahato and Others
				627/P	Private	DONE I	0.144	Ghasiram Mahato, s/o Rampado Mahato and Others
				628/P	Private	DONE I	0.04	Kiriti Mahato, s/o Nilkamal Mahato and Others
				629/P	Private	DONE I	0.011	Kiriti Mahato, s/o Nilkamal Mahato and Others
				742/P	Private	DONE I	0.063	Bindu Mahato w/o Lt. Santosh Mahato and Others
				743/P	Private	DONE I	0.024	Keshu Mahtani w/o Rajendra Mahato
				746/P	Private	DONE I	0.075	Saraswati Mahtani d/o Guhiram Mahato
				747/P	Private	DONE I	0.014	Adri Mahtani d/o Budhni Mahtani and Others
				757/P	Private	DONE I	0.065	Bashisht Narayan Mahato s/o Srichand Mahato
				758/P	Private	DONE I	0.014	Kamla Mahato w/o Asharam Mahato
				759/F	Private	DONE I	0.049	Bashisht Narayan Mahato s/o Srichand Mahato
				760/P	Private	DONE I	0.038	Santosh Kumar Mahato, s/o Asharam Mahato and Others
				769/P	Private	DONE I	0.101	Khoki Mahato d/o Manik Mahato and Others
				771/P	Private	DONE I	0.061	Shashdhar Mahato, s/o Rabi Mahato and Others
				772/P	Private	DONE I	0.065	Ashok Mahato s/o Bauri Mahato

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				775/P	Private	DONE II	0.067	Sunil Mahato, s/o Dhani Mahato and Others
				776/P	Private	DONE I	0.032	Sadai Mahato, s/o Dukhu Mahato and Others
				778/P	Private	DONE I	0.006	Shanku Mahato s/o Kiran Mahato and Others
			Burudungri (J.L. No. 244)	8/p	Private	DONE I	0.045	Narayan Pramanik, s/o Umesh Pramanik and Others
				147/p	Private	DONE II	0.001	Ram Mahato s/o Devnath Mahato and Others
				151/p	Private	DONE II	0.03	Gangadhar Mahato s/o Suai Mahato
				152/p	Private	DONE I	0.712	Kashiram Mahto s/o Late Nitai Mahto and Others
				153/p	Private	DONE I	0.227	Dhirendra Nath Mandal s/o Late Devendra Nath Mandal and Others
				154/p	Private	DONE I	0.03	Sasadhar Mahato s/o Kalidas Mahato
				166/p	Private	DONE II	0.039	Sasadhar Mahato s/o Kalidas Mahato
				178/p	Private	DONE I	0.075	Digambar Mahato s/o Gairam Mahato One Part
				179/f	Private	DONE II	0.057	Digambar Mahato s/o Gairam Mahato One Part
				180/f	Private	DONE II	0.162	Nimai Mandal, s/o Ram Prasad Mandal and Others
				181/p	Private	DONE I	0.032	Prhalad Nag s/o Mahendra Nag
				182/p	Private	DONE I	0.071	Smt. Siwani Mahato w/o Kalipad Mahato
				183/p	Private	DONE I	0.002	Prhalad Nag s/o Mahendra Nag
			Lengdih (J.L. No. 245)	48	Private	DONE I	0.034	Mahadev Mahato s/o Chunaram Mahato
				50	Private	MOTI AAR	0.02	Shanti Mahato w/o Chhutulal Mahato, and Others
				51	Private	DONE I	0.067	Saroj Devi w/o Rasraj Mahato and Others
				52	Private	MOTI AAR	0.026	Shanti Mahato w/o Chhutulal Mahato and Others
				53	Private	DONE I	0.154	Shanti Mahato w/o Chhutulal Mahato and Others
				54	Private	DONE I	0.117	Shanti Mahato w/o Chhutulal Mahato and Others
				55	Private	DONE I	0.081	Shanti Mahato w/o Chhutulal Mahato and Others
				56	Private	MOTI AAR	0.028	Shanti Mahato w/o Chhutulal Mahato and Others
				69	Private	DONE I	0.091	Smt. Siwani Mahato w/o Khirod ch. Mahato
				70	Private	DONE I	0.334	Shanti Mahato w/o Chhutulal Mahato and Others
				71	Private	DONE I	0.063	Shanti Mahato w/o Chhutulal Mahato and Others
				76	Private	DONE I	0.223	Smt. Siwanit Mahato w/o Khirod ch. Mahato
				77	Private	DONE I	0.212	Jaydev Mahato s/o Aklu Mahato and Others
				80	Private	DONE I	0.295	Mahadev Mahato s/o Chunaram Mahato and Others
				81	Private	DONE I	0.119	Umapado Mahato s/o Chunuram Mahato

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				82	Private	DONE I	0.073	Subodh Kumar Mahato s/o Late Nityanand Mahato and Others
				83	Private	DONE I	0.034	Jaydev Mahato s/o Aklu Mahato and Others
				85	Private	DONE I	0.002	Sunil Mahato s/o Purno Mahato
				90	Private	DONE I	0.006	Arti Mahtani d/o Gyan Mahato and Others
				91	Private	DONE I	0.059	Bhola Singh s/o Khetu Singh and Others
				92	Private	DONE I	0.069	Dyamay singh Sardar s/o Dinbandhu Sardar and Others
				93	Private	DONE I	0.049	Tarun Mahato s/o Lt. Praphua Mahato and Others
				94	Private	DONE I	0.065	Malindra Mahato s/o Karmu Mahato and Others
				95	Private	DONE I	0.089	Anand Mahato s/o Bhiku Mahato
				96	Private	DONE I	0.069	Bhola Singh s/o Khetu Singh and Others
				97	Private	DONE I	0.032	Anand Mahato s/o Bhiku Mahato
				98	Private	DONE I	0.008	Khoki Mahtani w/o Manik Mahato and Others
				99	Private	DONE I	0.006	Sindhu Mahtani w/o Lt. Babulal Mahato and Others
				100	Private	DONE I	0.002	Khoki Mahtani w/o Manik Mahato and Others
				111	Private	DONE I	0.001	Tarun Mahato s/o Lt. Praphua Mahato and Others
				116	Private	DONE I	0.008	Khoki Mahtani s/o Manik Mahato
				117	Private	DONE I	0.024	Saroj Devi w/o Rasraj Mahato and Others
				118	Private	DONE I	0.067	Sindhu Mahtani w/o Lt. Babulal Mahato and Others
				119	Private	DONE I	0.024	Dyamay singh Sardar s/o Dinbandhu Sardar and Others
				120	Private	DONE I	0.028	Umapado Mahato s/o Chunuram Mahato and Others
				121	Private	DONE I	0.138	Mantu Mahato s/o Chhutu Mahato and Others
				127	Private	DONE I	0.004	Dyamay singh Sardar s/o Dinbandhu Sardar and Others
			Chandil (J.L. No. 246)	127//P	Private	DONE I	0.093	Smt. Ram priya Devi w/o Srikant ch. Charkbarti
				128/P	Private	DONE I	0.024	Lakhi priya Devi w/o Devidhar Adityadev
				129/P	Private	DONE I	0.063	Lakhi priya Devi w/o Devidhar Adityadev
				139/P	Private	DONE II	0.158	Sanichara Devi w/o Bal vachan singh and Others
				141/P	Private	DONE I	0.219	Smt. Ram priya Devi w/o Srikant ch. Charkbarti
				142/F	Private	DONE I	0.016	Smt. Ram priya Devi w/o Srikant ch. Charkbarti
				143/P	Private	DONE I	0.13	Kalidas Chodhari s/o Bhavtosh Chodhari and Others
				144/P	Private	DONE I	0.049	Gaur Gop s/o Kriti Gope
				145/P	Private	DONE I	0.109	Nayan Singh s/o Kalipad Singh

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				155/P	Private	DONE I	0.231	Yogeshwar Mandal s/o Gohiram Mandal and Others
				156/P	Private	DONE I	0.071	Bimla bala Dasi w/o Durga charan Pramanik
				157/P	Private	DONE I	0.182	Nitai Chandra Mandal w/o Budan Chandra Mandal
				159/P	Private	DONE I	0.006	Gaur Chandra Mandal s/o Budhan Mnadal
				178/P	Private	DONE I	0.087	Yogeshwar Mandal s/o Gohiram Mandal and Others
				180/P	Private	DONE I	0.251	Ramu Napit s/o Bhiku Napti
				181/P	Private	DONE II	0.036	Ramu Napit s/o Bhiku Napti
				182/P	Private	DONE I	0.113	Ramu Napit s/o Bhiku Napti
				183/P	Private	DONE I	0.012	Ramu Napit s/o Bhiku Napti
				184/P	Private	DONE I	0.036	Upendra Mandal s/o Radhanath Mandal
				185/P	Private	DONE I	0.071	Basanti Gope w/o Bibhishan Gope
				203/P	Private	DONE I	0.02	Durga pad Da w/o Kartik Da
				204/P	Private	DONE I	0.006	Maharaj Manjhi, s/o Ludu Manjhi and Others
				205/P	Private	DONE I	0.042	Basanti Gope w/o Bibhishan Gope
				206/P	Private	DONE I	0.036	Maharaj Manjhi, s/o Ludu Manjhi and Others
				207/P	Private	DONE I	0.045	Maharaj Manjhi, s/o Ludu Manjhi and Others
				208/P	Private	DONE I	0.026	Maso Manjhi s/o Kartik Manjhi
				209/F	Private	DONE I	0.016	Suklal Manjhi s/o Ramu Manjhi
				210/P	Private	DONE I	0.061	Tapan Nag. s/o Sudhir Nag, and Others
				213/P	Private	DONE I	0.071	Nidhi bala Dasi w/o Dindayal
				218/P	Private	DONE II	0.119	Sri Jitbahan Sen s/o Sarel Sen and Others
				219/P	Private	DONE II	0.063	, Pado Majhi s/o Gokul Majhi and Others
				223/P	Private	DONE I	0.174	Suhagi Majhi s/o Sakra Majhi and Others
				225/P	Private	DONE II	0.075	Sura Bhuya s/o Ghasiya Bhuya, and Others
				238/P	Private	DONE II	0.152	Ghasni Majhi w/o Luthu Majhi and Others
				239/P	Private	DONE II	0.055	Phulkumari Haldhar w/o Mahadev Haldhar
				242/F	Private	DONE II	0.081	Banu Majhi s/o
				243/P	Private	DONE II	0.016	Brinda Prasad Mahato s/o Lt. Dhiraj Mahato and Others
				244/F	Private	DONE I	0.049	Maso Manjhi s/o Kartik Manjhi
				245/P	Private	DONE I	0.012	Suklal Manjhi s/o Ramu Manjhi
				247/P	Private	DONE I	0.006	Chinta Mani Dwa w/o
				248/F	Private	DONE II	0.049	Ghasiram Kumhar s/o
				249/P	Private	DONE II	0.038	Rishi kansh Dwa s/o Kartik Dwa
				260/P	Private	DONE I	0.018	Hadiram Majhi s/o Gondlo Majhi
				261/F	Private	DONE I	0.045	Dukhiram Kishku s/o Bhim Kishku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				262/P	Private	DONE I	0.061	Sridhar Majhi s/o Radha Majhi
				268/P	Private	DONE I	0.087	Narayan Pramanik, s/o Umesh Pramanik, and Others
				271/P	Private	DONE I	0.103	Upendra Mandal s/o Radhanath Mandal and Others
				272/P	Private	DONE I	0.075	Nuni Majhiyan s/o Bando Majhi
				274/P	Private	DONE I	0.091	Ratan lal Sahu s/o Nakul chandra Sahu
				275/P	Private	DONE I	0.172	Ratan lal Sahu s/o Nakul chandra Sahu
				277/P	Private	DONE I	0.144	Surendra nath Rakshit s/o Bedhnath Rakshit
				281/P	Private	DONE I	0.172	Thuru Sardar s/o Mansa Sardar and Others
				282/P	Private	Purani Parti	0.004	Thuru Sardar s/o Mansa Sardar and Others
				286/P	Private	DONE I	0.01	Thuru Sardar s/o Mansa Sardar and Others
				287/F	Private	DONE I	0.049	Thuru Sardar s/o Mansa Sardar and Others
				288/P	Private	DONE I	0.091	Thuru Sardar s/o Mansa Sardar and Others
				289/P	Private	DONE I	0.008	Thuru Sardar s/o Mansa Sardar and Others
				292/P	Private	DONE I	0.004	Thuru Sardar s/o Mansa Sardar and Others
				294/P	Private	DONE I	0.04	Dukhiram Kishku s/o Bhim Kishku
				295/F	Private	DONE I	0.045	Sitaram Majhi s/o Mohan Majhi
				296/F	Private	DONE I	0.045	Ram chandra Majhi s/o Godlo Majhi
				297/P	Private	DONE I	0.008	Sharla Mahato s/o Budhu Mahato
				298/P	Private	DONE I	0.119	Upendra Mandal s/o Radhanath Mandal and Others
				299/P	Private	DONE I	0.079	Narayan Pramanik s/o Umesh Pramanik, and Others
				300/P	Private	DONE I	0.075	Nuni Majhiyan s/o Bando Majhi
				301/P	Private	DONE I	0.067	Narayan Pramanik s/o Umesh Pramanik, and Others
				304/P	Private	DONE I	0.065	Gaur Chandra Mandal s/o Budhan Mnadal and Others
				306/P	Private	DONE I	0.049	Kadi Sardar s/o Man singh Sardar
				307/P	Private	DONE I	0.022	Thuru Sardar s/o Mansa Sardar and Others
				308/P	Govt.	Rasta	0.028	Govt.
			Ruchap (J.L. No. 238)	819/p	Govt.	Rasta	0.024	Govt.
				820/P	Private	DONE II	0.397	Shikha Sinha w/o Late Tara Prasad Sinha, and Others
				821/F	Private	MOTI AAR	0.065	Amin chandra Mahato s/o Late Motilal Mahato and Others
				822/P	Private	Done II	0.364	Vipad Taran Gop s/o Sashidhar Gope and Others
				823/P	Private	Done III	0.036	Vipad Taran Gop s/o Sashidhar Gope and Others
				824/P	Private	Done III	0.146	Jagnnath Gope s/o Gour Gope and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				825/F	Private	MOTI AAR	0.045	Vanu Gope s/o Late Haldhar Gope and Others
				826/P	Private	Done I	0.253	Dilip Pramanik s/o Bherav Pramanik and Others
				991/P	Private	Done I	0.168	Harilal Rai s/o Binay Kumar Rai and Others
				994/P	Private	Done I	0.036	Ramchandra Kumhar s/o Duryodhan Kumhar and Others
				995/P	Private	MOTI AAR	0.069	Shikha Sinha w/o Late Tara Prasad Sinha, and Others
				996/P	Private	DONE I	0.583	Shikha Sinha w/o Late Tara Prasad Sinha, and Others
				997/P	Private	MOTI AAR	0.032	Harilal Rai s/o Binay Kumar Rai and Others
				1007/P	Private	GORA I	0.107	Arup Kumar Singh, s/o Bijay Chandra Singh, and Others
				1008/F	Private	DONE III	0.012	Arup Kumar Singh, s/o Bijay Chandra Singh, and Others
				1009/F	Govt.	Non Agri	0.049	Govt.
				1010/F	Private	DONE III	0.024	Arup Kumar Singh, s/o Bijay Chandra Singh, and Others
				1011/P	Private	GORA I	0.081	Arup Kumar Singh, s/o Bijay Chandra Singh, and Others
				1022/P	Private	GORA II	0.051	Gita Devi w/o Gurucharan Singh Munda, and Others
				1023/P	Private	DONE III	0.142	Gita Devi w/o Gurucharan Singh Munda, and Others
				1024/F	Private	MOTI AAR	0.016	Gita Devi w/o Gurucharan Singh Munda, and Others
				1025/P	Private	DONE I	0.083	Nirmalendu Rai, s/o Kalyani Charan Rai, and Others
				1026/P	Private	DONE I	0.083	Nirmalendu Rai, s/o Kalyani Charan Rai, and Others
				1027/P	Private	Done II	0.14	Hiralal Rai s/o Binay Kumar Rai and Others
				1033/P	Private	Done I	0.107	Bebi Singh w/o bhaktipado Singh
				1084/P	Private	Done II	0.071	Nirmalendu Rai, s/o Kalyani Charan Rai, and Others
				1085/P	Private	Done I	0.389	Rambha Devi w/o Suchand Kumbhakar and Others
				1086/P	Private	Done I	0.032	Nirmalendu Rai, s/o Kalyani Charan Rai, and Others
				1087/F	Private	Done I	0.081	Nirmalendu Rai, s/o Kalyani Charan Rai, and Others
				1088/F	Private	Done II	0.024	Nirmalendu Rai, s/o Kalyani Charan Rai, and Others
				1089/P	Private	Done I	0.119	Bebi Singh w/o bhaktipado Singh
				1094/P	Private	MOTI AAR	0.02	Gita Devi w/o Gurucharan Singh Munda, and Others
				1175/P	Private	DONE III	0.138	Arup Kumar Singh, s/o Bijay Chandra Singh, and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1176/P	Private	Purani Parti	0.358	Arup Kumar Singh, s/o Bijay Chandra Singh, and Others
				1177/P	Private	Nadi	0.107	Ratnakar Khetan s/o Nilkamal Khetan, and Others
				1178/F	Private	Purani Parti	0.117	Ratnakar Khetan s/o Nilkamal Khetan, and Others
				1179/P	Private	Nadi	0.061	Ratnakar Khetan s/o Nilkamal Khetan, and Others
				1180/P	Private	Gora II	0.022	Ratnakar Khetan s/o Nilkamal Khetan, and Others
				1182/P	Private	DONE I	0.051	Nirmalendu Rai, s/o Kalyani Charan Rai, and Others
				1183/P	Private	DONE I	0.314	Nirmalendu Rai, s/o Kalyani Charan Rai, and Others
				1184/P	Private	DONE II	0.069	Arup Kumar Singh, s/o Bijay Chandra Singh, and Others
				1185/P	Private	DONE II	0.03	Doman Kumbhakar, s/o Yugal Kumbhakar and Others
				1186/P	Private	DONE II	0.004	Doman Kumbhakar, s/o Yugal Kumbhakar and Others
				1187/F	Private	DONE II	0.117	Bebi Singh w/o Bhaktipado Singh
				1188/P	Private	DONE II	0.065	Mohan Kumar and Others
				1023/1703/P	Private	DONE III	0.219	Gita Devi w/o Gurucharan Singh Munda, and Others
				1179/1707/P	Govt.	Non Agri	0.184	Govt.
			Gangudih (J.L. No. 249)	102/P	Govt.	Rasta	0.002	Govt.
				103/P	Private	Gora II	0.002	Siva Majhi, s/o Suna Majhi and Others
				104/P	Private	Gora II	0.073	Siva Majhi, s/o Suna Majhi and Others
				105/P	Private	Gora II	0.069	Anand Majhi s/o Saraswati Majhi and Others
				109/P	Private	Gora II	0.022	Thakur Majhi and Others
				153/P	Govt.	JANGLE JHARI	0.324	Govt.
				154/P	Private	Gora II	0.125	Diku Majhi, s/o Rabi Majhi and Others
				155/P	Private	MOTI AAR	0.002	Diku Majhi, s/o Rabi Majhi and Others
				156/P	Private	GORA II	0.022	Diku Majhi, s/o Rabi Majhi and Others
				172/P	Private	GORA II	0.081	Ghasiram Majhi and Others
				173/P	Private	GORA II	0.006	Ghasiram Majhi and Others
				175/P	Private	GORA II	0.002	Diku Majhi, s/o Rabi Majhi and Others
				176/F	Private	JANGLE JHARI	0.271	Ghasiram Majhi and Others
				184/P	Private	Done I	0.01	Budhni Majhiyan w/o Ashwani Majh and Others
				185/P	Private	Done II	0.13	Budhni Majhiyan w/o Ashwani Majh and Others
				186/P	Private	PURANI PARTI	0.445	Ghasiram Majhi and Others
				187/F	Private	PURANI PARTI	0.219	Ghasiram Majhi and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				188/F	Private	Done III	0.093	Sumitra Majhiyan s/o Mandal Majhi and Others
				189/F	Private	Done I	0.004	Budhni Majhiyan w/o Ashwani Majhiar Majhi and Others
				202/P	Private	Done II	0.045	Budhni Majhiyan w/o Ashwani Majhiar Majhi and Others
				203/P	Private	Done II	0.121	Hopna Majhi and Others
				204/P	Private	Done II	0.002	Gunga Majhi and Others
				208/P	Private	Done II	0.006	Budheshwar Majhi s/o Ragdu Majhi
				209/P	Private	Done III	0.049	Budheshwar Majhi s/o Ragdu Majhi
				210/P	Private	Done III	0.065	Budhni Majhiyan. w/o Ashwani Majhi and Others
				211/P	Private	Done III	0.125	Gunga Majhi and Others
				212/P	Private	GORA II	0.026	Hopna Majhi and Others
				213/F	Private	Done III	0.024	Hopna Majhi and Others
				214/P	Private	Done II	0.032	Budhni Majhiyan. w/o Ashwani Majhi and Others
				215/F	Private	Done III	0.04	Kali Majhi and Others
				216/F	Private	Done III	0.04	Budhni Majhiyan. w/o Ashwani Majhi and Others
				217/P	Private	Done III	0.026	Kali Majhi and Others
				218/P	Private	Done II	0.018	Sonaram Majhi and Others
				219/P	Private	Done II	0.006	Budhni Majhiyan. w/o Ashwani Majhi and Others
				220/P	Private	Done III	0.018	Budhni Majhiyan. w/o Ashwani Majhi and Others
				221/P	Private	Done III	0.008	Kali Majhi and Others
				236/P	Private	MOTI AAR	0.004	Sonaram Majhi and Others
				239/P	Private	Done III	0.002	Budhni Majhiyan. w/o Ashwani Majhi and Others
				240/P	Private	Done II	0.125	Ravi Majhi and Others
				241/F	Private	Done II	0.166	Ravi Majhi and Others
				242/P	Private	MOTI AAR	0.016	Ravi Majhi s/o Mansa Majhi
				243/F	Private	Purani Parti	0.016	Kala Majhi and Others
				244/F	Private	MOTI AAR	0.016	Ravi Majhi s/o Mansa Majhi
				245/P	Private	Done II	0.089	Ravi Majhi s/o Mansa Majhi
				246/P	Private	Done II	0.024	Ravi Majhi s/o Mansa Majhi
				247/P	Private	Done III	0.176	Ravi Majhi s/o Mansa Majhi
				248/F	Private	GORA III	0.049	Ravi Majhi s/o Mansa Majhi
				249/P	Private	GORA III	0.01	Chinuva Majhiyani s/o Dhana Majhi and Others
				252/P	Private	Gora III	0.316	Sarban Majhi s/o Lodro Majhi and Others
				253/P	Private	Gora III	0.065	Sonaram Majhi s/o

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				255/P	Private	GORA II	0.04	Ravi Majhi s/o Mansa Majhi
				382/P	Private	GORA II	0.042	Balak Singh s/oand Others
				383/F	Private	Done II	0.073	Ras Bihari Panga s/o Kanan Panga
				384/F	Private	Done I	0.089	Kaliram Majhi s/o Pharsu Majhi
				385/P	Private	Done II	0.089	Phuchu Majhi, s/o Ghasia Majhi and Others
				386/P	Private	MOTI AAR	0.001	Balak Singh and Others
				388/P	Private	Done II	0.004	Mochi ram Murmu
				393/P	Private	Done I	0.002	Jobuna Manki w/o Madan Manki
				394/P	Private	Done II	0.018	Panmani Majhiyani w/o Shravan Majhi
				395/P	Private	Done II	0.109	Jobuna Manki w/o Madan Manki
				396/F	Private	Done II	0.057	Mohan Majhi s/o Shravan Majhi
				397/P	Private	Done II	0.156	Sharvan Majhi s/o Jhavar Majhi
				398/P	Private	Done II	0.134	Basanti Majhi w/o Mohan Majhi
				399/P	Private	Done II	0.125	Goshti Vihari Bag s/o Kedar nath Bag
				416/P	Private	Done II	0.01	Mohan Majhi s/o Shravan Majhi
				417/F	Private	Done II	0.04	Mohan Majhi s/o Shravan Majhi
				418/F	Private	Done II	0.036	Mohan Majhi s/o Shravan Majhi
				421/P	Private	Done II	0.069	Budhu Pramanik, s/o Chutu Pramanik and Others
				422/P	Private	Done II	0.073	Madan Manki s/o Sankat Manki
				423/P	Private	Done II	0.113	Madan Manki s/o Sankat Manki
				424/P	Private	Done II	0.093	Hopna Majhi and Others
				426/P	Private	Done II	0.006	Hopna Majhi and Others
				428/P	Private	Done II	0.051	Maniram Majhi, s/o Indrajeet Majhi and Others
				429/F	Private	Done II	0.028	Maniram Majhi, s/o Indrajeet Majhi and Others
				430/F	Private	Done II	0.032	Mukuru Majhiyani w/o Guhiram Majhi and Others
				431/F	Private	Done II	0.045	Maniram Majhi, s/o Indrajeet Majhi and Others
				432/P	Private	Done II	0.13	Maniram Majhi, s/o Indrajeet Majhi and Others
				469/P	Private	Done II	0.012	Mochi ram Murmu s/o Jeet Majhi and Others
				470/P	Private	Done II	0.018	Kaliram Majhi s/o Pharsu Majhi
				471/P	Private	Done II	0.008	Shambhu Majhi s/o Shakla Majhi and Others
				472/F	Private	Done II	0.012	Mochiram Majhi s/o Jituma Majhi
				473/F	Private	Done II	0.012	Kaliram Majhi s/o Pharsu Majhi
				474/F	Private	Done II	0.036	Mochiram Majhi and Others
				475/F	Private	Done II	0.028	Kaliram Majhi s/o Pharsu Majhi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				477/F	Private	Done II	0.032	Padu Majhi, s/o Nando Majhi and Others
				478/F	Private	Done II	0.028	Padu Majhi, s/o Nando Majhi and Others
				479/F	Private	Done II	0.028	Padu Majhi, s/o Nando Majhi and Others
				480/P	Private	Done II	0.018	Phuchu Majhi s/o Ghasia Majhi and Others
				481/P	Private	Done II	0.014	Mochiram Majhi s/o Jitu Majhi and Others
				482/F	Private	Done II	0.016	Kaliram Majhi s/o Pharsu Majhi
				483/F	Private	Done II	0.024	Shambhu Majhi s/o Shakla Majhi
				484/P	Private	Done II	0.01	Padu Majhi, s/o Nando Majhi and Others
				501/P	Private	Done II	0.01	Shambhu Majhi s/o Shakla Majhi
				511/F	Private	Done II	0.057	Ghasni Bhumijani s/o Rakhil Bhumij and Others
				512/P	Private	Done II	0.13	Ghasni Bhumijani s/o Rakhil Bhumij and Others
				515/P	Private	Done II	0.002	Surya Narayan Ghosal
				516/P	Private	Done II	0.038	Ghasni Bhumijani s/o Rakhil Bhumij and Others
				517/F	Private	Done II	0.04	Ghasni Bhumijani s/o Rakhil Bhumij and Others
				519/P	Private	GORA II	0.002	Ghasni Bhumijani s/o Rakhil Bhumij
				520/P	Private	Done II	0.034	Ghasni Bhumijani s/o Rakhil Bhumij
				521/F	Private	Done II	0.032	Mochiram Murmu and Others
				522/F	Private	Done II	0.02	Kaliram Majhi s/o Pharsu Majhi
				523/F	Private	Done II	0.02	Sarathi Majhi s/o Karu Majhi
				524/F	Private	Done II	0.049	Ghasni Bhumijani s/o Rakhil Bhumij
				525/P	Private	Gora II	0.018	Sarathi Majhi s/o Karu Majhi
				526/P	Private	Done II	0.014	Sarathi Majhi s/o Karu Majhi
				527/F	Private	Done II	0.036	Surya Narayan Ghosal
				528/P	Private	GORA II	0.028	Ghasni Bhumijani s/o Rakhil Bhumij
				570/P	Private	Done II	0.002	Surya Narayan Ghosal
				574/P	Private	Done II	0.04	Pushpa Pramanik w/o Tarni Pramanik and Others
				578/P	Private	GORA II	0.219	Pushpa Pramanik w/o Tarni Pramanik and Others
				581/P	Private	GORA II	0.061	Surya Narayan Ghoshal
				582/P	Private	GORA II	0.101	Surya Narayan Ghoshal
				585/P	Private	GORA I	0.006	Phuchu Majhi s/o Ghasia Majhi and Others
				586/P	Private	GORA II	0.267	Surya Narayan Ghoshal
				587/P	Private	GORA I	0.012	Thakur Majhi s/o Somai Majhi and Others
				592/P	Private	GORA II	0.034	Hopan Majhi s/o Raghud Majhi and Others
				593/P	Private	GORA II	0.034	Hopan Majhi s/o Raghud Majhi and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				599/P	Private	GORA II	0.002	Balak Singh s/o Jitu Singh Sardar and Others
				600/P	Private	GORA II	0.018	Balak Singh s/o Jitu Singh Sardar and Others
				601/P	Private	GORA II	0.13	Balak Singh s/o Jitu Singh Sardar and Others
				602/F	Private	GORA II	0.097	Balak Singh s/o Jitu Singh Sardar and Others
				603/P	Private	GORA II	0.405	Rabi Majhi s/o Mansa Majhi
				604/P	Private	GORA II	0.034	Rabi Majhi s/o Mansa Majhi
				605/F	Private	GORA II	0.032	Savi Majhi, d/o Suna Majhi and Others
				606/P	Private	Done II	0.01	Savi Majhi, d/o Suna Majhi and Others
				609/P	Private	Done II	0.002	Shravan Majhi s/o Jhavra Majhi
				610/P	Private	Done II	0.014	Shravan Majhi s/o Jhavra Majhi
				611/P	Private	Gora II	0.002	Ujhar Majhi, s/o Nunu Majhi and Others
				617/P	Private	GORA II	0.01	Savi Majhi, d/o Suna Majhi and Others
				990/P	Govt.	Non Agri	0.089	Govt.
				991/P	Private	Gora III	0.227	Ludku Pramanik s/o Nakul Pramanik
				992/P	Private	PURANI PARTI	0.016	Ludku Pramanik s/o Nakul Pramanik
				993/P	Private	MOTI AAR	0.038	Ashiwani Pramanik s/o Nakul Pramanik
				994/F	Private	JANGLE JHARI	0.065	Ashiwani Pramanik s/o Nakul Pramanik and Others
				995/P	Govt.	Done II	0.121	Govt.
				996/F	Private	Done I	0.065	Ashiwani Pramanik s/o Nakul Pramanik
				997/F	Private	Done I	0.028	Ashiwani Pramanik s/o Nakul Pramanik
				998/P	Private	Done I	0.243	Janardar Pramanik s/o Shankar Pramanik, and Others
				1025/P	Private	Done II	0.283	Basanti Singh Sardar w/o Bihari Bhumij
				1027/P	Private	Done II	0.032	Sobha Majhi w/o Jitu Majhi
				1028/F	Private	Done III	0.053	Bhugugini Bhumijani s/o Makra Singh and Others
				1029/P	Private	Done II	0.065	Joti Kanvar, s/o Chini Kanvar and Others
				1031/P	Private	Done II	0.01	Lali mani w/o Kashinath Majhi and Others
				1062/P	Private	Done II	0.202	Narayan Pramanik s/o Umesh Chandra Pramanik
				1063/P	Private	Done II	0.364	Narayan Pramanik s/o Umesh Chandra Pramanik
				1064/P	Private	MOTI AAR	0.032	Narayan Pramanik s/o Umesh Chandra Pramanik
				1065/P	Private	Done II	0.038	Narayan Pramanik s/o Umesh Chandra Pramanik
				1072/P	Private	Done III	0.045	Kishor Majhi, and Others
				1074/P	Private	Done III	0.051	Birdhan Majhi s/o Som Majhi
				1075/F	Private	Done III	0.089	Narayan Pramanik s/o Umesh Chandra Pramanik
				1076/P	Private	Done III	0.121	Narayan Pramanik s/o Umesh Chandra Pramanik
				1111/P	Private	Done III	0.012	Jhari Majhiyani, s/o Durga Majhi and Others
				1114/P	Private	Done II	0.04	Jhari Majhiyani, s/o Durga Majhi and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1115/F	Private	Done II	0.049	Pushpa Pramanik w/o Tarni Pramanik
				1116/F	Private	Done II	0.024	Pushpa Pramanik w/o Tarni Pramanik
				1117/F	Private	Done II	0.02	Pushpa Pramanik w/o Tarni Pramanik
				1118/F	Private	Done II	0.008	Pushpa Pramanik w/o Tarni Pramanik
				1119/P	Private	Done II	0.01	Pushpa Pramanik w/o Tarni Pramanik
				1120/P	Private	Done II	0.008	Pushpa Pramanik w/o Tarni Pramanik
				1121/P	Private	Done II	0.001	Pushpa Pramanik w/o Tarni Pramanik
				1122/F	Private	Done II	0.214	Pushpa Pramanik w/o Tarni Pramanik
				1123/P	Private	Done II	0.006	Soma Majhi s/o Kunvar Majhi
				1124/P	Private	Done II	0.089	Alanga Majhiyani d/o Jadu Majhi and Others
				1125/P	Private	Done II	0.198	Thakur Majhi, s/o Somai Majhi and Others
				1126/F	Private	Done II	0.057	Alanga Majhiyani d/o Jadu Majhi and Others
				1127/F	Private	Done II	0.045	Soma Majhi s/o Kunvar Majhi
				1128/F	Private	Done II	0.105	Thakur Majhi and Others
				1129/P	Private	Done II	0.065	Soma Majhi s/o Kunvar Majhi
				1130/P	Private	Done II	0.008	Alanga Majhiyani and Others
				1131/F	Private	Done II	0.008	Soma Majhi s/o Kunvar Majhi
				1132/F	Private	Done III	0.016	Thakur Majhi and Others
				1133/F	Private	Done III	0.008	Basanti Singh Sardar w/o Bihari Bhumij
				1134/F	Private	PURANI PARTI	0.02	Basanti Singh Sardar w/o Bihari Bhumij
				1135/P	Private	Done II	0.038	Goshti Vihari Bag s/o Kedar nath Bag
				1136/P	Private	PURANI PARTI	0.002	Mundru Majhi s/o Chhota Durga Majhi and Others
				1137/P	Private	Done II	0.012	Mundru Majhi s/o Chhota Durga Majhi and Others
				1138/F	Private	Done III	0.045	Lali Majhi w/o Kashinath Majhi and Others
				1139/F	Private	Done III	0.04	Bhugugini Bhumijani s/o Makra Singh and Others
				1140/F	Private	Done III	0.049	Soma Majhi s/o Jitu Majhi
				1141/F	Private	Done III	0.032	Mundru Majhi and Others
				1142/P	Private	Done III	0.04	Mundru Majhi and Others
				1143/P	Private	Done III	0.219	Satish Chandra Bag s/o Kedar Nath Bag
				1144/P	Private	Done III	0.073	Sravan Bhumij, s/o Jivan Bhumij and Others
				1145/F	Private	Done III	0.028	Sravan Bhumij, s/o Jivan Bhumij and Others
				1146/F	Private	Done III	0.089	Upendra Kumar and Others
				1147/P	Private	Done III	0.002	Arti Devi w/o Kanhar Pramanik
				1148/P	Private	Done III	0.042	Piru Bhumij, s/o Leda Bhumij and Others
				1149/P	Private	Done III	0.01	Jiten Bhumij s/o Jahlu Bhumij
				1169/P	Private	Done III	0.02	Basudev Mahato s/o Dhannjay Mahato and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1230/P	Govt.	RIVER	0.202	Govt.
				1607/P	Govt.	PURANI PARTI	0.109	Govt.
				1608/P	Private	DONE II	0.097	Trilochan Singh Sardar s/o Lakhan Bhumij
				1609/P	Private	DONE II	0.073	Mohan Kumar and Others
				1610/P	Private	GORA III	0.016	Simant Pramanik s/o Bisho Napit and Others
				1611/P	Private	Gora II	0.259	Dashrath Bhumij s/o Bhoto Bhumij and Others
				1619/P	Private	Purani Parti	0.494	Bhuri Majhiyani, d/o Durga Majhi and Others
				1620/P	Private	DONE II	0.567	Sarvan Bhumij and Others
				1631/P	Private	GORA II	0.259	Thathuram Majhi s/o Lakap Majhi
				1632/P	Private	Gora	0.652	Purushotam Singh Sardar, s/o Jay Jivan Singh and Others
				1633/P	Private	GORA II	0.251	Shuku Majhi and Others
				1637/P	Private	GORA II	0.235	Shuku Majhi and Others
				1638/P	Private	GORA II	0.17	Sahu Majhi s/o Kandra Majhi
				1639/P	Private	DONE II	0.117	Rabi Majhi s/o Madhav Majhi and Others
				1640/P	Private	DONE II	0.097	Jay Jiven Singh Sardar, s/o Puroshtam Singh and Others
				1644/P	Private	DONE II	0.022	Sanu Majhi, s/o Ravi Majhi and Others
				1651/P	Private	GORA II	1.036	Lakhipado Singh Sardar, s/o Motilal Sardar and Others
				1652/P	Private	Done III	0.002	Mochiram Murmu and Others
				1653/P	Private	Done III	0.138	Shuku Majhi and Others
				1654/P	Private	GORA II	0.615	Shuku Majhi and Others
				1655/P	Private	GORA II	0.012	Parvati Majhi w/o Som Majhi
				1678/P	Private	GORA II	0.267	Sitaram Majhi s/o Lakhan Majhi
				1685/P	Private	GORA II	0.283	Som Majhi s/o Kunvar Majhi
				1686/P	Private	GORA II	0.008	Thathuram Majhi s/o Lakap Majhi
				1688/P	Govt.	DUNGRI	0.049	Govt.
				1690/P	Private	GORA II	0.016	Hare Krishto Napit
				1998/P	Private	Done II	0.17	Sukram Majhi s/o Thathu Ram Majhi and Others
			Ghoraling (J.L. No. 205)	2199/P	Forest	Non Agri	0.461	GOVT.
				2235/P	Govt.	Non Agri	0.152	GOVT.
				2236/P	Private	GORA I	0.026	Khiyan Kevart s/o Rohin Devart
				2241/P	Private	DONE II	0.028	Parikshit Mahato s/o Lerha Mahato
				2243/P	Private	DONE II	0.032	Gan Mahato, s/o Shuku Mahato and Others
				2244/F	Private	DONE II	0.202	Banu Mahato, s/o Shuku Mahato and Others
				2245/F	Private	DONE II	0.02	Ganu Mahato, s/o Shuku Mahato and Others
				2246/F	Private	DONE II	0.045	Karmu Mahato, s/o Guhi Mahato and Others
				2247/F	Private	DONE II	0.065	Karmu Mahato, s/o Guhi Mahato and Others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2248/F	Private	DONE II	0.045	Subhadra Mahtani w/o Jitu Mahato
				2249/F	Private	DONE II	0.091	Subhadra Mahtani w/o Jitu Mahato
				2250/P	Private	DONE II	0.014	Subhadra Mahtani w/o Jitu Mahato
				2253/P	Private	DONE II	0.002	Koka Mahato, s/o Manu Mahato and Others
				2255/P	Govt.	Non Agri	0.02	GOVT.
				2427/P	Private	Gora III	0.042	Sri Shibu Mahato s/o Lt. Kokil Mahato
				2428/P	Private	GORA III	0.024	Karmu Mahato s/o Guhi Mahato and Others
				2429/P	Private	Gora III	0.026	Ganu Mahato, s/o Shuku Mahato and Others
				2430/P	Private	Gora III	0.028	Koka Mahato, s/o Manu Mahato and Others
				2431/P	Private	GORA III	0.073	Anand Mahato, s/o Khudu Mahato and Others
				2433/P	Private	GORA III	0.089	Lal Bihari Mahato s/o Kanhai Mahato
				2597/P	Private	GORA III	0.121	Jagarnath Mahato, s/o Lal Bihari Mahato and Others
				2598/P	Govt.	Non Agri	0.194	Govt.
				2604/P	Private	DONE III	0.012	Anand Mahato, s/o Khedu Mahato and Others
				2605/P	Private	DONE III	0.028	Parikshit Mahato s/o Lerha Mahato
				2606/P	Private	Gora III	0.148	Motilal Mahato, s/o Gokul Mahato and Others
				2607/P	Govt.	Non Agri	0.012	Govt.
				2608/P	Private	GORA III	0.243	Motilal Mahato, s/o Gokul Mahato and Others
				2609/P	Private	GORA III	0.194	Kaluram Mahato s/o Podi Mahato
				2610/P	Private	GORA III	0.079	Anand Mahato, s/o Khedu Mahato and Others
				2612/P	Forest	GORA III	0.057	Govt.
				2613/P	Forest	DONE III	0.049	Govt.
				2614/P	Private	GORA III	0.111	Jagarnath Mahato, s/o Lal Bihari Mahato and Others
				2615/P	Private	GORA III	0.069	Kushal chandra Mahato s/o Lal Mahato
				2616/P	Private	GORA III	0.008	Kushal chandra Mahato s/o Lal Mahato
				2618/P	Private	Gora III	0.014	Anand Mahato, s/o Khedu Mahato and Others
				2640/P	Private	Done II	0.036	Motilal Mahato, s/o Gokul Mahato and Others
				2641/P	Private	Done II	0.111	Motilal Mahato, s/o Gokul Mahato and Others
				2642/P	Private	GORA III	0.089	Gholtu Mahato s/o Bhairab Mahato
				2643/P	Forest	Non Agri	0.105	Govt.
				2714/P	Private	Gora III	0.001	Kaluram Mahato s/o Podi Mahato
				2715/P	Govt.	GORA III	0.144	Govt.
				2716/P	Govt.	Non Agri	0.253	Govt.
				2720/P	Private	GORA II	0.045	Sri Mathur Mahato s/o Kalu Mahato
				2721/F	Private	GORA II	0.049	Durga pad Mahato s/o Goltu Mahato
				2722/F	Private	GORA II	0.061	Phulchand Mahato s/o Aghnu Mahato
				2723/P	Private	GORA II	0.107	Jintu Mahtani w/o Muniram Mahato

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2724/P	Private	GORA II	0.022	Kritivas Mahato, s/o Mansa Mahato and Others
				2743/P	Private	Purani Parti	0.395	Santosh Bhumij s/o Bhim Bhumij
				2744/P	Private	Purani Parti	0.119	Dukhu Majhi Sarkar s/o Budhiya Majhiyan
				2813/P	Private	GORA III	0.103	Jaydev Mahatos/o Rebti Mahato and Others
				2612/3219/F	Private	DONE II	0.093	Karmu Mahato , s/o Guhi Mahato
				2234/3256/P	Govt.	Non Agri	0.038	Govt.
				2244/3263/F	Forest	Non Agri	0.036	Govt.
				2244/3264/F	Private	Gora I	0.144	Gurua Majhi and Others
				2250/3265/P	Forest	Non Agri	0.144	Govt.
				2716/3280/P	Forest	Non Agri	0.144	Govt.

[F. No. NHAI/PIU-Durgapur/NH-32/3D]

MAYA PRAKASH, Director